

प्रकाशक :

चांदमल सीपाणी

मंत्री

श्री जिनदत्तसूरि भण्डल,

दादावाडी, अजमेर ( राजस्थान )

\*

जुलाई, १९७३

प्रति १०००

मूल्य ६-००

\*

मुद्रक :

शिरीशचन्द्र शिवहरे, एम० ए०

दी फाइन आर्ट प्रिंटिंग प्रेस,

अजमेर ( राजस्थान )

## रामर्पण

आतुर ज्ञान तृषा को जाग्रत करे, पुष्ट करे  
और वृद्धि करे उन सब जिज्ञासुओं को ।

## विषयानुक्रम

क्रमाङ्क			पृष्ठ
१	प्रायकथन	....	१
२.	मुनि सुन्दरसूरि और उनका समय	....	११
३.	प्रकाशक के दो शब्द		१८
४.	प्रथम अधिकार	सभवा	१
५.	द्वितीय अधिकार	स्त्री भ्रमत्व मोचन	३३
६	तृतीय अधिकार	अपत्य भ्रमत्व मोचन	४१
७	चतुर्थ अधिकार	धन भ्रमत्व मोचन	४४
८	पंचम अधिकार	देह भ्रमत्व मोचन	५२
९	षष्ठम अधिकार	विषय प्रमाद त्याग	६२
१०	सप्तम अधिकार	कषाय त्याग	६९
११.	अष्टम अधिकार	शास्त्रगुण	८७
१२	नवम अधिकार	मनोनिग्रह	९९
१३	दशम अधिकार	वैराग्योपदेश	११३
१४	एकादश अधिकार	धर्म शुद्धि	१४१
१५.	द्वादश अधिकार	देव, गुरु, धर्म शुद्धि	१५२
१६	त्रयोदश अधिकार	यति शिक्षा	१६६
१७.	चतुर्दश अधिकार	मिथ्यात्वादि निरोध	२०६
१८.	पंचदश अधिकार	शुभवृत्ति	२२९
१९.	षोडश अधिकार	साम्य सर्वस्व	२३८

श्री सद्गुरुभ्यो नमः

## प्रायकथन

इस पंचम काल में जैन तीर्थंकर अथवा केवली नहीं होते । अतः ऐसे विषम काल में जैन धर्म को स्थिर रखने का श्रेय आचार्य महाराजों को है । अतएव नमस्कार मन्त्र में तीसरे पद “नमो आचार्याणं” में आचार्य महाराज को नमस्कार किया है । ये आचार्य महाराज अपने समय के आध्यात्मिक पुरुषों में विशिष्ट ज्ञानवान्, विद्वत्ता में उत्तम कोटि पर स्थित, परम त्यागी तथा समस्त प्राणियों का हित चाहने वाले होते हैं । ये त्यागी साधु महात्मा आचार्य लोक-प्रसिद्धि नहीं चाहते थे । इसलिये इनके विषय में जानकारी बहुत कम है । यही बात हमारे ‘अध्यात्म कल्पद्रुम’ के रचयिता श्री मुनि सुन्दरसूरिजी के विषय में भी है । अतएव वे किस समय में हुए, उनके समय में साधु तथा जैन समाज या जैन धर्म की क्या परिस्थिति थी इसकी जानकारी बहुत कम है । जो कुछ मिलती भी है वह बहुत कुछ कल्पना मात्र है । मुनि सुन्दरसूरिजी का जन्म सन्वत् १४३६ ( सन् १३८० ) में हुआ था । परन्तु इनके माता-पिता कौन थे ? कहाँ के रहने वाले थे ? इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं । सं० १४४३ में जब ये अपनी आयु के सप्तम वर्ष में अवतीर्ण हो रहे थे, दीक्षा ली । परन्तु ये मुनि महाराज आचार्य श्री सोमसुन्दरसूरि के पट्ट पर विराजे, इसलिये इन्हें सोम-सुन्दरसूरि महाराज का शिष्य मानते हैं । मुनि सुन्दरसूरि महाराज की विक्रम सं० १४६६ में वाचक पदवी (उपाध्याय) दी । इस समय सोमसुन्दरसूरि गच्छाधिपति थे । इनके छै शिष्य थे, जो बड़े विद्वान् थे । उन सबको भी ‘सूरि’ पद से अलंकृत किया गया था । मुनि सुन्दरसूरि महाराज को संस्कृत बोलने की अद्भुत शक्ति, तत्काल कविता रचने की प्रतिभा तथा सहस्रावधानिता की विस्मयकारिणी पटुता आदि अनेक गुणों के कारण सं० १४७८ में बड़ी धूमधाम से



'सूरि' पद से भूषित किया गया; इसीसे मुनि सुन्दरसूरि का नाम विख्यात हुआ। पर प्रजाओं के अपुण्य से आपका सं० १४९९ में स्वोत्सास हो गया। इसके १२५ वर्ष पश्चात् श्री हरिविजयसूरि महाराज पट्ट पर विराजे। इन्होंने दिल्ली के बादशाह अकबर को जैन धर्म का महत्त्वं समझाया। महाराज ने यद्यपि अगणित ग्रंथों की रचना की थी पर उनमें से अनेक ग्रंथ कालांश में विलीन हो गए, आज तो उनके रचित कुछ ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। अध्यात्म कल्पद्रुम उन्हीं उपलब्ध ग्रंथों में एक अनुपम ग्रंथ है। इसमें साधुओं के सदाचरणों का वर्णन किया गया है। साधुओं में समता, निरीहता, निष्कल-भावना, सात्विकता आदि गुण किस प्रकार उपाजित हो सकते हैं इसका भी विशद विवेचन किया गया है। यह ग्रंथ विविध छन्दों में निबद्ध होकर संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बम्बई निवासी सोलीसीटर स्वर्गीय भोतीचन्द्र गिरधरलाल कापड़िया ने जो संस्कृत भाषा के धुरंधर विद्वान् और धर्म के प्रखर मर्मज्ञ, ये विस्तार पूर्वक, गुजराती भाषा में अनुवाद किया था। इन्होंने ओर भी अनेक उपम ग्रंथों का गुजराती भाषा में अनुवाद किया है।

जैन धर्म के उत्तम ग्रंथों की सत्ता जो हिन्दी में बहुत न्यून है इसकी एकमात्र कारण यह है कि जैन साहित्य को हिन्दी भाषा में प्रस्तुत करने की चेष्टा नहीं की गई।

मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ कि अध्यात्म कल्पद्रुम जैसे अद्भुत ग्रंथ का गुजराती भाषान्तर दृष्टिगोचर हुआ। मैंने इसका तीन बार आद्योपान्त पारायण किया। इसी समय इसको हिन्दी में संचिप्त रूप में प्रस्तुत करने की इच्छा हुई। जिससे सर्वसाधारण जन पढ़कर लाभ उठा सकें। इस काये में बड़े भाई पू० गोपीचन्दजी घाड़ीवाल ने मुझे प्रेरणा ही नहीं दो अपितु मेरी लिखी हुई पुस्तक को पढ़कर भावार्थ तथा भाषा की त्रुटियों को दूर किया। यह पुस्तक अब प्रिय पाठकों के लिये समर्पित है। यहाँ मैं यह प्रथम ही वता देना उचित समझता हूँ कि मैं न तो हिन्दी भाषा का च्चकोटि का विद्वान् हूँ और न धर्म के विमल मार्ग का ही पारखी। इसलिये इसमें भाषा-दोष रहना स्वाभाविक है।

मैंने इस ग्रन्थ के भाषान्तर करने में गुजराती अनुवाद का अनुसरण किया है क्योंकि गुजराती संस्करण एक विधावान् और धर्मज्ञ का लिखा हुआ है। प्रस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध में कुछ परिचयात्मक बातें पाठकों के समक्ष रखना उचित समझता हूँ। यह ग्रन्थ साधु समाज को दृष्टि में रखकर लिखा गया है। साधारण गृहस्थीजन इतना त्याग नहीं कर सकते। संत महात्माओं को अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है और समाज के प्रति अनेक प्रकार के कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। वे यदि ऐसा नहीं करें तो समाज तथा धर्म का पतन हो जाय। पर वास्तव में सद्गृहस्थ ही साधु-महात्माओं तथा धर्म की जड़ हैं। इन गृहस्थियों की ही सहायता से धर्म संस्थाएँ आज भी स्थित हैं। इस ग्रन्थ में सोलह अध्याय हैं। ये सब बहुत मनन करने योग्य हैं।

पहला अध्याय:—इसमें समता रखने का उपदेश है। संसार में सब जीव सुख की इच्छा रखते हैं। सुख प्राप्त करने के लिए वे अनेक उपाय करते हैं और साधनाओं में सफल होकर सुख का अनुभव करते हैं। सुख को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। कुछ सुख स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी। जो सुख समता बुद्धि प्राप्त करने वाले प्रसव के अनुकूल होते हैं वह स्थायी कहलाता है। ऐसे सुख का अनुभव इस लोक में तो होता ही है परन्तु परलोक में भी इसका अनुभव होता है। अस्थायी सुख वह है जिसका कुछ काल पश्चात् अन्त हो जाता है। विषयो में आसक्ति या उनके उपयोग से जो सुख पैदा होता है उसका परिणाम दुःख होता है।

दूसरा अध्याय: इसका विषय है स्त्री-ममत्व मोचन। इस अध्याय में स्त्री समाज का बहुत अनुचित शब्दों में वर्णन किया है। वास्तव में देखा जाय तो स्त्रियाँ चरित्र की दृष्टि से मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक उत्तम व सयम, सदाचार, जप, तप, व्रत में तत्पर रही हैं। वस्तुतः भारत की महिलाओं ने ही धर्म एवं संस्कारों की मर्यादा की रक्षा की है। फिर भी इनको इतना दूषित बताने का कारण क्या है? पक्षपात रहित होकर विचारने की आवश्यकता है। प्रकृति ने पुरुष को स्त्री जाति से शारीरिक और मानसिक शक्ति की

तुलना में अधिक शक्तिशाली, कार्यशील और दृढ़ मनोवृत्ति वाला बनाया है। प्राचीन काल से आज तक स्त्रियों प्रायः मनुष्यों का अनुगमन करती आई हैं। अतः मनुष्य स्त्रियों का स्वामी बना हुआ है। मनुष्य के स्वभाव में कुछ कटुता, गर्व या अहंभाव होता है। इसलिये अपने को सशक्त बनाने के लिये स्त्रियों के चरित्र के प्रति दूषित भावनाएँ रखता है। गृहस्थी पुरुषों को अपनी वास्तविक परिस्थिति समझनी चाहिये और अपने कर्तव्य को समझना चाहिये। यदि वे अपनी स्त्रियों को विपन्नेल अथवा गले की धट्टी समझ कर तिरस्कार करेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जायगा। समाज कभी भी उन्नति के पथ का यात्री नहीं बन सकेगा।

तीसरा अध्याय: इसमें सन्तान के प्रति ममत्व करना चाहिये या नहीं इस विषय पर उपदेशरूप में लिखा गया है। यदि सन्तान से ममत्व त्याग दिया जाय और उसकी भलाई बुराई से उदासीन वृत्ति रखी जाय तो सन्तान का अधःपतन हो जायगा, उसको न धर्म का ज्ञान होगा और न उसमें मनुष्यत्व ही पैदा हो सकेगा। वह सर्वत्र पशु समान ही व्यवहार करेगा, जिसका परिणाम होगा धर्म का नाश। इसलिये गृहस्थी पुरुष को सावधान रहते हुए अपने कर्तव्य का ध्यान रख कर वर्तव्य करना चाहिये। परिवार के सभी प्यारे अंगों से चाहे वह पत्नी हो या पुत्र उचित प्रेम रखना चाहिये। यहाँ यह समझने की बड़ी आवश्यकता है कि उनके प्रेम में अन्धा नहीं हो जाना चाहिये। विद्वानों ने प्रेम को दो रूपों में देखा है एक प्रशस्त और दूसरा अप्रशस्त। प्रशस्त प्रेम कल्याणकारी होता है। प्रशस्त प्रेम से, श्री तथा सन्तान में अनेक सद्गुण पैदा होते हैं। वे कुमार्ग में जाने से बचते हैं, उनका चरित्र सुधरता है। उनको नये मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। यही प्रशस्त प्रेम धर्म का स्वरूप है जो मोक्ष-प्राप्ति का भी सहायक बन जाता है। अप्रशस्त प्रेम तो सदा हानिकारक है, अतः वह सर्वदा त्याज्य है।

चौथा अध्याय: यहाँ धन के विषय में बताया गया है और शिक्षा दी है कि धर्म के पीछे पागल नहीं होना चाहिये। जो धन सत्य, न्याय या ईमानदारी से प्राप्त हो उसी में संतोष रखना चाहिये। धन

प्राप्ति के लिये गृहस्थियों को आलस्य त्याग कर उद्यम करना चाहिये, प्राप्त किये धन को धर्म तथा शुभ कार्यों में लगाना चाहिये। धन के मालिक बनना चाहिये, गुलाम नहीं। धन कमाने, भविष्य के लिये बचाने या रक्षा करने में प्रायः पुरुष उचित और अनुचित भावों को भूल जाता है। उन्हें न धर्म की स्मृति रहती है न अपने स्वास्थ्य का ध्यान रहता है। ऐसे लोगों को धन का गुलाम कहा जाता है। उनका अधःपतन अवश्य-भावी है। जो धन न्याय पूर्वक प्राप्त होता है और जिसका उपयोग, परोपकार या धार्मिक कार्यों में होता हो वही सफल है। इसके अतिरिक्त सब धन पाप का हेतु है।

पाँचवाँ अध्याय : यह देह के ममत्व पर लिखा गया है। इसका सार यह है देह के प्रति इतना ममत्व नहीं रखना चाहिये कि उसको भक्ष्य अभक्ष्य आदि खिला कर पुष्ट करें और इतना कोमल बना दें कि वह थोड़ा भा कष्ट सहन न कर सके। उसे प्रत उपवास आदि कर के इतना कमजोर भी नहीं बनाना चाहिये कि हर काम में बाधा उत्पन्न हो। जो भी धर्म कार्य किया जाता है वह स्वस्थ देह के बिना नहीं हो सकता। इसलिए शरीर के स्वास्थ्य के प्रति उदासीन नहीं रहना चाहिये। शरीर को एक प्रकार का किराये का मकान समझना चाहिये। जिस प्रकार एक उत्तम पुरुष किराये के मकान को सदा साफ सुथरा और सही हालत में रखता है परन्तु उसका मकान पर ममत्व नहीं होता उसी प्रकार देह का इस प्रकार पोषण करना चाहिये कि वह स्वच्छ, पवित्र और स्वस्थ रहे जिससे वह भली भाँति धर्म कार्य कर सके।

छटा अध्याय : यह प्रमाद विषय पर लिखा गया है। पिछले अध्यायों में स्त्री, धन, पुत्र और शरीर के मोह-त्याग को बाह्य त्याग बताया था अब अन्तरंग त्याग का विवेचन करते हैं। विषय, कषाय और प्रमाद का त्याग अन्तरंग त्याग है। जैन परिभाषा के अनुसार प्रमाद शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। इसमें पाँचों इन्द्रियों के विषय, कषाय, विक्रिया, निद्रा और मद आदि का समावेश होता है। इस अध्याय में पाँचों ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त विषयों के त्याग के उपदेश का वर्णन है। इन्द्रियों के द्वारा भोगे जाते हुए सभी विषय बड़े सुन्दर, रोचक और आनन्द दायक लगते हैं, पर परिणाम में सदा कष्ट दायक सिद्ध होते हैं।

यहाँ तक कि इन विषयों के फंदों में फँस कर मनुष्य वेईमान हो जाता है। वह ऐसे बुरे कर्मों में फँस जाता है कि उसे मृत्यु के पश्चात् नरक में जाना पड़ता है।

सातवाँ अध्याय : यहाँ 'कषाय-त्याग' पर बल दिया है। कषाय में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का समावेश होता है। ये सब वस्तुएँ प्रत्यक्ष में हानिकारक हैं। कषाय से सुकृत का नाश होता है। मान वड़े-वड़े वाहुवली का भी ज्ञान नष्ट कर देता है। लोभ के कारण सीता का अपहरण प्रसिद्ध है। माया से इस लोक में अविश्वास और परलोक में नीच गति प्राप्त होती है।

आठवाँ अध्याय : यहाँ शास्त्राभ्यास करने का उपदेश है। इस युग-जमाने में ज्ञान की कमी नहीं। परन्तु इस ज्ञान को अब्रान ही कहते हैं। जिस ज्ञान से त्याग, वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तथा वस्तु के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तो वह अब्रान ही है। जिस पुरुष को वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो वही ज्ञानी है। ऐसा ज्ञानी इसी नरदेह में अगणित कर्मों का क्षय कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

नवाँ अध्याय : यह चित्र दमन पर लिखा गया है। इन्द्रियों पर अंकुश रखने का, कषाय त्याग का, समभाव रखने का जो उपदेश दिया है उसका उद्देश्य मन को वश में करना है। जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। यद्यपि मन को वश करना अति कठिन है पर असम्भव नहीं। मनोनिग्रह से मोक्षगमन सरल हो जाता है।

दसवाँ अध्याय : इसमें वैराग्य का उपदेश है। यहाँ बताया गया है कि सांसारिक सुख क्षणिक है, कल्पित है तथा नरक में ले जाने वाला है। पुरुष का सच्चा स्वार्थ मोक्ष की साधना है। इसलिए जब तक मृत्यु न हो तब तक पुरुषार्थ करते हुए अपना हित-साधन कर लेना चाहिये। मृत्यु से कभी न तो डरना चाहिये न उसकी इच्छा ही करनी चाहिये, वरन् सदा मृत्यु के लिए तैयार रहना चाहिये। जीवों को कार्य ऐसे करने चाहिये कि जिनसे पुराने कर्म क्षीण हो जावें और नये बँधे (पैदा) नहीं।

ग्यारहवाँ अधिकार : धर्म शुद्धि पर है। धर्म ही प्राणी को संसार से तारता है। इसलिये इसे प्रमाद, भान, माया, मोह, मत्सर आदि से मलीन नहीं करना चाहिये। इस संसार में गुप्त सुकृत्य जो सौभाग्य प्राप्त करता है वह प्रगट सुकृत्य लाभ नहीं दे सकता। अपने यश के लिए किया गया सुकृत्य लाभदायक नहीं होता। अपना यश सुनकर प्रसन्न होना हानिकारक है। इसलिए धर्म चाहे थोड़ा हो पर वह शुद्ध होना चाहिए। इससे महान् फल की प्राप्ति होती है। एक छोटासा दीपक जैसे अंधकार का नाश करता है वैसे ही थोड़ासा भी शुद्ध धर्म महान् फल देता है।

बारहवाँ अधिकार : गुरु शुद्धि के विषय में है। सब तत्त्वों में गुरु-तत्त्व मुख्य है। अतएव परीक्षा करके सद्गुरु का वरण करना चाहिये। कारण, जैसे सुगुरु मनुष्य को तारता है वैसे ही कुगुरु मनुष्य को भव सागर में डुबो देता है। यह पंचम काल महा भयानक है। इस काल में कोई तीर्थंकर या केवलज्ञानी नहीं होते। जैन धर्म जो आज तक स्थिर है वह ज्ञानी-त्यागी आचार्य महाराज के सदुपदेशों के कारण ही है। लेकिन समय के प्रभाव से ये भी अछूते नहीं रहे। वे ज्ञानी महाराज जिन्होंने धर्म की रक्षा की और उसका विस्तार किया परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इन्हीं के पट्टधर केवली तथा ज्ञानी महाराजों की अनुपस्थिति में शासन में मोटे लुटेरे बन गये। वे श्रावकों की पुण्य-लक्ष्मी को लूटते हैं। आज के मनुष्य अब त्राण के लिए पुकार करें तां किसकी करें। राजा की अनुपस्थिति में क्या कोतवाल चोर नहीं होता? लोगों की दृष्टि में राग की मात्रा बहुत बढ़ गयी है इस कारण अशुद्ध देव, गुरु, धर्म को सच्चा मानकर हर्ष मनाते हैं और इस लोक तथा परलोक दोनों को विकृत कर देते हैं।

तेरहवाँ अधिकार : यति-शिक्षा पर है। यति शब्द से संसार से विरक्त रहने की प्रतिज्ञा लेने वाले साधु, मुनि, श्री पूज्य महाराज आदि का समावेश होता है! इस अधिकार में संसार से विरक्त रहने वाले यात्रियों को संसार में कैसा व्यवहार करना चाहिये बताया है। ऐसे विरक्त पुरुष पाँचों इन्द्रियों को वश में रखते हैं। काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये राग द्वेष से

लिए धन्यवाद समर्पित करता हूँ। जिनदत्तसूरि मण्डल, अजमेर के प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट करना मेरा सत्कर्तव्य है, जिसने इस पुस्तक को प्रकाशित करने का भार वहन कर मेरी धर्म-प्रचार-भावना को साकार रूप दिया है।

धर्माभिरुचि पाठकवृन्द इस पुस्तक को पढ़कर यत्किंचित् भी अपने अन्तःकरण या आत्मा को धार्मिक भावना से परिष्कृत करेंगे तो मैं अपना श्रम सफल समझूँगा।

सिरपुरकागजनगर

१-१-१९७२

हरिश्चन्द घाड़ीवाल

# गुनि सुन्दरशूरि और उनका समय

[ चांदमल सीपाणी ]

यह अध्यात्म कल्पद्रुम ग्रंथ सूरि महाराज ने किस वर्ष लिखा इसका निर्णय करना कठिन है। परन्तु इस ग्रंथ के विषयों को दृष्टि में रखकर सर्गावना की जाती है कि सूरि महाराज ने उपदेश रत्नकार आदि ग्रंथों की रचना के बाद, जीवन के अन्तिम भाग में, अपने अनुभव का रहस्य इस ग्रंथ द्वारा प्रगट किया है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह ग्रंथ संवत् १४७५ से १५०० के मध्यवर्ती काल में लिखा गया है।

इस ग्रंथ की भाषा और विवेचन की शैली बहुत उत्तम है। जिन जिन विषयों का सूरि महाराज ने विवेचन किया है उन सबको अत्यंत प्रभावोत्पादक शब्दों में लिपिबद्ध किया है। ग्रंथ में प्रयुक्त संस्कृतनिष्ठ भाषा को देखकर यह कहा जायगा कि उनका संस्कृत भाषा पर उच्चकोटि का अधिकार है, अलंकारों के प्रयोग में वे सिद्धहस्त हैं, दृष्टांत और उपमान अलंकार तो बहुत रोचक और स्पष्ट हैं, इनके प्रयोग से कही गई बात बहुत प्रभावोत्पादक तथा स्पष्ट हो गई है। इस ग्रंथ की वाक्य-रचना बड़ी मार्मिक है। इस ग्रंथ में सूरि महाराज ने प्रायः अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है जिससे भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी इसे पढ़ और सुनकर अभित आनन्द पाते हैं। विविध भाषाओं पर अधिकार रखना साधारण विद्वान् पुरुषों के वश की बात नहीं है।

अधिकारों का क्रम इस प्रकार रखा गया है कि एक के बाद एक अधिकार उत्तरोत्तर अधिक उपयोगी बातों पर प्रकाश डालता है। जो व्यक्ति इस ग्रंथ को श्रद्धा और प्रेम से पढ़ते हैं उन्हें बहुत आनन्द मिलता है।

भारत में समुचित ऐतिहासिक सामग्री के अभाव के कारण प्राचीन वार्ताओं, मर्यादाओं और आचरणों का विशुद्ध परिचय प्राप्त करना बहुत कठिन है। यद्यपि जैतियों के सम्बन्ध में भी यही बात सत्य है



फिर भी इनके सम्बन्ध में प्राप्त आँकड़ों से स्थिति कुछ ठीक बन जाती है। गुजरात आदि भारत के कुछ प्रान्तों का थोड़ा-बहुत जो इतिहास मिलता है वह जैन ग्रंथों के आधार पर ही उपलब्ध होता है। हेमचन्द्राचार्य और उसके उत्तरवर्ती [वाद में आने वाले] जैन विद्वानों ने थोड़ा-बहुत लिखा है जो मानव कल्याण की उत्तमोत्तम उपयोगी सामग्री है। हेमचन्द्राचार्य के पूर्ववर्ती आचार्यों के सम्बन्ध में चतुर्विंशति ग्रंथ आदि ग्रंथों में इतिहास मिलता है और उसके बाद के आचार्यों के लिये आधार भूत पद्यावलियाँ मिलती हैं। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह समझा जाय कि इस महान् ग्रंथ के कर्ता का पर्याप्त इतिहास नहीं मिलता, परन्तु इधर-उधर दूर दूर खोज वीन के बाद जो कुछ मिला है उसका यहाँ उल्लेख किया जाता है।

इस महान् ग्रंथ के कर्ता का नाम मुनि सुन्दरसूरि है। उनका जन्म विक्रम संवत् १४३६ में (सन् १३८० में) हुआ था। उनका जन्म किस नगर में हुआ, उनके माता-पिता कौन थे और वे किस जाति के थे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं मिलती। उन्होंने सात वर्ष की आयु में संवत् १४४३ में जैन धर्म की दीक्षा ली थी।

मुनि सुन्दरसूरि महाराज ने किस गुरु से दीक्षा ली इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिलती। कालान्तर में वे सोमसुन्दरसूरि के पद पर विराजे इससे वे उनके शिष्य थे ऐसा माना जाता है, परन्तु मुनि सुन्दरसूरि के दीक्षा काल के समय सोमसुन्दरसूरि की आयु तेरह वर्ष की थी इससे उनकी शिष्यता में सन्देह होता है। मुनि सुन्दरसूरिजी ने 'गुर्वावली' में देवचन्द्रसूरि के सम्बन्ध में जो उस समय तपगच्छ के मूल पद पर थे और गच्छाधिपति थे, लगभग सत्तर श्लोकों की रचना की, जिससे अनुमान किया जाता है कि वे मुनि सुन्दरसूरि के दीक्षा गुरु होंगे। देवचन्द्रसूरि के पद पर सोमसुन्दरसूरि विराजे। इन्हें संवत् १४५० में 'उपाध्याय' पद और संवत् १४५७ में 'सूरि' पद प्रदान किया गया। वे गच्छाधिपति बन हुए इसकी भी जानकारी नहीं मिलती।

मुनि सुन्दरसूरि को वाचक पदवी (उपाध्याय पद) विक्रम संवत् १४६६ में दी गई और उस समय से वे मुनि सुन्दर उपाध्याय के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस समय गच्छाधिपति सोमसुन्दरसूरि थे। देवराज

सेठ के आग्रह से विक्रम संवत् १४७८ में इन्हें 'सूरि' पद मिला और उसके बाद वे मुनि सुन्दरसूरि के नाम से पृथ्वीतल पर प्रसिद्ध हुए। सूरिपद का महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसका उल्लेख 'सोम-सौभाग्य' काव्य में बड़ी रोचक और विस्तृत पदावली में हुआ है।

सोमसुन्दरसूरि का स्वर्गगमन संवत् १४९९ में हुआ। उस समय समस्त आचार्यों में श्रेष्ठ मुनि सुन्दरसूरि गच्छ के अधिपति हुए। इनका स्वर्गगमन विक्रम संवत् १५०३ में हुआ। ६७ वर्ष की आयु में उन्होंने काल किया। इसमें ६० वर्ष दीक्षा पर्याय का पालन किया, २५ वर्ष आचार्य रहे और ४ वर्ष गच्छाधिपति रहे।

मुनि सुन्दरसूरि त्रिविध शास्त्रों के अद्भुत और अमाधारण विद्वान् थे। उनकी स्मरणशक्ति बहुत तीव्र (प्रखर) थी, वे सहस्रावधानी थे, अद्भुत स्मरणशक्ति या मस्तिष्क बल के वे अनुपम केन्द्र थे। एक ही समय में अलग अलग एक हजार वार्ताओं पर ध्यान देना और उनमें से कोई भी भाग पूछा जाय उसे बता देना यह ज्ञानावर्णिय सिद्धि कर्म के प्रबल लक्ष्योपशम से प्राप्त हुई थी। आजकल तो 'शतावधानी'—ज्यादा से ज्यादा सौ अवधान करने वाले व्यक्ति सुने जाते हैं। विद्वान् जब इनको अपूर्व मान की दृष्टि से देखते हैं तो ऐसे हजार अवधान करने वाले पुरुष की अद्भुत शक्ति पर विद्वानों को कितना विस्मय होता होगा यह विचारना चाहिये। वे ग्रन्थों में सर्वत्र 'सहस्रावधानी' के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी विद्वत्ता के विषय में प्रसिद्ध प्रमाण यह है कि दक्षिण देश के कवियों ने उनको 'काली सरस्वती' का विरुद्ध दिया था। अन्य जाति के विद्वान् उन्हें अपूर्व विद्वत्ता के बिना ऐसा उपनाम दें यह असंभव है। यह उपाधि अद्भुत चातुर्य प्रकट करने वाले व्यक्ति को ही मिलती है। कवित्व शक्ति के अतिरिक्त तर्क न्याय में भी उनकी अद्वितीय त्रिपुण्यता थी। उनको मुजफरखान बादशाह की तरफ से 'वादी—गोकुलवंद' का विरुद्ध मिला था। अतः उन्हें स्मरण शक्ति, कवित्व शक्ति और तर्क शक्ति की त्रिवेणी कहना उपयुक्त है।

मुनि सुन्दरसूर महात्मा के चमत्कार के विषय में समकालीन

श्री प्रतिष्ठासोम नामके 'साधु सोम सौभाग्य' काव्य के दशवें सर्ग में उल्लेख है :

“युगप्रधान मुनि सुन्दरसूरि की सूरिभंत्र स्मरण करने की शक्ति विस्मय कारक थी। श्री रोहिणी नगर में मरकी के उपद्रव को शांत किया, इससे आश्चर्यान्वित हो वहां के राजा ने शिकार करना छोड़ दिया। इसी प्रकार देवकुल पाटक नगर में शांतिकर स्तोत्र से वहां की महामारी को शांत किया। यह शांतिकर स्तोत्र (संतिकरं) इसके बाद इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि यह नव-स्मरण में एक है। इसी स्तोत्र (संतिकरं संति जिणाम्) के द्वारा शिवपुर नगर में व्यंतरियों द्वारा उत्पन्न महामारी के भयंकर उपद्रव को शांत किया।”

श्री हीर सौभाग्य महाकाव्य के कर्ता ने एक जगह लिखा है “ये महात्मा-एक सौ आठ जाति के वादकों के शब्द को परख सकते थे। एक समय पाटण शहर में दूर दूर देश से वादी लोग आए। वे पत्रावलंबन आदि भी करते थे। राजसभा में वाद-विवाद छै माह तक चला और अन्त में अपना अद्भुत चापुर्ण बताने के साथ मुनि सुन्दरसूरि को एक सौ आठ वादकों की अलग २ आवाज चाहे जिस अनुक्रम से पूछे जानें पर भी बचाते हुए बुद्धिबल प्रकट कर समस्त वादियों को परास्त किया”।

इस प्रकार उनके समीप के विद्वान् उनके बारे में क्या धारणा रखते थे यह स्पष्ट ज्ञात होता है। उनकी मेधा और स्मरण-शक्ति बहुत अद्भुत थी यह उनके ग्रन्थों से स्पष्ट मालूम होती है। वे जिस विषय को लेते थे उस सम्बन्ध में बिना किसी भी प्रकार के क्षोभ या भय के हिंस्र और सत्यता से लिखते व कहते थे। उनका आत्मिक बल 'यति शिवा' अधिकार से भली प्रकार झलकता है। अपने ही वर्ग को कड़े शब्दों में प्रतारणा देते हुए शिवा देना यह उनके अपने मन पर असाधारण विजय और आत्मिक बल या धैर्य के बिना नहीं हो सकता। इस अधिकार का प्रत्येक श्लोक सूरि महाराज की आत्म-विभूति बताने के लिये पर्याप्त है।

इस ग्रन्थकर्ता के समय जैन समाज का बंधारण कैसा होगा इस

विषय में ठीक ठीक अनुमान लगाने से पहले उन्होंने कौन कौन से ग्रन्थों की रचना की, यह देखना चाहिये। सूरि महाराज ने अनेक ग्रन्थों की रचना की है, परन्तु मुस्लिम शासकों के दुर्दम आत्याचारों और जनता की अस्त-व्यस्त स्थिति के कारण बहुत से ग्रन्थ नष्ट हो गये। फिर भी खोज के बाद जो ग्रन्थ मिले हैं वे ये हैं :

(१) त्रिदश तरंगिणी, (२) उपदेश रत्नाकर, (३) अध्यात्म कल्पद्रुम, (४) स्तोत्र रत्न कोष, (५) मित्र चतुष्क कथा, (६) शांतिकर स्तोत्र, (७) पाञ्चिक सित्तरी, (८) अंगुल सित्तरी, (९) वनस्पति सित्तरी, (१०) तपागच्छ पट्टावली, (११) शांत रस रास, (१२) त्रिविद्य गोष्ठी, (१३) जयानन्द चरित्र, (१४) चतुर्विंशति जिन स्तोत्र, (१५) श्री मंदिर स्तुति ।

ये समस्त ग्रन्थ इन आचार्य की विद्वत्ता, प्रतिभा और अद्भुत विवेक शक्ति के मूल्यांकन के लिये पर्याप्त हैं।

मुनि सुन्दरसूरि के समय में जैन समाज का ध्वंसारण किस प्रकार का था, यह जानने में आवे तो ग्रन्थ समझने में बहुत उपयोगी हो; कारण, ग्रन्थ हमेशा तात्कालीन समाज की रीति-नीति प्रथा-मर्यादाओं को प्रकट करनेवाला होता है। अध्यात्म कल्पद्रुम तात्कालीन समाज का प्रतिबिम्ब है। समाज का आध्यात्मिक जीवन बहुत मद् या निम्न स्तर का हो गया हो ऐसा नहीं प्रतीत होता, क्योंकि यदि इस विषय से लोगो की रुचि हट गई होती तो उस विषय का गंभीर विवेचन और विस्तृत उपदेश नहीं होता। फिर भी इतना कहने में संकोच नहीं होता कि उस समय जनता की रुचि आध्यात्मिक विषय की ओर बहुत नहीं थी। यतिशिखा अधिकार जिन शब्दों में लिखा गया है उससे स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक जीवन बहुत ऊँची स्थिति पर नहीं था। भारतीय प्रजा की स्थिति उस समय बहुत अव्यवस्थित थी। मुसलमान शासकों का धार्मिक कट्टरपन, उनकी हिंसा प्रवृत्ति इतिहास के पृष्ठों में चमक रही है। तुगलक वंश के क्रूर बादशाह महमूद की हिंसा छुता और अन्याय के विराध में यत्रतत्र प्रजा में क्रान्ति होती रहती थी।

ऐसी क्रान्ति के समय जैन धर्म और मुनि महाराजों की क्या

स्थिति थी यह यहाँ जानने योग्य है। गच्छ भेद ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी में प्रारम्भ हुए। उनकी आत्मा में धर्म के प्रति बड़ा उत्साह था। यह भी न भूल जाना चाहिए कि जनता का गुरु के प्रति पूज्यभाव अपूर्व था यह तथ्य 'सोम सौभाग्य' काव्य और 'अध्यात्म कल्पद्रुम' के 'गुरुशुद्धि' अधिकार से स्पष्ट झलकता है। प्रथम ग्रन्थ से समकालीन परिस्थिति का और दूसरे ग्रन्थ से जनता की भावना का परिचय मिलता है। गच्छ नायक अपूर्व त्याग तथा वैराग्य से श्रुत प्रोत (परिपूर्ण) होते थे। साधु वर्ग में बहुत संयम था इसी कारण देवचन्द्रसूरि ने अपने शिष्य सोमसुन्दरसूरि को ज्ञानसागरसूरि के पास अभ्यास करने को भेजा। सभी साधु अपने गच्छ के अधिपति के आदेश को मानते थे और उसके अनुसार ही तत्परता से व्यवहार करते थे। राजा (गच्छाधिपति) बड़ा शक्तिशाली शासन करने वाला होता था। प्रजा बहुत सोच विचार कर अपना योग्य राजा चुनती थी। जिसे प्रजा ने एक बार चुन लिया वह आजीवन राजासन पर विराजता था। राजा का चुनाव उसकी व्यवहार—कुशलता, राजनीति-ज्ञान और अद्भुत शक्ति तथा प्रभाव आदि शासकीय गुणों को देखकर ही होता था। जिससे वह समस्त प्रजा पर अपना अंकुश रख सके, तथा समाज को मर्यादा में सुबद्ध रख सके।

उस समय गुण में अभिमानी, प्रमादी, मूर्ख और पाप-सेवन-करने वाले व्यक्ति नहीं होते थे। साधुओं में द्रोह की कथा नहीं पाई जाती थी, प्रमाद तथा छल का तो नाम भी नहीं था, असत्य को भी कहीं स्थान न था ऐसी स्थिति में विकथा की तो बात ही क्या? साधु वर्ग में महातपस्वी, वादीश्वर और अभ्यासी थे। मुनियों में परिग्रह वृत्ति नहीं थी। वे कंचन कामिनी के त्यागी थे। इस प्रकार जैन गृहस्थों और साधुवर्ग की स्थिति सतांप्रद थी। श्रावक भी गुरु पर दृढ़ श्रद्धा वाले थे। गुणराज, देवराज, विशाल, धरणींद्र, नींव आदि सेठों ने गुरु की जिन शब्दों में स्तुति कर अपनी लघुता बताई और अपूर्व महोत्सव से सूरि पदवी की प्रतिष्ठा कराई यह चारित्र्य, धर्म और गुरु के प्रति लोगों के दृढ़ अनुराग, श्रद्धा या भक्ति का द्योतक है। गच्छपति की आज्ञा सब ही आदर पूर्वक मानते थे। साधुओं में विहार करने की आदत थी। इसी कारण सोमसुन्दर सूरि जैसे आचार्य एक स्थान

पर तीन या पाँच रात्रि से अधिक नहीं ठहरते थे, यह बात सीम सौभाग्य से स्पष्ट मालूम होती है। उस समय यद्यपि तीर्थयात्रा के साधन सुलभ नहीं थे मार्ग में अनेक भयानक स्थितियों का सामना करना पड़ता था फिर भी शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा की महिमा थी। यह महात्मा तीन बार बहुत बड़ी धूमधाम और आडम्बर से तीर्थ यात्रा के लिए निकले, यह बात सध के वर्णन से स्पष्ट है।

उस समय श्रावक वर्ग की स्थिति भी बहुत अच्छी होगी यह सूरिपद की प्रतिष्ठा, जिन चैत्या की प्रतिष्ठा और संघ यात्रा के महोत्सवों से ज्ञात होता है। यदि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो ऐसे अद्भुत महोत्सव कैसे मनाए जा सकते थे। एक एक श्रावक शासन के प्रभावक हुए हैं यह मुनि सुन्दरसूरि महाराज की गुर्वावली में वर्णित हेम मंत्री और लल्लना पुत्र नाथाशाह के वर्णन से मालूम होता है। ये श्रावक भय के कारण निःसंग जैसी सावद्य क्रिया को आरम्भ करने वाले और गण को सदा सब प्रकार का सहयोग देने वाले थे। ऐसे उदार और धर्म परायण श्रावक यदि उत्पन्न हों तो शासन स्थिर रहता है यह कोई नई बात नहीं है। शासन के कार्य में सहयोग देना पड़ता है और विरुद्ध टीकाएँ सहन करनी पड़ती हैं। परन्तु यह सब आत्मिक उन्नति के हेतु जप, तप, योग, विराग करने वाले ही सहन करते हैं, क्योंकि वे ऐहिक मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए व्यवहार नहीं करते अपितु परभव में अक्षय सुख प्राप्ति के साधनों में सलग्न रहते हैं। श्रावक वर्ग यद्यपि अधिक शास्त्राभ्यासी नहीं थे, फिर भी श्रोता अच्छी संख्या में एकत्रित होते थे यह उपदेश रत्नाकर में बताया उपदेश ग्रहण करने वालों के लक्षणों से ज्ञात होता है।

★

[गुजराती भाषा में अद्यात्म कल्पद्रुम का विस्तार से विवेचन करने वाले स्व० मोतीचन्द गिरवरलाज कापडिया (सोलिसिटर और नोटेरी पब्लिक, हाई कोर्ट, बम्बई) के आधार पर]

## प्रकाशक के दो शब्द

श्री जिनदत्तसूरि ज्ञानमाला का बीसवां पुण्य आपके सम्मुख प्रस्तुत है।

यह एक आध्यात्मिक पुस्तक है जिसके रचयिता श्री मुनिसुंदरसूरि हैं जो अपने समय के प्रकाण्ड विद्वान थे।

अध्यात्म ग्रंथ के विषय प्रायः शुष्क होते हैं। इनमें प्रेम या वीर-रस की बात नहीं होती, मनोविकार को तुष्ट करने वाली कथाएँ भी इनमें नहीं होतीं, हास्य विनोद द्वारा आनन्द उत्पन्न करने वाले विदूषक भी इनमें नहीं आते, गायन द्वारा वृत्त करने वाली सुंदरियाँ भी इनमें दृष्टिगोचर नहीं होतीं, प्रतिभटों से भयंकर युद्ध करने वाले वीर पुरुषों के रस का भी यहाँ आनन्द नहीं होता, इनमें तो केवल ज्ञान रस की स्थापना और उसकी ही प्रतिष्ठा की प्रमुख बात होती है। इस विषय को अनेक आकार में उपस्थित किया जाता है, इस प्रसंग को लेकर उसे प्राप्त करने के उपाय, साधन व मार्ग बताये जाते हैं; इस रस के विपरीत रसों का वर्णन इनमें नहीं होता, परन्तु इन विपरीत रसों का इस रस के साथ क्या सम्बंध है यह बताया जाता है। निर्वेद, वैराग्य, उपशम आदि में सर्व साधारण की प्रवृत्ति नहीं होती इस कारण रसिक लोगों को शांत रस के आस्वाद में रुचि नहीं होती, यह सत्य है, परन्तु यह कड़वी औषधि है और भव व्याधि का नाश करने के लिये अनिवार्य है ऐसा अनन्त सुख या मोक्ष की साधना करने वाले आचार्य कहते हैं। जब अनुभवी ज्ञानी आचार्य शुष्क व कटु लगने वाली औषधि देने की आवश्यकता बता गये हैं तब उसका भली भाँति विवेक पूर्ण विचार कर अपने व्यवहारों में उसका समुचित उपयोग करना साधक का मुख्य कर्तव्य है।

आज के भौतिक युग में इस कड़वी औषधि (अध्यात्म) की अत्यंत आवश्यकता है ऐसा अब पाश्चात्य देश के रहने वाले भी मानने लगे हैं और इसके अध्ययन के लिये लालायित रहते हैं। इसी दृष्टि कोण को लेकर अध्यात्म कल्पद्रुम का सारांश सर्व साधारण के हितार्थ प्रकाशित किया जा रहा है।

पुस्तक को शुद्ध छपवाने का पूरा प्रयत्न किया गया है फिर भी भूल रह जाना स्वाभाविक है। इस सम्बंध में विवेकी पाठकगण सूचित करेंगे तो दूसरी आवृत्ति में उसका पूरा ध्यान रखा जायगा। इस पुस्तक की भाषा सादी और सरल है जिससे बुद्धिशाली और सामान्य जनता सबको यह कुछ नया ज्ञान देगी ऐसी आशा है। एक-दो बार पढ़ने में यदि भाव बराबर ऊतरंग में नहीं उतरे तो रुचि के साथ चार पांच बार इस पुस्तक को पढ़ना चाहिये। लेखक का आग्रह तो यह है कि पढ़ने के बजाय उस पर अधिक विचार किया जावे। इससे सूरि महाराज के भाव समझ में आ जायेंगे और समझने के बाद वे भाव कार्य रूप में परिणत कर सकेंगे। यदि पाठक ऐसा करेंगे तो इस पुस्तक को प्रकाशित करने का उद्देश्य सफल होगा।

आशा है यह पुस्तक सर्वसाधारण के आध्यात्मिक जीवन उन्नत बनाने में उपयोगी सिद्ध होगी और हम भी अपना श्रम सफल समझेंगे।

हम निम्न महानुभावों के आभारी हैं जिन्होंने इस पुस्तक प्रकाशन से पूर्व ही अभिम प्रतियां खरीद कर हमें प्रकाशन खर्च में सुविधा उपलब्ध करने के साथ २ उत्साहित भी किया है।

- |                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| १. श्री कुशलचन्द्रजी पारसचन्द्रजी धाडीवाल, अजमेर | २०० प्रति |
| २. श्रीमती रतनकुमारीजी कुमठ, मद्रास              | १०० प्रति |
| ३. श्रीमान् गोपीचन्द्रजी सा. धाडीवाल, कलकत्ता    | १०० प्रति |

चाँदमल सीपाणी

मंत्री

दादा पुण्य तिथि  
आपाढ़ शुक्ला ११ सं० २०३०  
दि० ११-७-१९७३

श्री जिनदत्तसूरि भण्डल,  
दादावाडी, अजमेर



# श्री जिनदत्तसूरि ज्ञानमाला के अमिनव प्रकाशन

## १. नमस्कार चिंतामणि

नमस्कार महामंत्र की महिमा, महत्त्व एवं उसकी साधना का  
विशद वर्णन । मूल्य रु० ३=५०

## २. जीवन दर्शन

आधुनिक बुद्धिवादी काल में आसानी से समझे जा सकें उस  
प्रकार जैन सिद्धान्त का विवेचन । मूल्य रु० १ ००

## ३. धर्म और संसार का स्वरूप

साधारण व्यक्ति भी आसानी से समझकर अपने जीवन को  
शांत, उपयोगी और सुखी बना सकता है । मूल्य रु० २ ००

## ४. अध्यात्म विज्ञान योग प्रवेशिका

केवल परलोक में ही नहीं वरन् इसी जीवन में शांति, सुख व  
सफलता का तात्त्विक ही नहीं किन्तु जीवन व्यवहार में अनेवाला  
बुद्धि तथा जीवन अनुभवों से समझे जाने वाला मार्ग दर्शन बनाने  
वाली । मूल्य रु० ३ ००

## ५. विज्ञान और अध्यात्म

विज्ञान और अध्यात्म का तुलनात्मक वर्णन जो वर्तमान तथा  
नई पीढ़ी दोनों के लिये उपयोगी । स्कूलों, कॉलेजों और ज्ञान सत्रों के  
अभ्यास में समाविष्ट होने जैसी । नास्तिकवाद की ओर पक्षपात वाले  
वर्ग को भी धर्म मार्ग की श्रद्धा पर लावे ऐसी । मूल्य रु० ३-५०

## ६. SCIENCE OF HAPPINESS

धर्म क्या है ? उसकी सुन्दर समीक्षा वैज्ञानिक ढंग से की गई है ।  
नास्तिक प्राणी भी इसे पढ़कर आस्तिक बन जावे, ऐसे ढंग से धर्म  
समझाया गया है । मूल्य रु० १ ५०

# शुद्धि पत्र

पृ००	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	५	किया	की
१	२४	का	के
६	१४	चक्रवती	चक्रवर्ती
१३	२	पीडा	पीड़ित
२८	६	यह	है
३२	६	तो	जो
३८	१६	की मृत्यु नाश कराने	नाश कराने की मृत्यु
४०	१२	साधुओं	साधुओं की
४३	१०	सदेह	सदेह है
४८	१७	सत्पुरुषार्थ	सत्पुरुषार्थ
५७	१०	निकला	निकाल
६३	१०	प्राप्ति	प्राप्ति के लिये
८६	७	ही	भी
१०४	१	सत्र	सत्रह
११३	१६	रही	रहा
१४७	१८	कीर्ति	कीर्ति
१७३	१६	धोखा	धोखा
१८३	१४	के	की
१८४	६	यह	इन
२०१	२५	कुप्रभाव	कुप्रभाव तथा
२०३	८	धर्म	धर्म
२०८	२२	नये	नया
२३५	१८	का	के
२३८	१७	पणिहन्ति	प्रणिहानी
२४२	११	की	के



# प्रथमाधिकार रामता श्री अध्यात्म कल्पद्रुमाभिधानो ग्रंथः सविवरणः प्रारभ्यते ।

अथायं श्रीमान् शान्तनामा रसाधिराजः सकलागमादि सुशास्त्रार्णवोपनिषद्भूतः सुधारसायमान ऐहिकोमुष्मिकानंतानन्द-संदोह साधनतया पारमार्थिकोपदेश्यतया सर्वरससारभूतत्वाच्च शान्तरस-भावनाध्यात्मकल्पद्रुमाभिधानग्रंथांतरनिपुणेन पद्यसंदर्भेण भाष्यते ॥

यत्र आगम आदि सुशास्त्र रूपी समुद्र को सारभूत अमृत समान सब रसों में उत्कृष्ट ऐसा शान्त रस की जो इस लोक तथा परलोक में उपासना प्राप्त कराने का साधन है तथा पारमार्थिक उपदेश देने योग्य होने से तथा सब रसों में सारभूत होने से इस शान्त रस भाव वाले अध्यात्म कल्पद्रुम प्रकरण को मैं पद्यों में वर्णन करता हूँ ।

विशेषार्थः—शान्त रस वीर रस, करुण रस, हास्य रस आदि सर्व रसों में उत्कृष्ट रस है । इसके द्वारा आत्मा उन्नत दशा को प्राप्त करती है और अक्षय आनन्द का आत्मा अनुभव प्राप्त करता है जिसको वही जान सकता है जिसे यह प्राप्त हो ।

शान्त रस इस भव और परभव में अतन्त आनन्द देने वाला है । शान्त रस से मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का सुख मिलवा है जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता । इस आनन्द की प्राप्ति में किसी दूसरे को कष्ट नहीं देना पड़ता वल्कि हमने अपने कर्तव्य को निभाया ऐसा बोध होता है, जिससे अपनी भावना को अनिवचनीय आनन्द होता है । इस सुख के विषय में वाचस्पति श्री उमास्वाति महाराज इस प्रकार वर्णन करते हैं :

नैवास्ति राजराजस्य, तत्सुखं नैव देवराजस्य ।  
यत्सुखमिद्वैव साधोर्लोकन्यापाररहितस्य ॥

“लोक व्यापार से विमुख ऐसे साधु मुनिराज को जो सुख शान्त रस से प्राप्त होता है वह सुख चक्रवर्ती राजा अथवा इन्द्र को भी नहीं प्राप्त होता” इसका कारण यह है कि यह सुख पौराणिक नहीं है। पौद्गलिक सुख जो राजा महाराज को प्राप्त होते हैं वे क्षणिक हैं और परिणाम में दुःखदायी होते हैं। यह शान्त रस मानसिक है। इससे इस भव में मानसिक तथा शारीरिक दोनों सुख प्राप्त होते हैं। शान्त रस से प्राप्त ऐहिक सुख प्रत्यक्ष है। इसे प्राप्त करने में घन व्यय करने की आवश्यकता नहीं, न शारीरिक कष्ट की जरूरत है और न इधर उधर के साधनों की चिन्ता करनी पड़ती है जैसा कि कहा है:

स्वर्गसुखानि परोक्षायत्यन्तपरोक्षमेव मोक्षसुखम् ।

प्रत्यक्षं प्रशमसुखं, नो परवशं न च व्ययप्राप्तम् ॥

“स्वर्ग सुख परोक्ष है, मोक्ष सुख इससे अधिक परोक्ष है। परन्तु प्रशम सुख शान्त सुख प्रत्यक्ष है, और इसे प्राप्त करने में एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता” और इसमें परवशता भी नहीं है। अतएव शान्त रस से प्राप्त सुख इस भव में तो प्रत्यक्ष है ही पर परभव में भी सुख देने वाला है क्योंकि इससे नये कर्म बन्ध नहीं होते और पहले के किए कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। यहां तक कि मोक्ष सुख की प्राप्ति भी इस शान्त रस से हो जाती है।

यह शान्त रस पारमार्थिक उपदेश देने लायक भी है। क्योंकि वीर रस, कठण रस, अथवा हास्य रस आदि अन्य रस सांसारिक सुख देने वाले हैं। इनमें इन्द्रियों से भोगे जाने वाले विषयों की तृप्ति और मन की निरंकुशता के सिवाय वास्तव में और कुछ नहीं है। इनका परिणाम भी अहितकर होता है। जबकि शान्त रस इनसे उलटा तथा सबसे उत्कृष्ट सुख है। इसमें किसी व्यक्ति को किसी प्रकार बाधा नहीं आती। वरिष्ठ पारमार्थिक विषय होने से यह आदरणीय है और प्रमार्थिक इच्छा करने वाले व्यक्तियों को उपदेश देने योग्य है। कवि हास्य रस को उच्च स्थान देते हैं परन्तु यह ठीक नहीं, कारण कि जो शान्त रस के तत्त्व को समझते हैं तथा उसका अनुभव करते हैं वे जानते हैं कि हास्य रस शान्त रस के आगे फीका है। इसीलिए शान्त रस को रसरज कहा है।

## शान्तरस शुरुआत मांगलिक

जयश्रीरान्तराश्रीणां, लेभे येन प्रशान्तिः ।

तं श्री वीरजिनं नत्वा, रसः शान्तो विभाव्यते ॥१॥

“जिस श्री वीर भगवान् ने उत्कृष्ट शान्ति से अन्तरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया है उस परम आत्मा को नमस्कार करके शान्त रस की सावना की व्याख्या करता हूँ।”

विवेचनः श्री वीर भगवान् ने काम, क्रोध, मान, मोह, मद, मत्सर, माया, लोभ आदि अंतरंग शत्रुओं पर अत्यन्त शान्तिपूर्वक विजय प्राप्त की। काम, क्रोध आदि को मनोविज्ञान के विद्वानों ने भी आभ्यन्तर ‘अरिषड्वर्ग’ कहा है। इनको कुछ विद्वानों ने मोहराजा की दुर्दम सेना कहा है। जिन सद्गृहस्थियों ने शास्त्रों में उपदेश किए हुए २५ गुणों से युक्त सुमार्ग स्वरूप धर्म के अनुष्ठान को अंगीकार किया है वे इन अंतरंग शत्रुओं से कभी पराजित या मार्ग-भ्रष्ट नहीं होते। इसके विपरीत वे श्रद्धारूप सम्यक्त्व प्राप्त करके देशविरति धर्म (गृहस्थ धर्म) अथवा सर्वविरति धर्म (साधुधर्म) प्राप्त करके इन्द्रियों का दमन, आत्म-संयम, क्षमा-धारण, सत्य-वचनोच्चार, अस्तेय चोरी न करना, त्याग, अखण्ड ब्रह्मचर्य और व्यक्तिगत अधिकार के अनुसार बहिरंग एवं अन्तरंग ‘परिग्रह-त्याग’ आदि सद्गुणों को प्राप्त करते ही अप्रमत्त अवस्था प्राप्त कर धीरे धीरे अन्तरंग शत्रुओं पर विजय पाते हैं। भगवान् वीर प्रभु ने भी इसी प्रकार अन्तरंग शत्रुओं को जीता था। ये सब तथ्य भगवान् के जीवन चरित्र में संगम, चंड-कौशिक, शूलपाणि, गोशाला आदि की कथाओं के पढ़ने से ज्ञात होंगे। भगवान् ने अखण्ड शान्ति रख कर सदुपदेश द्वारा अनुल दुःख देने वाले व्यक्तियों को भी उपकार किया था। यह भगवान् का शान्ति द्वारा प्राप्त अनुल मनोबल का साक्षात् उदाहरण है।

अनुपम सुख का कारण भूत शान्तरस का उपदेश

सर्वमङ्गलनिधौ हृदि यस्मिन्, सङ्गते निरुपमं सुखमेति ।

मुक्तिशर्म च वशीभवति द्राक्, तं बुधा भजत शान्तरसेन्द्रम् ॥२॥

“जिस व्यक्ति के हृदय में शान्त रस है, जिसे विद्वानों ने सब मांगलिक कार्यों या गुणों का खजाना कहा है, वह अनुपम सुख तो प्राप्त करता ही है, मोक्ष सुख भी उसको एकदम प्राप्त हो जाता है। हे पंडितो ! तुम ऐसे रसगज शान्त रस को प्राप्त करो” ॥ २ ॥

विवरणः जिसे शान्त रस प्राप्त है उसे सब सुख प्राप्त होता है। अतएव यह सुख क्या वस्तु है यह जानना चाहिये। संसारी जीव अच्छा खाने, अच्छा पीने, उत्तम वस्त्र, और आभूषण आदि वस्तुएँ प्राप्त कर ठाठ से रहने में सुख मानता है। परन्तु यह जानना चाहिये कि इसमें सुख कुछ भी नहीं है। ये सब क्षणिक हैं और मनुष्य जीवन भी क्षणिक है। विषय सुख आदि पुण्य समाप्त होने पर नष्ट हो जाते हैं और अन्त में दुःख ही दुःख रह जाता है। अतएव वह सुख कैसा जिसके भोगने से अन्त में दुःख हो ? यह तो केवल माना हुआ सुख है। वास्तविक सुख तो कुछ और ही है। यह वास्तविक सुख तो मन की शान्ति में ही है। जब तक मन एक विषय से दूसरे विषय की तरफ दौड़ता रहता है तब तक यही समझना चाहिये कि उसे अब तक सुख प्राप्त हुआ ही नहीं। यदि वास्तविक सुख प्राप्त हुआ होवा तो चित्त को एक विषय में दूसरे विषय की तरफ दौड़ने की जरूरत ही नहीं रहती। अतएव वास्तविक सुख तो चित्त-शांति में ही है और यही शान्त रस है। इसीसे अविनाशी अन्धावाध वास्तविक सुख प्राप्त होता है।

इस ग्रन्थ के सोलह द्वार हैं ।

समतैकलीनचित्तो, ललनपर्यस्वदेहममतामुक् ।

विषयकषायाधवशः शास्त्रगुणैर्दमितचेतस्कः ॥३॥

वैराग्यशुद्धधर्मा देवादिसतत्वविद्विरतिधारी ।

संवरवान् शुभवृत्तिः साम्यरहस्यं भज शिवार्थिन् ॥४॥

“हे मोक्षार्थी प्राणी ! तू समता में लीन हो। स्त्री, पुत्र, पैसा और शरीर की ममता छोड़ दे; वर्ण, गन्ध रस, स्पर्श आदि इन्द्रियों के विषयों और क्रोध, मान, माया, और लोभ इन कपायों के वशीभूत मत हो; शास्त्ररूप लगाम से अपने मन रूपी घोड़े को वश में रख; वैराग्य से शुद्ध निष्कलंक और धर्म परायण हो (साधु के दश यतिधर्म श्रावक के वारह व्रत और इसी प्रकार आत्मा के शुद्धगुण रमणता वाले शुद्ध धर्म का अनुयायी बन); देव, गुरु, धर्म के शुद्धस्वरूप को पहिचान; सब प्रकार के सावध योगों से निवृत्ति रूप विरति धारण कर; सत्तावन प्रकार के संवर वाला हो; अपनी चित्त वृत्तियों को शुद्ध रख और समता के रहस्य को समझ ॥३-४॥”

भावना भासने के लिये मन को उपदेश

चित्तबालक ! मा त्याक्षीरजस्तं भावनौषधीः ।

यत्वां दुर्ध्यानभूतो न, षष्ठयति छलान्वितः ॥५॥

“हे चित्तरूप बालक ! भावना रूप औषधी को तू मत छोड़ जिससे छल छिद्र ढूंढ़ने वाला दुर्ध्यान रूपी भूत पिशाच तुम्हको छल नहीं सके ।”

विशेषार्थ : मनुष्य का मन एक बालक के समान है। वह यह नहीं समझता कि संसार अस्थिर है, सहज सम्बन्धी, स्नेही माता पिता आदि सब अनित्य हैं। इनमें से कोई भी दुःख में दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता। मनुष्य को अपने किये का फल अपने आप ही भोगना पड़ता है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति एक मेले के समान है जो पल में मिल जाती है और देखते देखते बिखर जाती है। यह जीव तो जगत् में अकेला आया और अकेला ही जायगा। इस प्रकार मनुष्यों को हर समय सोचते रहना चाहिये और अपनी वास्तविक दशा पर विचार करना चाहिये। ऐसी स्थिति में ज्ञात होगा कि आत्मा की शुद्ध दशा क्या है और विभाव दशा क्या है तथा पौद्गलिक वस्तुओं और अपनी आत्मा में क्या अन्तर है। इस प्रकार का विचार करना शास्त्रों में “भावना भाना” कहा गया है। इस प्रकार भावना भासने से सत्य ज्ञान होता है। सत्य ज्ञान होने से उसी पर आचरण करने की इच्छा



होती है। इस प्रकार सत्य ज्ञान प्राप्तकर तदनुसार वर्तन से (ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्षः) मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसारी जीव अनादि काल से संसारी भावना के कारण ८४ लाख जीव योनियों में भ्रमण करते करते अपनी वास्तविक स्थिति को भूल गया है और संसारी वस्तुओं [धरंधार, गहना, जमीन, जायदाद, व्यापार आदि द्वारा स्वयं धन कमाना] में अपने आपको भूला हुआ वह नहीं जानता कि संसार का स्वरूप क्या है? यहाँ तक कि धर्म कार्य में भी दुर्ध्यान करके लगता है। यह कितनी विचित्र बात है। इसी कारण इस चित्त को बेसमझ बालक कहा है। दुर्ध्यान को मिटाने का साधन भावना भाना बताया है जो समता का बीज है

इन्द्रियो का सुख और समता का सुख

यदिन्द्रियार्थैः सकलैः सुखं स्यान्नेन्द्रचक्रिनेदशाधिपानाम् ।

तद्विन्दवत्येव पुरा हि साम्यसुधांबुधेस्तेन तमाद्रियस्व ॥६॥

“राजा, चक्रधारी और देवों के स्वामी इन्द्र को भी सब सुख इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होते हैं। ये सब सुख समता के सुख समुद्र के सामने एक बिन्दु समान हैं। इसलिये समता के सुख का आदर करो” ॥ ६ ॥

भावार्थः—दुःख हो या सुख, हर्ष हो या शोक, प्रत्येक परिस्थिति में चित्त को एक रस रखने को; उसे चंचल न होने देने को समता कहते हैं। जब मन पर पूरा अधिकार हो जाता है, वह किसी भी अवस्था में चलायमान नहीं होता तब आत्मा को वास्तविक सुख का अनुभव होता है। यह समता का सुख इन्द्रियजनित पौद्गलिक सुख की अपेक्षा अनन्त गुणा अधिक है, उस सुख की कल्पना करना भी कठिन है। यदि पौद्गलिक सुख एक वृद्ध के समान है तो समता का सुख समुद्र के समान है। मनुष्य इस समता के सुख को यत्र करने से प्राप्त कर सकता है। इसमें न पैसा खर्च करने की आवश्यकता है और न किसी बन्धु की सहायता की। मनुष्य को केवल अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। एक बार यह समझ लेना चाहिये कि

इस संसार में उसको क्या है ? जो कुछ पौद्गलिक वस्तुएँ हैं जिनको वह अपनी मान बैठ है, अपनी नहीं हैं। इसके सिवाय यह भी समझते रहना चाहिये कि इनको भोगने में क्षणिक सुख है, परिणाम इनका दुःख ही दुःख है। जब इतनी बात समझ में आ जायगी और दृढ़ निश्चय हो जायगा तो स्वतः ही समता प्राप्त हो जायगी, जिससे आत्मा को ही सुख मिलेगा।

सांसारिक जीव का सुख और यति का सुख।

अदृष्टवैचित्र्यवशाज्जगज्जने, विचित्रकर्माशयवाग्विसंस्थुले।

उदासवृत्तिस्थितचित्तवृत्तयः, सुखं श्रयन्ते यतयः क्षतार्तयः ॥७॥

“जगत् के प्राणी पुण्य और पाप की विचित्रता के आधीन हैं और अनेक प्रकार के मन, वचन और कार्या के व्यापार के कारण दुखी है। पर वे यति मुनि ही जिन्होंने मध्यस्थ वृत्ति अपना रखी है। जिनके मन की द्विधा सिट गई है वे वास्तविक सुख भोगते हैं” ॥ ७ ॥

विवेचनः—यह जीव पुण्य के उदय से सब सांसारिक सुख भोगता है। अच्छा शरीर, अच्छा रूप, धन-धान्य, पुत्र, स्त्री, सगे-सम्बन्धी आदि प्राप्त करता है और अपने आप को बड़ा सुखी मानता है। वही जीव जब पाप का उदय होता है तब अपने आप को महान् दुखी अनुभव करता है। कहीं भी स्थिरता प्राप्त नहीं करता। पूर्ण सुख उसे कहीं भी प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार पाप पुण्यो के प्रभाव से जीव अच्छी धुरी स्थितियों में से गुजरता है। जब काल आता है तो इस योनि को छोड़ किसी नई योनि में जन्म लेता है और पूर्ण सुख उसे कहीं भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि संसार के सुख क्षणिक हैं और अन्त में दुःख देने वाले हैं। अब देखना यह है कि माध्यस्थ दृष्टि रखने वाले को कैसा सुख है। माध्यस्थ दृष्टि रखने वाला अपनी आत्मा में रुझान करता है। उसे संसार की नाना उपाधियों से कोई भ्रतलब नहीं, क्योंकि वह जानता है कि सुख तो मन की मान्यता में है। सुख पुद्गलों में नहीं, केवल साम्यभाव में है। इसलिये उसे संसारी सुख में खुरी नहीं और दुःख में दुःख नहीं। वह जानता है कि सुख दुःख तो कर्म और प्रकृति के उदय से होता है। पाप तथा पुण्य दोनों प्रकार के कर्म

त्याज्य हैं। अतएव वह भाव्यस्थ भाव रखता है और इसी में अत्यन्त सुख अनुभव करता है। वह शत्रु तथा मित्र में भेद नहीं देखता और समस्त संसार को अपना मित्र समझता है।

समता सुख अनुभव करने का उपदेश

विश्वजन्तुषु यदि क्षणमेकं, साम्यतो मजसि मानस मैत्रीम् ।

तत्सुखं परममत्र परत्राप्यशुभे न यदभूत्तव जातु ॥८॥

“हे मन ! यदि तू सब प्राणियों पर समतापूर्वक एक क्षण भी परहित-चिन्तारूप मैत्री भाव भावेगा तो तुझे इस भव और परभव में ऐसा सुख मिलेगा जैसा तूने कभी भी अनुभव नहीं किया होगा” ॥८॥

विवेचन :—समता सुख तो अनुभव से ही जाना जाता है। जैसे गुड़ का स्वाद चखने से मालूम होता है, कहने से नहीं। इसी प्रकार समता-सुख भी अनुभव करने से ज्ञात होता है। समता भाव रखने से शत्रुभाव का लोप हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि सुपुण्य वँधता है, जिसके प्रभाव से इस लोक में और परलोक में अपूर्व सुख प्राप्त होता है। जीव ने आज तक पौद्गलिक सुख अनुभव किया है वह आत्मिक सुख नहीं जानता। वह जब सुपुण्य के प्रभाव से आत्मिक सुख अनुभव करेगा तो उसे नवीन प्रकार का आनन्द मालूम होगा। समता भाव भाते ही उसे जो मानसिक सन्तोष और आनन्द होगा वह अलौकिक होगा—सर्वोत्तम होगा। वह आनन्द उसके अन्दर से उत्पन्न होता है। उसे प्राप्त करने के लिए बाह्य साधन ढूँढने की आवश्यकता नहीं। समता भावी जीव सदा परहितकारक होता है। पौद्गलिक आनन्द और आत्मिक आनन्द में बहुत अन्तर है। पौद्गलिक आनन्द पराधीन और क्षणिक है और अन्त में दुःख प्रद है। आत्मिक आनन्द शाश्वत एवं अदृष्ट है और स्वाधीन है।

समता की भावना ( Ideal )

न यस्य मित्रं न च कोऽपि शत्रुर्निजः परो वापि न कश्चनास्ते ।

न चेन्द्रियार्थेषु रमेत चेतः, कषायमुक्तः परमः स योगी ॥९॥

“जिस पुरुष का न कोई मित्र है और न कोई शत्रु, जिसका न कोई अपना है और न कोई पराया और जिसका मन कषाय रहिये होकर इन्द्रियों के विषय में लीन नहीं होता, ऐसा पुरुष महायोगी है” ॥९॥

कोई भी प्राणी इस जीव को गाली दे, इसकी निन्दा करे या स्तुति करे या इसे लाखों रूपयों का लाभ करावे या हानि करे, इसका तिरस्कार करे या इसे मान देवे, इससे लड़ाई करे या मित्रता रखे, इस प्रकार के परस्पर विरोधी संयोगों में वह अपने मन को चंचल नहीं होने देता, और शत्रु एवं मित्र को एक समान माने और उनकी शत्रुता अथवा मित्रता में उनका कोई दोष नहीं देखे किन्तु कर्मों से आवृत्त आत्माएँ ऐसी ही होती हैं ऐसा विचार कर ऐसे मनुष्यों के प्रति अप्रीति नहीं अपनाते ऐसे पुरुष वास्तव में योगी हैं। जिसकी दृष्टि में न कोई अपना है और न कोई पराया किन्तु जो सबको एक बराबर मानता है वह योगी है। जिसकी इन्द्रियों में आसक्ति नहीं, जिसे मद बिलकुल नहीं सताता, जिसमें कषाय नहीं और जिसका धर्म हर समय जागृत अवस्था में रहता है वह परम योगी है।

संक्षेप में, जो महात्मा सांसारिक व्यवहारों की मान्यताओं से अलग रहकर यह जानता है कि मेरा हित किसमें है और तदनुसार कार्य भी करता है, वह शुद्ध योगी है। ऐसे योगियों के काया की प्रवृत्ति, वचन का उच्चार और मन का विचार सदा शुद्ध होता है। परमयोगी आनन्दधनजी महाराज ने योगियों के लक्षण इस प्रकार बताये हैं :

मान अपमान चित्तसमगणे, समगणे कनक पाषाण रे;  
बन्दक निन्दक समगणे, इत्यो होये तू जाण रे ॥शांति॥ ९ ॥

सर्वे जगतजन्तु ने समगणे, समगणे तृण मणि भाव रे;  
मुक्ति संसार वेहु समगणे, मुखे भवजलनिधि नाव रे ॥शांति॥१०॥

आपणो आत्मभाव जे, एक चेतना धार रे;  
अवर सवि साथ संजोगथी, ऐह नीज परिकर सार रे ॥शांति॥११॥

समतावान् जीव का यह स्वरूप है।

## समता के अंग चार भावना

मजस्व मैत्री जगदंगिराशिषु, प्रमोदमात्मन् गुणिषु त्वशेषतः ।  
मत्रातिं दीनेषु कृपारसं सदा-प्युदासवृत्ति खलु निर्गुरोऽपि ॥१०॥

“हे आत्मा ! जगत् के सर्व प्राणियों पर मैत्री भाव रख; सर्व गुणवान् पुरुषों की तरफ संतोष दृष्टि रख; संसार की पीड़ा से दुखी प्राणियों पर कृपा (दया) रख और निर्गुणी प्राणियों पर उदासीन वृत्ति अर्थात् माध्यस्थ भाव रख” ॥१०॥

## चार भावनाओं का संक्षिप्त स्वरूप

मैत्री परस्मिन् हितधीः समग्रे, भवेत्प्रमोदो गुणपक्षपातः ।  
कृपा भवार्तिं प्रतिकर्तुमीहोपेक्षैव माध्यस्थमवार्थदोषे ॥११॥

“संसार में जितने भी दूसरे प्राणी हैं उनका हित करने की बुद्धि यह मैत्री भावना (प्रथम) गुणों का पक्षपात (दूसरी) प्रमोद भावना; संसार रूपी व्याधि से दुखी प्राणियों के दुःख दूर करने की इच्छा यह (तीसरी) कृपा भावना; और जो दोष मिट नहीं सकते ऐसे दोष युक्त प्राणियों पर उदासीन भाव (चौथी) माध्यस्थ भावना” ॥११॥

इन्हीं चार भावनाओं को हरिभद्रसूरि जी ने इस प्रकार बताया है  
परहितचिन्ता मैत्री, पर दुःखविनाशिनी तथा करुणा ।  
परसुखतुष्टिमुदिता, परदोषोपेक्षणमुपेक्षा ॥१२॥

“दूसरे प्राणियों का हित-चिन्तन 'मैत्री भावना', दूसरों के दुःखों के नाश करने की इच्छा अथवा चिन्ता 'करुणा भावना'; दूसरों के गुण और सुख देखकर आनन्द मानना ये 'प्रमोद भावना' और दूसरों के दोषों को देख उनकी उपेक्षा करना 'उपेक्षा भावना' है।” ॥१२॥

## 'मैत्री भावना' का स्वरूप

मा कार्पीत्कोऽपि पापानि, मा च सूक्तोऽपि दुःखितः ।

मुच्यतां जगदप्येषा मतिमैत्री निगद्यते ॥१३॥

विवेचन :—संसार का स्वरूप बताने वाली बारह भावनाएँ अलग हैं। यहाँ (मैत्रीदि) संसार के जीवों के प्रति किस तरह का वर्तव्य रखना चाहिये ये चार भावनाएँ बताई गई हैं : प्रथम मैत्री भावना (Universal Brotherhood) यह बहुत ही महत्व का (Important) विषय है। इस युग की कैसी विचित्रता है कि इन्हीं चार भावनाओं का नाश हो रहा है। यदि इन चारों भावनाओं को अच्छी तरह समझ कर इस संसार में इनका प्रचार हो जाय तो सब लड़ाई झगड़े बन्द होकर शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो जावे। इन भावनाओं का स्वरूप ठीक तरह समझ लेने पर ज्ञात होगा कि आजकल की मानी हुई कर्त्तव्य-परायणता कहीं तक उपयुक्त है। आज की कर्त्तव्य-परायणता में स्वार्थ की दुर्गन्ध है। इन चार भावनाओं पर आधारित कर्त्तव्य-परायणता में स्वार्थ त्याग है। आधुनिक कर्त्तव्य-परायणता का क्षेत्र बहुत संकीर्ण है और चार भावनाओं से युक्त कर्त्तव्य परायणता का क्षेत्र बहुत विशाल है। चारों भावनाओं को श्री हेमचन्द्र आचार्य ने इस प्रकार समझाया है :

‘कोई भी प्राणी किसी के प्रति दुष्कर्म न करे’ ऐसी बुद्धि मैत्री भावना है। मनुष्य जितनी मात्रा में पाप नहीं करेगा उतना ही वह नए कर्म बन्धन से बचेगा और शुभ इच्छा से उसकी निजंरा स्थिति बनेगी। मैत्री भाव वाला व्यक्ति यह भी चाहेगा ‘कि कोई भी प्राणी दुखी न हो’ इस भावना से उसके मन की विशालता का बोध होता है। ऐसी भावना वाला प्राणी सबको सुखी देख स्वयं भी सुखी होता है। भगवान् महावीर ने भी तीसरे भव में ऐसी ही भावना भाई थी ‘कि सब जीव कह शासन रसी अस भाव दया मन उल्लसी।’ इसके परिणाम-स्वरूप भगवान् ने तीर्थंकर गोत्र बाँधा। मैत्री भावना वाला व्यक्ति अपने सुख की कम चिन्ता करता है। वह तो परहित में आनन्द मानता है, क्योंकि स्वहित तो स्वाभाविक है, उससे उसके चित्त को शान्ति मिलती है। ये विचार कितनी उच्च श्रेणी के हैं और अनुकरणीय हैं !

उपाध्याय श्री विनयविजयजी महाराज ने कहा है

या रागदोषादिरुजो जनानां शाम्यन्तु वाक्कायमनोद्रुहस्ताः ।  
सर्वेऽप्युदासीनरसं रसं तु, सर्वत्र सर्वे सुखिनो भवन्तु ॥

“प्राणी के मन, वचन, काया के शुभ योगों का नाश करने वाली राग द्वेष आदि मानसिक व्याधियाँ शान्त हो जावें अर्थात् सब प्राणी बीतराग हो जावें, सब प्राणी माध्यस्थभावी हों और सब प्राणी सुखी हों।” यह कितनी उच्च भावना है। इस भावना में प्राणिमात्र का भला चाहा है, चाहे वह प्राणी किसी भी देश, समुदाय अथवा धर्म का हो। श्री बृहत् शान्ति स्तोत्र में भी ऐसी ही भावना दरशायी है।

शिवमरुतु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः  
दोषाः प्रयान्तु नाशं, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥

“सारे संसार का कल्याण हो सभी परहित करने में तत्पर रहे, सब दोषों का नाश हो, सर्व जगत् के प्राणी सुखी हों” यह कितनी उच्च भावना है। इन शब्दों के बोलने वालों के परिणाम भी कितने शुद्ध होते हैं और सुनने वालों की भावना भी पवित्र हो जाती है। ऐसी ही भावना पाक्षिक प्रतिक्रमण करते समय बोली जाती है।

खामेमि सव्वजीवे, सव्वे जीवा खमंतु मे ।  
मित्ती मे सव्वभूएसु, वेरं मज्झं न केणई ॥

पुण्य प्रकाश ग्रन्थ के स्तवन में कहा है

सर्व मित्र करी चिन्तवो साहेलडीरे, कोई न जाणो शत्रु तो;  
रागद्वेष एम परिहरी साहेलडीरे, कीजे जग पवित्र तो ।

इसका अर्थ स्पष्ट है। किसी को तुम शत्रु मत समझो, सब पर समभाव रखो। इसके उदाहरण शास्त्र में जगह जगह मिलते हैं। जैसे गजसुकुमाल, मैतार्य मुनि, खंडक मुनि आदि। स्वयं महावीर भगवान् ने भी चण्डकौशिक सर्प को, जिसने यद्यपि भगवान् को क्रोध में आकर डस लिया, शत्रु नहीं समझा। इसके विपरीत उसे उपदेश देकर उसे तार दिया। इससे बढ़ कर मैत्री भाव की क्या उदाहरण हो सकता है? अन्य स्तवों में भी कहा है कि :

अष्टादशपुराणानां, सारात्सारः समुद्धृतः ।-  
परोपकारः पुण्याय, पापाय परधीढनम् ॥

“सब शास्त्रों का और १८ पुराणों का सार यही है कि परोपकार ही पुराण है और पर को पीडा करना ही पाप है।” अतएव सब प्राणियों पर मैत्री भाव रखना चाहिये। यदि कोई अपने पर क्रोध करे या हानि पहुँचावे तो उसे अपने हृदय में सोचना चाहिये कि जो कुछ हुआ है वह मेरे किये हुए का ही फल हुआ है। इस प्रकार मन को समझा कर जगत् के सब जीवों पर मैत्री भाव रखें।

द्वितीय प्रमोद भावना का स्वरूप

अपास्तारोषदोषाणां, वस्तुतत्त्वावलोकितानाम् ।

गुणेषु पक्षपातो यः स प्रमोदः प्रकीर्तितः ॥१४॥

“जिनहोंने अपने सब दोषों को दूर कर दिया है और वस्तु-तत्व को समझ लिया है, उनके गुणों पर पक्षपात (बहुमान) रखना—यह प्रमोद भाव कहलाता है ॥१४॥”

विवेचन . जिन महापुरुषों ने अपने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि महान् दोषों को महान् प्रयास कर दूर कर दिया है और वस्तु स्वरूप को अच्छी तरह समझ लिया है ऐसे महात्मा पुरुषों का बहुत आदर करना चाहिये। जिन महापुरुषों ने अनेक उपसर्ग सहकर अपने कर्मों का क्षय किया है, अनेक ग्रन्थों को लिखकर वस्तु-तत्व का उपदेश कर संसार के समस्त उसका असली स्वरूप बताया है, ऐसे महापुरुषों को मानभरी दृष्टि से देखना चाहिये। महात्मा पुरुषों का चरित्र अथवा जीवन-वृत्तान्त पढ़कर या सुन कर उनके गुणों की तरफ बहुत मान करना चाहिये। यही प्रमोद भावना है। इससे उनके गुणों को अपनाने की इच्छा होती है और थोड़ा ही प्रयास करने पर गुण प्राप्त हो जाते हैं।

एक बात जानने योग्य यह भी है कि जब कभी हम दूसरे की निन्दा करते हैं तब चित्त में एक प्रकार का क्षोभ होता है। परन्तु दूसरे के गुणों की व्याख्या करने से मन में आनन्द होता है। यही प्रमोद भावना है जो “समता” का एक अंग है।



तृतीय कल्या भावना का स्वरूप

दीनेष्वार्त्तेषु भीतेषु, याचमानेषु जीवितम् ।

प्रतिकारपरा बुद्धिः, कारुण्यमभिधीयते ॥१५॥

“अशक्त, दुखी, भय से व्याकुल, और जीवन की याचना करने वाले प्राणियों के प्रति उनके दुःखों को दूर करने की बुद्धि कल्या भावना कहलाती है।”

विवेचनः दुःख अनेक प्रकार के होते हैं: मानसिक, शारीरिक और भौतिक। दूसरे व्यक्तियों को इन दुःखों से छुड़ाने की बुद्धि कल्या भावना है। जो मनुष्य रात दिन सांसारिक सुख के लिये अनेक कष्ट उठाते हैं और शुद्ध देव, गुरु, धर्म को नहीं जानते और अनेक पाप कर्म कर भवचक्र में झूबते हैं उनको भी जगत् का स्वरूप समझाकर शासन-रसिया बनाने की इच्छा भी कल्या भावना है। “सब जीव कर शासन रसी अस भाव दया मन उलसी” यह भगवान् की उक्त कल्या भावना थी जिससे उन्होंने तीर्थकर गोत्र कर्म बाँधा। इस कल्या भावना से ही मैत्री भाव जागृत होता है। शान्ति-सुधारस ग्रन्थ में कहा है :

परदुःखप्रतीकारमेवं ध्यायन्ति ये हृदि ।

लभन्ते निर्विकारं ते, सुखमायति-सुन्दरम् ॥

“जो मनुष्य दूसरे जीव के दुःख को हटाने का उपाय हृदय में विचारता है उसे सुन्दर और विकार रहित सुख मिलता है।” इस प्रकार की बुद्धि से जो सुख मिलता है वह परिणाम में भी सुन्दर होता है। साधारण सुख तो क्षणिक और परिणाम में दुःख देने वाला होता है पर यह सुख परिणाम में सुन्दर होता है और इसमें विकार भी नहीं होता।

चौथी माध्यस्थ्य भावना का स्वरूप

क्रूरकर्मसु निःशंकं, देवतागुरुनिन्दषु ।

आत्मशंसिषु योपेक्षा, तन्माध्यस्थ्य मुदीरितम् ॥१६॥

‘भ्रूँ कर्म करने वाले, देव तथा गुरु की निन्दा करने वाले, और आत्मश्लाघा करने वाले प्राणियों के प्रति “विना हिचकचाट के उपेक्षाभाव रखना’ माध्यस्थ्य भावना है ॥ १६ ॥”

विवेचनः संसार के प्राणी ऐसे ऐसे नीच कर्म या पाप कर्म करते हैं जिनको देख कर साधारण मनुष्य भी गुस्सा कर बैठता है। ऐसे प्राणियों पर भी क्रोध नहीं करना चाहिये। क्योंकि प्रथम तो क्रोध करने से कर्म-बन्ध होता है दूसरे, क्रोध करके न हम किसी का भला कर सकते हैं, न अपना ही। संसारी जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार कार्य करते हैं। उन पर क्रोध करना व्यर्थ है। कारण, तुम्हारे क्रोध करने से वह प्राणी पाप कृत्य करने से हटने वाला नहीं है। जब मनुष्य के पापानुबन्धी पाप या पुण्य का उदय होता है तो वह दुःख या सुख का अनुभव करता है। इसका सहज उपाय तो यह है कि उपदेश द्वारा उसको समझाना चाहिये। अगर वह फिर भी नहीं समझे या उपदेश न माने तो स्वयं क्रोध न कर माध्यस्थ्य भाव रखना चाहिये। इससे उस जीव के सुधारने का कभी समय आ सकता है। यदि उसका तिरस्कार कर दिया जायगा तो वह जीव उपदेश ही न सुनेगा। इसलिये दोनों के हित के लिये माध्यस्थ्य भाव रखना ही उचित है। संसार के प्राणियों के भिन्न २ प्रकार के कर्मोद्भव होते हैं। इसलिये सबकी चेष्टा एक सी नहीं होती। इसलिये किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिये। उसको सुधारने का प्रयत्न तो करना चाहिये परन्तु सुधारने के लिए व्यर्थ क्रोध नहीं करना चाहिये।

मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ्य ये चार भावनाएं धर्म-ध्यान भावना है। इनको भावने से आर्तध्यान और रौद्रध्यान रुकता है। मन स्थिर रहता है एवं समता प्राप्त होती है। इस भावना से इतना आनन्द पैदा होता है कि उसका वर्णन करना कठिन है। यह समता-प्राप्ति का प्रथम सोपान है।

समता का दूसरा साधन—इन्द्रियो के विषयो पर नियन्त्रण

चेतनेतरगतेष्वखिलेषु,

स्पर्शरूपरसगन्धरसेषु ।

साम्यमेव्यति यदा तव चेतः, पाणिगं शिवसुखं हि तदात्मन् ॥१७॥

अर्थ :—“हे चेतन ! जब चेतन और अचेतन पदार्थों में रमे हुए स्पर्श, रूप, गंध, रस (शब्द) और रस में तेरा जीव समता प्राप्त करेगा तब ही मोक्ष का सुख तेरे हाथ में आवेगा ॥१७॥”

विवेचन :—जो चार भावनाएं समता-प्राप्ति का प्रथम साधन हैं ऊपर बता चुके हैं। अब दूसरे साधन इन्द्रिय-दमन—की विवेचना करते हैं। हे चेतन ! सब चेतन और अचेतन पदार्थों में रमे हुए स्पर्श, रूप, रस, शब्द और गंध के प्रति यदि चित्त समता प्राप्त करता है तो मोक्ष निकट ही है। मधुर गान, नाच, रंग, रस, सुगन्धि और स्तनों का स्पर्श ये सब इन्द्रियों की करतूतें परमार्थ का नाश करने वाली हैं। ये सब इन्द्रियाँ मनुष्य को संसार में भटकाने वाली हैं। पाँचों इन्द्रियों के विषयों के राग द्वेष में न फँसना मोक्ष प्राप्ति का उत्तम साधन है। इन में क्षणिक सुख तो जरूर है पर अन्त में वह दुःख का हेतु है। जीव को वह मोक्ष मार्ग से दूर ले जाने वाला है। इसलिये इन्द्रियों के विषयों में संयम रखना बहुत आवश्यक है। यह समता का दूसरा साधन है।

समता—प्राप्ति का तीसरा साधन—आत्मशिक्षा पर विचार करना

के गुणास्तव यतः स्तुतिमिच्छस्यद्भुतं किमकृथा मद्वान् यत् ।

कैर्गता नरकभीः सुकृतैस्ते, किं जितः पितृपतिर्यदचिन्तः ॥१८॥

अर्थ :—“तुझमें ऐसा कौनसा गुण है जिससे तू स्तुति की इच्छा रखता है ? तूने ऐसा क्या आश्चर्यकारी काम किया है जो तू अहंकार करता है ? तेरे कौन से सुकृत्य हैं कि जिनके कारण नरक का भय मिट गया है ? क्या तूने यम को जीत लिया है कि जिससे तू निश्चिन्त हो गया है ? ॥ १८ ॥

विवेचन :—आत्मशिक्षण का अर्थ है वस्तुस्वरूप तथा आत्मस्वरूप पर विचार करना और इन्हे पहचानना। जब यह समझ में आ जायगा कि आत्मा क्या है, पुद्गल क्या है, और इनका सम्बन्ध क्या है, वह कैसा है और क्यों है तो तुम्हारे मन में शांति अवश्य आ विराजेगी और अपनी आत्मा का सच्चा स्वरूप सामने आजायगा। फिर स्तुति सुनने अथवा

अहंकार करने को कोई कारण नहीं रहेगा। अद्भुत काम करने वाले व्यक्ति को भी अहंकार नहीं करना चाहिये उसने चाहे भगवान् महावीर के समान तपस्या, राजसुकुमाल के समान ज्ञान, स्कन्दमुनि के समान समता, विजय सेठ या स्थूलिभद्रजी के समान ब्रह्मचर्य पालन किया हो अथवा किसी समाज या देश का कोई अद्वितीय महान् कार्य किया हो। ऐसे कुछ भी अद्भुत काम किये बिना ही झूठी स्तुति सुनने की इच्छा रखना और अहंकार करना कहां तक उचित है? जब इस प्रकार के विस्मयकारी कार्य करने वाले महात्मा न स्तुति सुनने की इच्छा रखते हैं, न कभी मन में अहंकार लाते हैं तो हम किस गिनती में हैं?

### ज्ञानी का लक्षण

गुणस्तवैर्यो गुणिनां परेषामाक्रोशनिन्दादिभिरात्मनश्च ।  
मनः समं शीलति मोदते वा, खिद्येत च व्यत्ययतः स वेत्ता ॥१६॥

“दूसरे गुणवान् प्राणियों के गुणों की प्रशंसा सुनकर अथवा दूसरों से अपनी निन्दा सुनकर जो अपने मन को चलित नहीं होने देता अपितु प्रसन्न होता है, और गुणीजनों की बुराई तथा अपनी बड़ाई सुनकर दुःखी होता है वही प्राणी ज्ञानी है ॥ १९ ॥”

विवेचन : ज्ञानी पुरुष अपने गुणों की प्रशंसा सुन अपनी स्थिति-स्थापकता नहीं खोता, और अधम आदमी दूसरे के गुण सुनकर ईर्ष्या करता है। वह उसे नीचा दिखाने की चेष्टा करता है। ज्ञानी पुरुष दूसरों के गुण देखकर प्रसन्न होता है और उन्हीं गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, किन्तु अधम वृत्ति वाला मनुष्य दूसरों के अवगुण ही देखता है और बुराई करता है। सार यह है कि ज्ञानी पुरुष अपनी प्रशंसा सुन प्रसन्न नहीं होता और न बुराई सुन क्रोध करता है, किन्तु वह, तो सदा समभाव में रहता है।

अपना शत्रु कौन और मित्र कौन ?

न वेत्ति शत्रून् सुहृदश्च नैव, हिताहिते स्वं न परं च जन्तोः ।  
दुःखं द्विषत् वाञ्छसि शर्मं चैतन्निदानमूढः कथमाप्यसिष्टम् ॥२०॥

“हे आत्मा ! तेरा शत्रु कौन है और मित्र कौन है तू यह नहीं पहिचानता है तेरा हित करने वाला कौन और अहित करने वाला कौन है यह भी तू नहीं जानता । तेरा क्या है और दूसरे का क्या है यह भी तू नहीं जानता । तू दुःख से द्वेष करता है और सुख प्राप्त करना चाहता है परन्तु उनके कारणों को न जानने से तुझे इच्छित वस्तु कैसे मिल सकती है ? ॥ २० ॥”

विवेचन : हे जीव तू यह नहीं जानता कि तेरे दुश्मन कौन हैं और उनकी शक्ति कितनी है । यह जब तक तू नहीं जानता तब तक उन पर जय कैसे प्राप्त कर सकता है ? तेरे वास्तविक शत्रु तो राग द्वेष, उनसे उत्पन्न कषाय-वेदोदय, मोह तथा मिथ्यात्व, अत्रिरति, प्रमाद और योग हैं और उपशम, विवेक, संवर आदि तेरे मित्र हैं । इनको तू अच्छी तरह समझ तथा इनकी शक्ति को ध्यान में रख आत्मगुण को प्राप्त कर ।

तू और तेरा शरीर ये दोनों अलग अलग वस्तुएँ हैं । तू तो आत्मा है और शेष शरीर, वस्त्र आदि सब पदार्थ पौद्गलिक हैं । ये वस्तुएँ तेरी आत्मा से पृथक् हैं । इन पौद्गलिक वस्तुओं को तूने अपना मान रखा है यही तेरी भूल है । क्योंकि अनन्त जन्मों से तेरा और इनका सम्पर्क चला आ रहा है । जय तक आत्मा तथा पौद्गलिक शरीर का सम्बन्ध तुझे मालूम नहीं होवा तब तक वस्तुस्वरूप अथवा आत्मा का स्वरूप नहीं जाना जा सकता । जब तक आत्म-स्वरूप नहीं समझ में आता तब तक समता प्राप्त नहीं हो सकती । यह समता प्राप्त करने का तीसरा साधन है ।

कौनसी वस्तु ग्रहण करने योग्य है ?

कृती हि सर्वं परिणामरम्यं, विचार्य गृह्णाति चिरस्थितीह ।  
भवान्तरेऽनन्तसुखाप्तये तदात्मन् किमाचारमिमं जहसि ॥२१॥

“इस संसार में जो बुद्धिमान् पुरुष हैं वे ऐसी वस्तु ग्रहण करते हैं जो लम्बे समय तक साथ दे और उसका परिणाम भी सुन्दर हो । इस-लिये हे चेतन ! इस भव के बाद अनन्त सुख प्राप्त करने का साधन भासिक आचार को क्यों बजता है ? ॥ २१ ॥”

विचार :- बुद्धिमान् पुरुष जब किसी भी चीज को ग्रहण करता है तो यह देखता है कि यह वस्तु टिकाऊ है या नहीं और यह कहीं तक उपयोगी है। कहीं ऐसा न हो कि वह वस्तु थोड़े दिनों तक तो अच्छी लगे और फिर किसी उपयोग की न रहे। जब तक पौद्गलिक वस्तु को ग्रहण करते समय इतना विचार नहीं किया जायगा तब तक वास्तविकता का ध्यान नहीं होगा। जो कुछ भी सुख सासारिक हैं वे सब क्षणिक हैं। वे पहले तो अच्छे लगते हैं पर पीछे दुःख देते हैं। जवानी का आनन्द बुढ़ापे में दुःखदायी हो जाता है। उसी प्रकार धन, यौवन यहाँ तक कि प्रत्येक पौद्गलिक वस्तु में क्षणिक सुख होता है परन्तु अन्त में दुःख ही दुःख है। अतएव किसमें कितना स्थायी सुख है यह जानने का प्रयत्न मनुष्य को करना चाहिये। तू कौन है ? तेरा क्या है ? और तेरा कर्तव्य क्या है ? ये सब चीजें तेरी किस तरह हैं और तेरा सम्बन्ध इनके साथ कैसा है ? इन बातों को बार बार सोचना चाहिये। इस प्रकार आत्म-निरीक्षण करने से ही स्व-पर वस्तु का ज्ञान होगा। इस प्रकार विचार न करने पर प्रायः मिला हुआ भी सद् उपदेश निष्फल हो जाता है। धर्म-बुद्धि से किया हुआ कार्य भी अज्ञानता के कारण पाप का हेतु हो जाता है। आत्मविचार करने वाला हर कार्य की छान-बीन करता है, हरदम जागृत रहता है और अपनी शक्ति का नाश नहीं करता। आत्मविचार से और भी अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। इसलिये हे चेतन ! अब भी चेत और आत्म विचार किया कर।

राग-द्वेष के किये हुए विभागों का विचार

निजः परो वेति कृतो विभागो, रागादिभिस्ते त्वरयस्तवात्मन् ।  
चतुर्गतिक्लेशविधानतस्तत्, प्रमाख्यन्नस्परिनिर्मितं किम् ॥२२॥

“हे चेतन ! तेरा, मेरा और पराया ऐसा विभाग राग-द्वेष का किया हुआ है। चारों गतियों में अनेक प्रकार के क्लेश कराने वाला होने से राग-द्वेष तो तेरे शत्रु हुए। ऐसी स्थिति में तू शत्रु के बनाये हुए विभाग को क्यों मानता है ? ॥ २२ ॥”

भावार्थ : श्रीमद्भयशोविजयजी महाराज अष्टक में लिखते हैं :  
“अहं ममेति मंत्राऽयं मोहस्य जगदाध्यकृत्” अर्थात् मैं और यह मेरा

इस मोहमन्त्र से जगत् अंधा हो गया है। इसी प्रकार भर्तृहरि ने भी कहा है "पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतं जगत्।" अर्थात् मोहमयी प्रमाद मदिरा पीकर जगत् पागल हो गया है। इसी प्रकार यह मोह जीव को अनेक प्रकार से दुःख देता है। इसका कारण यह है कि यह जीव अपना क्या है और पराई क्या है यह नहीं जानता। इस कारण से जो चीज अपनी नहीं है उसे अपनी मान बैठा है। जो वस्तु अपनी है और अपने बहुत निकट है और जिसे दृढ़ता भी नहीं पड़ता उसे नहीं पहचानता। वह संसार में भ्रमण करता रहता है और कहता है कि यह मेरा घर है, यह मेरी स्त्री है इत्यादि ये सब राग है। 'यह वस्तु दूसरे की है, यदि नष्ट हो गई तो चिन्ता नहीं' ऐसी धारणा द्वेष से पैदा होती है। यह भी मोह का दूसरा स्वरूप ही है। इस प्रकार ये सब मोह के कारण ही हैं। अतएव यह भेदभाव मोहजनित है, जिससे जगत् अंधा होकर भव-भ्रमण करता है। मोह के ही कारण यह जीव चारों गतियों में अनेक प्रकार के दुःख पाता है। देवगति में विरह का दुःख तथा अन्य देवों का बड़ा होने से ईर्ष्या का दुःख, मनुष्य गति में आजीविका तथा संयोग-वियोग का दुःख। तिर्यचगति में वन्द मुँह मार ढोने का दुःख तथा नरक गति में अनेक प्रकार के मानसिक तथा शारीरिक असह्य दुःख सहने पड़ते हैं। ये सब मोह राजा के ही कारण हैं। अतएव मोह इस जीव का शत्रु हुआ और 'यह तेरा' 'यह मेरा' मानना शत्रु का किया हुआ विभाजन अपनी बड़ी भूल है। इसलिये हे चेतन ! इस जगत् में 'क्या तेरा' 'क्या पराया है' यह समझ और मोह-शत्रु के पहकावे में मत आ।

आत्मा और अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में विचार

अनादिरात्मा न निजः परो वा, कस्यापि कश्चिन्न रिपुः सुहृदा ।  
स्थिरा न देहाकृतयोऽण्वश्च, तथापि साम्यं किमुपैषि नैषु ॥२३॥

"आत्मा अनादि है, न कोई अपना और न कोई पराया है। न कोई शत्रु और न कोई मित्र है। देह की आकृति और उसमें रहे हुए परमाणु स्थिर नहीं हैं। तब भी तू उसमें समता क्यों नहीं रखता ? ॥२३॥"

भावार्थ : अब आत्मा क्या है और उसका सम्बन्ध अन्य वस्तुओं के साथ कैसा है यह देखना है। आत्मा स्वयं द्रव्य रूप से ध्रुव और अनादि है और वह पुद्गल के संग रह कर अनेक रूप धारण करता है। पर स्वयं आत्मा तो चेतनरूप और सनातन है। यह अजीव (पुद्गल) से बिल्कुल अलग है। आत्मा का लक्षण संपूर्ण ज्ञान है जो कर्मपुद्गल से लिप्त रहने से प्रगट नहीं होता और पुद्गल के सहयोग से अनेक रूप धारण करता है। यदि यह कर्म रूपी कचरा हटा दिया जाय तो इसका अनादि शुद्ध स्वरूप प्रगट हो जावे। इस प्रकार अनादिकाल से कर्मों से ढके हुए आत्मा का न कोई अपना है न कोई पराया, न कोई मित्र है और न कोई शत्रु। आत्मा ही स्वयं अपना है। माता, पिता, पति, पुत्र आदि सब सांसारिक सम्बन्ध कर्मसंयोग से अनेक बार हुए हैं और नष्ट हुए हैं और कोई भी सम्बन्धी स्थायी नहीं रहे। यदि ये सम्बन्धी अपने होते तो कभी छोड़ कर नहीं जाते। ये सब सम्बन्धी क्षणिक हैं, इनको अपना या पराया मानना ही भ्रम है, क्योंकि यह जीव अपना स्वरूप नहीं जानता और कर्मों के आवरणों के कारण अज्ञान अन्धकार में लीन है। इसीलिये यह भ्रम में पड़ा हुआ है।

यह शरीर भी नाशवान् है। अतः इस पर मोह करना अथवा अभक्ष्य पदार्थों से इसका पोषण करना यह भी भूल है। इसलिये इस संसार की स्थिति को समझना चाहिये। सब वस्तुओं और सब प्राणियों पर समभाव रखना चाहिये और आत्मिक दशा को उन्नत करने का ध्यान रखना चाहिये।

अब माता, पिता आदि का सम्बन्ध क्या है इस पर विचारे करते हैं

यदा विदां लेप्यमया न तत्वात्, सुखाय मातापितृपुत्रदाराः  
तथा परेऽपीह विशीर्णततदाकारमेतद्धि समं समग्रम् ॥२४॥

“जिस प्रकार चित्र में लिखे माता, पिता, पुत्र और स्त्री समझदार प्राणी को सुख नहीं देते उसी प्रकार इस संसार में स्थित प्रत्यक्ष माता, पिता आदि भी अमिश्रित एवं शाश्वत सुख नहीं देते। ये दोनों [ चित्र और वास्तविक ] नाश होने पर एक सरीखे हैं ॥२४॥”



**विवेचन :** इस संसार में माता, पिता, पुत्र आदि के सम्बन्ध अति सुखद और प्रेममय माने जाते हैं। परन्तु यह प्रेम कर्मजनित, स्वार्थवश और व्यावहारिक है। यह इतना अस्थिर है कि जहाँ स्वार्थ को जरा सा धक्का लगा कि ये नष्ट हुए। अस्थिर ही नहीं, कभी कभी एक दूसरे के शत्रु भी बन जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण संसार में देखे जाते हैं। जिस प्रकार यह शरीर भी अपना नहीं, उसी प्रकार संसारी सम्बन्धी भी अपने नहीं। सम्बन्धी भी समय आने पर छोड़ कर चले जाते हैं। जो छोड़ जाय वह अपना नहीं हो सकता।

प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार सुख दुःख भोगने के लिए संसार का व्यवहार चलाना पड़ता है परन्तु ऐसे व्यवहार में उसे लिप्त नहीं होना चाहिये। केवल अपना कर्तव्य (Duty) समझ कर ही सबके साथ वर्ताव करना चाहिये। इस प्रकार मनुष्य अपने पूर्व कृत पुण्य या पाप को बिना लिप्त हुए अर्थात् समता से भोगे। इस प्रकार पुराने कर्मों की निर्जरा होगी और नये कर्मों का बंध रहेगा। ऐसी समता रखने वाला इन संसारी संबंधों को चित्रवत् मानता है।

समता को पहचानने वालों की सख्या

जानन्ति कामान्निखिलाः ससंज्ञा, अर्थनराः केऽपि च केऽपि धर्मम् ।  
जैनं च केचिद् गुरुदेवशुद्धं, केचित् शिवं केऽपि च केऽपि साम्यम् ॥२५॥

“सब संज्ञा वाले प्राणी ‘काम’ को जानते हैं। उनमें से कितने ही अर्थ (धनप्राप्ति) को जानते हैं उनमें से कितने ही (थोड़े) धर्म को जानते हैं उनमें से कुछ ही जैन धर्म को जानते हैं और उनमें बहुत थोड़े ही शुद्ध तथा देवगुरु-युक्त जैन धर्म को जानते हैं और उनमें से भी बहुत थोड़े जन मोक्ष को जानते हैं और उनमें से भी बहुत थोड़े प्राणी “समता” को जानते हैं ॥ २५ ॥”

**विवेचन:**—सब संसारी जीव कर्मों से आवृत होने के कारण समता को नहीं पहचानते और न उसका आदर करते हैं। अनादि अभ्यास के कारण यह जीव सदा पतन के रास्तों को अपनाता है और कर्म सत्ता के आधीन हो विषय (काम) वासना की ओर दौड़ता है। इसका कारण अनादिकाल से जीव का मैथुन संज्ञा से संबंध है।

सब संज्ञी ( जिनमें संज्ञा हो ) प्राणिमा में मनुष्य धनप्राप्ति के विषय को अच्छी तरह जानता है और अनेक रीति—आय या अन्याय से धन संचय करता है। वह धन के लिये रात दिन परिश्रम करता है, नीच की नौकरी करता और न करने योग्य कार्य भी करता है। धन प्राप्ति में लोग अन्धे होकर मशीन की तरह काम करते हैं और जरा भी आराम नहीं करते और कुछ लोग प्राप्त धन के रक्षण में या मौज, शौक तथा इंद्रियों के भोगों में लिप्त रहते हैं, वे लेशमात्र भी धर्म को नहीं जानते। विशेषकर वे लोग जो पश्चिम सभ्यता का अनुसरण करते हैं वे धर्म को कतई नहीं जानते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धर्म को जानते हैं परन्तु शुद्ध धर्म के ज्ञानी नहीं होने से धर्म के नाम पर हिंसा का पालन करते हैं। पर ऐसे मनुष्य बहुत थोड़े हैं जो संसार से सर्वथा मुक्त कराने वाले, शुद्ध आत्मदशा का स्वरूप बतलाने वाले और मन तथा शरीर को कष्ट देने वाली उपाधियों से छुड़ाने वाले श्री जिनेश्वर भगवान् के बताये हुए शुद्ध धर्म के ज्ञाता हों। श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति तो उनसे भी कम हैं। मोक्ष का स्वरूप जानने वालों की संख्या तो बहुत कम है। समता ही मोक्ष का साधन है तथा समता ही ज्ञान तथा क्रिया का मिश्रण है इस वाता को तो विरला ही मनुष्य जानता है। मनुष्यों को जानना चाहिये कि 'समता' में ही सुख है और 'समता' ही मोक्ष देने वाली है।

सहज सम्बन्धियों का स्नेह स्वार्थमय है। यह जानकर तुम भी अपनी स्वार्थसिद्धि में क्यों नहीं लगते? यह 'समता' का चौथा साधन है।  
स्निहन्ति तवद्धि निजा निजेषु, पश्यन्ति यावन्निजमर्थमेभ्यः।  
इमां भवेत्त्रापि समीक्ष्य रीतिं, स्वार्थे न कः प्रत्यहिते यतेत ॥२६॥

“सहज सम्बन्धी लोग जब तक अपने सगे सम्बन्धी में स्वार्थ देखते हैं तब तक स्नेह रखते हैं। जब इस भव में ऐसी (स्वार्थपन) रीति है तो हम परभव में स्वार्थ के लिये क्यों नहीं प्रयत्न करें? ॥ २६ ॥”

विवेचन: यह सब संसार स्वार्थी है। जहां स्वार्थ है वहाँ प्रेम है। स्वार्थ पूरा हुआ और प्रेम का अन्त हुआ। मनुष्य जब तक जवान है, वह काम करने में या रुपया कमाने में समर्थ है उसके पास जब तक

धन है, शक्ति है, अच्छी स्थिति अथवा रूप यौवन है, तभी वक्तवस से सब स्नेह करते हैं। जैसे ही इन धीजों में कभी आई वैसे ही स्नेह भी धीरे-धीरे कम होने लगता है। वृद्ध मनुष्य के मरने पर कोई शोक नहीं करता। धनहीन, शक्तिहीन को कोई नहीं पृच्छता। जवानी तथा रूप के हटने पर पति पत्नी में स्नेह कम होने लगता है। इस प्रकार स्नेह सब स्वार्थ का है। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम मोह-त्याग के नाम पर गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों से भाग जाओ। जब तक संसार में रहना है तब तक अपनी सब संसारी जिम्मेदारियों ठीक ठीक निभाना ही चाहिये। केवल तुम्हें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये। अपनी जिम्मेदारियों अनासक्त भाव से निभानी चाहियें। तेरा स्वार्थ क्या है तू यह अच्छी तरह समझ ले। तेरा असल स्वार्थ तो इस भव और परभव में सच्चा आनन्द तथा आत्महित प्राप्त करना है। तू इसी स्वार्थ को प्राप्त करने में उद्यत रह ! यह स्वार्थ कैसे प्राप्त किया जाय यह जानने का प्रयास कर और क्षणिक नीच स्वार्थ की इच्छा त्याग दे। तू मन को बश में रख कर संसार में उदासीनता से रह और सब व्यवहार, दान, दया, चमत् आदि धारण कर; तेरा स्वार्थ सिद्ध हो जायगा। इस प्रकार का स्वार्थसाधन समता प्राप्ति का शीघ्र उपाय है।

पौद्गलिक पदार्थों की अस्थिरता स्वप्नदर्शन

स्वप्नेन्द्रजालादिषु यद्द्राप्तौ रोषश्च तोषश्च मुधा पदार्यैः ।

तथा भवेऽस्मिन् विषयैः समस्तैरेवं विमोघ्यात्मलयेऽवधेहि ॥२७॥

“जिस प्रकार स्वप्न अथवा इन्द्रजाल आदि में प्राप्त वस्तुओं पर गुस्सा करना अथवा संतोष करना एकदम निरर्थक है उसी प्रकार इस भव में प्राप्त पदार्थों पर भी ( गुस्सा करना अथवा प्रसन्न होना ) व्यर्थ है। इस प्रकार विचार कर तू आत्मसमाधि में तत्पर हो।”

भावार्थ: कुसुमपुर में एक भिखारी था। उसने भीख मांगकर कुछ खाद्य पदार्थ इकट्ठा किया, उसे गाँव के बाहर एक वृक्ष की शीवल छाया में बैठ कर खा लिया और वहीं सो गया। उसने स्वप्न में देखा

कि उसे राज्य मिल गया है, अच्छे अच्छे भोग मिले हैं, जियाँ मिली हैं तथा वह राजसभा में बैठा है और उस पर चँवर डुलाए जा रहे हैं, भाट विरदावली गा रहे हैं, मंत्री तथा सब प्रजा के बड़े बड़े पुरुष सेवा में खड़े हैं। यह सब देख उसके मन में बहुत आनन्द हुआ। इतने में जैसे ही उसकी नींद खुली तो वह देखता है कि न तो सिंहासन है और न राज दरवार के वैभवं या प्रभुता। उसके पास उसकी केवल फटी गुदड़ी और उसका झूठा ठीकरा पड़ा है। इससे यह समझना चाहिये कि यह संसार भी इस स्वप्न के समान है। प्रथम तो संसार में सुख है ही नहीं, जो कुछ है भी वह क्षणिक तथा कल्पित और अन्त में मानसिक दुःख बढ़ाने वाला है। इसलिये इस संसारी सुख में आसक्ति रखना एकदम निरुपयोगी ही नहीं अपितु हानिकारक भी है। इसी प्रकार यदि कोई ऐसा पदार्थ मिले जो अपने को रुचिकर न हो तो क्रोध नहीं करना चाहिये, क्योंकि कोई भी वस्तु स्वयं तो अपना कुछ बनाती या बिगाड़ती नहीं। इसलिये ऐसी स्थिति में मनुष्य को अपने मन को किस तरह समझाना चाहिये यह बुद्धिमान् स्वयं विचार ले। इसलिये अच्छी या बुरी वस्तु मिलने पर हर्ष या शोक करना यह वस्तुस्वरूप के अज्ञान का द्योतक है।

इसलिये सांसारिक किसी भी पदार्थ में सुख मानना या इन्द्रियों के किसी भी विषय में स्थिरता मानना उचित नहीं है। पौद्गलिक सुख सुख नहीं है। यदि सुख है तो जीव के अपने सहज धर्म प्राप्त करने में और उसीमें लीन हो जाने में है। इसलिये आत्मलय प्राप्त करना ही कर्त्तव्य है। यह समता प्राप्ति का चौथा साधन है।

मृत्यु पर विचार तथा ममत्त्व का वास्तविक स्वरूप

एष में जनयिता जननीयं, बंधवः पुनरिमे स्वजनाश्च ।

द्रव्यमेतदिति जातममत्वो, नैव पश्यसि कृतांतवशत्वम् ॥२८॥

“ये मेरे पिता हैं, यह मेरी माता है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे सगे सम्बन्धी हैं, यह मेरा धन है, इस प्रकार का विचार तेरी ममता है। क्या तूने यम को अपने वश में कर लिया है जो तू बेफिकर है ? ॥२८॥”

विवेचन : ममता ही संसार में दुःख का कारण है। यह जानते हुए भी ममता में लोग सुख मानते हैं। ममता में पड़े मनुष्य की स्थिति एक शराबी के समान है जो भला पुरा नहीं समझता। यह निश्चित और सही है कि जो आया है वह जायगा अवश्य। ऐसा समझ कर मनुष्य को धर्माचरण करना चाहिये “गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेन्” ऐसे आचरण करने से इस जन्म में मृदुता आवेगी और कर्म-क्षय भी होगा। दूसरा भव भी सुधरेगा। भाई-बन्धु-बन्धो, पुत्र, धन दौलत आदि सांसारिक किसी भी वस्तु का मोह जीव को बचाने वाला नहीं है।

विषयो मे मोह उऽसका स्वरूप तथा ममता अयनाने का उपदेश  
 नो धनैः परिजनैः स्वजनैर्वा, दैवतैः परिचितैरपि मंत्रैः ।  
 रक्ष्यतेऽत्र खलु कोऽपि कृतांतान्नो विभावयसि मूढ किमेवम् ॥२६॥  
 तैर्भवेऽपि यद्दहो सुखमिच्छंस्तस्य साधनतया प्रतिमातैः ।  
 सुखसि प्रतिकलं विषयेषु, प्रीतिमेषि न तु साम्यसतत्त्वे ॥३०॥

“धन, सगे-सम्बन्धी, भेमी, नौकर-चाकर, देवता अथवा परिचित मित्र कोई भी यम से रक्षा नहीं कर सकता। हे अल्पज्ञ प्राणी ! तू इस प्रकार क्यों नहीं विचार करता कि सुख देने वाली सब वस्तुओं [धन, नौकर, सगा आदि] के द्वारा सुख पाने की इच्छा से प्रत्येक क्षण हे भाई ! तू विषयों में आसक्त रहता है पर तू ममता रूपी असली रहस्य को क्यों नहीं प्राप्त करता ? ॥२८ ३०॥”

भावार्थ : मनुष्य ममता के कारण यह भूल जाता है कि एक दिन मरना है। पैसा-रुपया की तो बात ही क्या, देवता भी मरण भय को एक मिनट के लिये टाल नहीं सकता। अनन्त वीर्यवान् श्रीमान्-महावीर परमात्मा भी जीवित रहने से जगत् का बहुत उपकार होवेगा यह जानते हुए भी मृत्यु को एक क्षण भर भी नहीं टाल सके और स्पष्ट रीति से कह गये कि मृत्यु को एक मिनट भी टालने में कोई भी समर्थ नहीं है। ऐसी स्थिति में इन सगे सम्बन्धियों में तू सुख क्यों कर मानता है ? वास्तव में सुख नाम की वस्तु संसार में है ही नहीं।

सांसारिक-वस्तुओं में सुख मानना भूल है। इस भूल के कारण संसार की विषय-वासना तथा इन्द्रिय सुख आदि में व्यस्त होकर जीव फिर चौरासी लक्ष योनियों में घूमता है। इसलिये हे भाई ! तू समझ और वास्तविकता तथा वस्तुओं के शुद्ध स्वरूप को पहिचान। यह संसार विषय-वासना से भरा हुआ है और इन्द्रजाल के समान है। वास्तविकता तो दूसरी ही वस्तु है। इसलिये इस संसार-चक्र से बचने के लिए समता से प्रीति क्यों नहीं करता ? समता के अपनाने से अनेक जीव सुखी हुए हैं। तेरी स्थिति भी सुधरेगी। इस समता में ही अपना स्वार्थ है। इस स्वार्थ-साधना में तू तत्पर हो, अन्य सब साधन वृथा हैं। यह स्वार्थ-साधना समता का प्रथम अंग है। सब जीवों, सब वस्तुओं पर समभाव रखना, कषाय का त्याग करना, विषयों से बचना, आत्म-परिणति जागृत करना आदि सब साधन संक्षेप में समता के उपाय हैं।

कषाय का असली स्वरूप और उसके त्याग का उपदेश।

किं कषायकलुषं कुरुषे स्व, केषुचिन्ननु मनोऽरिधियात्मन् ।  
तेऽपि ते हि जनकादिकरूपैरिष्टतां दधुरनन्तभवेषु ॥३१॥

‘ हे आत्मन् ! अनेक प्राणियों पर शत्रु-बुद्धि रख कर तू अपने मन को क्यों कलुषित करता है ?, क्योंकि सम्भव है, उन्होंने पिछले अनेक जन्मों में तेरे माता पिता के रूप में तेरी प्रीति अनेक बार पाई होगी ॥३१॥’

विवेचन : जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो हमारे मुख की आकृति बिगड़ जाती है, आँख और मुख लाल हो जाते हैं और शरीर गरम हो जाता है, मन वश में नहीं रहता अर्थात् अपनी असली अवस्था छूट कर कृत्रिम अवस्था हो जाती है। इस कृत्रिम अवस्था में कोई आनन्द नहीं, उल्टा दुःख ही होता है। अतः क्रोध कर ऐसी कृत्रिम अवस्था क्यों प्राप्त करना ? इसकी अपेक्षा यदि क्षमा धारण की जाय तो हानि तो कुछ भी नहीं होती, बल्कि चित्त को शान्ति मिलती है और बुद्धि स्थिर रहती है। इससे यह ज्ञात होता है कि क्षमा-मार्ग सुखद है और भोक्त देने वाला है। यहां यह भी सोचना चाहिये कि जिस पर तू क्रोध करता है संभव है कि वह किसी जन्म में तेरा प्रीति-पात्र अथवा तेरा

माता-पिता भी हुआ होगा। इसलिए जीव पर क्रोध करना विवेकी व्यक्ति का काम नहीं। क्रोध समता का विरोधी है।

शोक का सही स्वरूप—श्रीर उसको त्यागने का उपदेश

यांश्च शोचसि गताः किमिमे मे, स्नेहला इति धिया विधुरात्मन् ।  
तैर्भवेषु निहतस्त्वमन्तेष्वेव तेऽपि निहता भवता च ॥३२॥

“क्या मेरा स्नेही मर गया ! इस प्रकार की बुद्धि से व्याकुल होकर जिनके लिये तू शोक करता है उन्हीं व्यक्तियों से तू अनन्त जन्मों में मारा गया होगा या तूने भी उनको मारा होगा ॥३२॥”

भावार्थ : इस श्लोक का तात्पर्य यह कि जिस प्रकार जीव पर कषाय करना निरर्थक है उसी प्रकार उसके लिये शोक करना भी निरर्थक है। अपने बन्धु, माता-पिता आदि की मृत्यु पर शोक करना अपने आत्मिक गुणों का नाश करना है। शोक राग-मूलक है और संसार के बंधन का कारण है। वास्तव में तूने जो समय प्रमाद में खोया है उसका अफसोस कर कि इस अमूल्य समय में मैंने आत्महित साधन नहीं किया और पृथा ही भव-अमण किया।

मोह-त्याग और समता में प्रवेश

प्रातुं न शक्या भवदुःखतो ये, त्वया न ये त्वामपि पातुमीशाः ।  
ममत्वमेतेषु दधन्मुधात्मन्, पदे पदे किं शुचभेषि मूढ ! ॥३३॥

“जिन स्नेहियों को भवदुःख से बचाने में तू असमर्थ है और वे तुम्हें बचाने में असमर्थ हैं उन पर झूठा ममत्व रख कर हे मूर्ख आत्मा ! तू पग-पग पर क्यों शोक करता है ? ॥३३॥”

भावार्थ :—जिन व्यक्तियों के पास सब सुख के साधन उपलब्ध थे और अपने को सब से बड़ा मानते थे ऐसे शालिभद्रजी को जब ज्ञात हुआ कि उनसे भी कोई बड़ा है तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और भगवान् के पास दीक्षा ली। अनाथी मुनि को जब दाह-ध्वर हुआ

और वह किसी भी तरह शान्त नहीं हुआ तब उन्हें निश्चय हुआ कि संसार में अपना कोई नहीं है। जिनके लिये वे स्वयं प्राण देने को तैयार रहते थे और जिनके लिये ये जीव संसार-त्याग करते समय भी अनेक बार विचार करते हैं, वे स्वजन भी किसी स्थिति तक ही साथ दे सकते हैं। इस संसार की वास्तविक स्थिति ऐसी ही है। संसारी जीव मोह राजा के बाँधे हुए मजबूत रस्सों से बँधा है। जो मोह राजा के बन्धनों को तोड़ता है उसका ही जन्म सफल है। यह जीव बार बार जन्म मरण के दुःख से दुखी है, और माने हुए सुख के पीछे पागल हो रहा है। सगे सम्बन्धियों के लिये वह भव-दुःख में पड़ता है, यह उस का अज्ञान है। मोह राजा की चालें हैं। इन से बचना चाहिये। अपनी स्वार्थसिद्धि में लगे रहना चाहिये। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ भद्र पुरुषों ने मोहजाल में फँसे होने पर भी विरक्ति प्राप्त कर सब बन्धनों का त्याग करते हुए मोक्ष प्राप्त किया है, जैसे नन्दीधेणु और आदेकुमार। ऐसे भी उदाहरण, सुनने में आते हैं कि कुछ भद्र पुरुष मोहजाल में फँसे ही नहीं जैसे गजसुकुमालजी, नेमीनाथजी आदि। अतएव पुरुषों ! शूठे मोह को त्यागो और समता धारण करो।

समता द्वार का उपसंहार राग द्वेष त्याग का उपदेश

सचेतनाः पुद्गलपिण्डजीवा अर्थाः परे चाणुमया द्वयेऽपि ।

दधत्यनन्तान् परिणामभावांस्तरोषु कस्त्वर्हति रागरोषौ ॥३४॥

“पुद्गलपिण्ड से बना जीव सचेतन पदार्थ है, और परमाणुमय रूपका पैसा आदि अचेतन है। ये दोनों जाति के पदार्थ अनेक प्रकार के पर्यायभाव और परिवर्तनभाव रखते हैं। इसलिये इनके लिए राग द्वेष रखना कहां तक उचित है ? ॥३४॥”

विवेचन : इस संसार में सभी प्राणी—क्या मनुष्य क्या तिर्यच सभी पुद्गल के बने हैं। सब अचेतन पदार्थ जैसे सोना, चाँदी, लकड़ी आदि सब पुद्गल ही के बने हैं। ये जीवधारी—चेतन पदार्थ—समय समय पर पर्याय अर्थात् रूप बदलते रहते हैं। ये कभी मनुष्य रूप में, कभी तिर्यच रूप में कभी देव या नारकी रूप में उत्पन्न



होते हैं। ये रूप कभी अच्छे लगते हैं और कभी बुरे। ये बात दोनों चेतन और अचेतन पदार्थों पर लागू होती है। इसलिये एक ही वस्तु पर चाहे चेतन हो या अचेतन एक बार द्वेष करना और उसी वस्तु पर उसका रूप बदल जाने पर राग करना अनुचित है। जब वस्तु एक ही केवल रूप परिवर्तन के कारण हम उससे राग या द्वेष करते हैं तो यह 'राग-द्वेष करने का कोई कारण नहीं है' यह बात अगर समझ में आ जाती है तो संसार की सब खटपट मिट जाती है और समता आ जाती है। इसी कारण से 'वीतराग' को देव माना है, जिन्होंने राग और द्वेष का अन्त कर दिया और समता प्राप्त की। वास्तव में राग तथा द्वेष मोह जन्य हैं और अपने विकास का नाश करने वाले हैं तथा भव-भ्रमण के हेतु हैं। इनका नाश कर समता प्राप्त करने से मुक्ति प्राप्त होती है।

X

X

X

X

इस प्रकार यह समता का अधिकार पूर्ण हुआ। समता का त्याग, चित्त-दमन, कषाय-त्याग, शुभवृत्ति आदि सब समता प्राप्ति के साधन हैं, इनकी व्याख्या आगे होगी। ये सब समता प्राप्ति के साधन हैं और समता मोक्ष-प्राप्ति का साधन है। समता से तात्पर्य यह है कि कौसी भी अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति आवे मन को एक वृत्ति वाला रखना, ऐश्वर्य में फूल न जाना और विपत्ति में शोक के आधीन न हो जाना।

मन को ऐसी प्रवृत्ति को समता कहते हैं। ऐसी स्थिति प्राप्त करने पर सब कर्मों का क्षय हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना उचित है कि कोई पदार्थ कैसा भी छोटा या हलका क्यों न हो, उसकी ओर से आँख बन्द नहीं करनी चाहिये। उसका पूरी तरह सोच विचार कर ही उसका मूल्य विचारना चाहिये। अगर इस मूल्य आँकने में जरा भी भूल हुई तो वह वस्तु अपने ऊपर अधिकार कर लेगी। एक अंग्रेज विद्वान् Smiles ने कहा है कि "Never give way to what is little or by that very little, however, small it may be, you will be practically governed" शुरु में छोटी सी लगने वाली

अफीम की डली की परवाह न करने से वही कालान्तर-में शरीर तथा मन पर अधिकार कर लेती है और-पूरी तरह दास बना लेती है। अतएव प्रत्येक वस्तु की अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर उस पर जय प्राप्ति करने की आदत डालनी चाहिये।

समता अर्थात् सब जीवों या वस्तुओं की तरफ राग-द्वेष रहित भाव रखना। इस तरह वर्तने से मनुष्य के हृदय में एक अद्भुत प्रकार का आनन्द आता है जिसका वर्णन करना असम्भव है। बिना समता के धार्मिक क्रिया राख पर लीपना है। जब तक भूमि साफ नहीं होती तब तक कोई सुन्दर चित्र नहीं खिच सकता। इसलिये पहले हृदय को समता से स्वच्छ करना चाहिये अर्थात् उसे राग-द्वेष से मुक्त करना चाहिये।

### समता साधना के मुख्य चार साधन हैं

१. प्रथम साधन चार भावनाएँ भाना ये भावनाएँ मैत्री, कृष्णा, प्रमोद और माध्यस्थ्य भावनाएँ हैं। ये बहुत उपयोगी हैं, इनसे जीवों के परस्पर सम्बन्ध का ज्ञान होता है। जिससे हृदय आर्द्र होता है। दूसरी १२ भावनाएँ और भी हैं, जो संसारी भावनाएँ कहलाती हैं, जिनका विवेचन आगे किया जायगा।

२. दूसरा साधन इन्द्रिय-विषयों पर सम-चित रखना है। जीव अनादि काल के अभ्यास से इन्द्रियों के विषयों में फँस जाता है। वह अपने कर्तव्य को भूल जाता है। जब जीव यह विचारता है कि उसका वस्तुओं के साथ क्या सम्बन्ध है और वह इन्द्रिय के विषयों पर नियंत्रण (control) रखता है तो उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं, विवेक उत्पन्न हो जाता है। तब समता प्राप्त होती है।

३. समता का तीसरा साधन 'वस्तु-स्वभाव को जानना'—पौद्गलिक वस्तुओं के साथ जीव का कैसा सम्बन्ध है यह जानना अत्यन्त आवश्यक है। जब तक यह ज्ञान नहीं होगा तब तक यह जीव अनेक भूलें करेगा। जो वस्तु अपनी नहीं और न अपनी हो सकती है उसको अपना मानना, उस पर प्रेम करते रहना उसको प्राप्त करने की

कोशीश करते रहना, और उसके वियोग में दुःख मानना और इसी प्रकार अपने भाई, स्त्री, पुत्र आदि में सुख दुःख का अनुभव करना बड़ी भारी भूल है। परन्तु जब यह जीव जान जाता है कि ये सब वस्तुएँ पौद्गलिक हैं और इनसे प्राप्त सुख अल्प तथा क्षणिक है तो वह वस्तुओं के स्वभाव से परिचित हो जायगा और अपने को इनसे अलग समझ कर समता रखेगा।

४. चौथा साधन समता प्राप्ति का “स्वार्थ-प्राप्ति में लीन रहना” है। अब यह देखना है कि यह स्वार्थ क्या है। जीव का सुख चाहना ही स्वार्थ है। परन्तु वह यह नहीं जानता कि वास्तविक सुख क्या है तो वह संसार में सुख ढूँढता है। जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख ढूँढता है। अपने भाई बन्धु व स्नेहियों से सुख की आशा करता है। पर ये सब अस्थिर हैं, ये अपने स्वरूप को बदल लेते हैं और उसे भय अथवा दुःख से नहीं बचा सकते तब वह निराश हो जाता है। पर उसने जब यह समझ लिया कि संसार की स्थिति ही ऐसी है, यहाँ न कोई अपना है और न कोई भय से बचाने वाला है अतः जीव को चाहिए कि वस्तुओं के मोह से विरक्त हो आत्म-साधन क्यों न करें? अर्थात् जीव को आत्मसाधन में लगना चाहिये। यही वास्तविक स्वार्थ और समता-प्राप्ति का चौथा साधन है।

इन सबका सार यह है कि प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण करना चाहिये। केवल बाह्य निरीक्षण करने से कोई लाभ नहीं। अपना सम्बन्ध वस्तु-विशेष से कितना है, कैसा है और कितनी देर तक ठहरने वाला है इत्यादि बातों पर विचार करने से विशेष अनुभव प्राप्त होता है और मन की चंचलता मिटती है। इस प्रकार समता प्राप्त हो जाती है, जो मोक्ष-प्राप्ति का प्रमुख साधन है।

# द्वितीय आधिकार

## स्त्री ममत्व मोचन

समता का रहस्य विगत अध्याय में समझा। अब उसे प्राप्त करने के क्या क्या साधन हैं इस पर विचार करते हैं। यह सर्व विदित है कि सबसे बड़ा ममता का कारण स्त्री है। इसीके पीछे संसार में सब "थारा म्हारा" का झगड़ा है। अतएव सब से अधिक दुःख का कारण स्त्री ही है। स्त्री को पुरुष के गले में बाँधी हुई घट्टी माना है।

पुरुष के गले में घट्टी

मुद्गसि प्रणयचारुगिरासु, प्रीतितः प्रणयिनीषु कृति स्त्वम् ।

किं न वेत्सि पततां भववाद्धौ, ता नृणां खलु शिला गलबद्धाः ॥१॥

"हे विद्वानो ! स्त्री की स्नेहभरी वाणी तुमको सीठी लगती है। तुम उस पर प्रीति कर मोह के वशीभूत होते हो परन्तु क्या यह तुम नहीं जानते कि वह ( स्त्री ) भव-समुद्र में पड़ते प्राणियों के गले में बँधे हुए पत्थर के समान है।"

विवेचन : अनादि काल के अभ्यास से तथा मोहराजा की आज्ञा से प्राणी बाहर के सुन्दर दिखावे से तथा मधुर भाषण से स्त्री के मोह में फँस जाता है। उसे इस बात का भान नहीं रहता कि यह स्त्री का मोह कितना अनर्थ करने वाला है। यह विचारणीय बात है। अनन्त ज्ञान वाले इस जीव को उसकी पतित अवस्था को बतलाने के वास्ते विद्वानो ने स्त्री को गले में बाँधी घट्टी बताया है। पानी में डूबते हुए प्राणी को जिस प्रकार लकड़ी जैसी हल्की वस्तु तैरने के लिये जरूरी होती है। उसके बदले यदि उसके गले में भारी पत्थर बाँध दिया जावे तो वह निःसन्देह डूब जायगा। ठीक इसी प्रकार इस भव-समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के गले में यह स्त्री भारी पत्थर के समान है। एक भव में एक बार सम्बन्ध करने से अनन्त बार इस भव-समुद्र में भटकना पड़ता है। ऐसा ही वैराग्य शतक में कहा है :

मा जाणसि जीव तुमं पुतकलताई मज्झ सुहहेज ।

निउणं बंधणमेयं, संसारे संसरंताणं ॥

“हे जीव ! पुत्र, स्त्री आदि को तू सुख का कारण मानता है यह ठीक नहीं, क्योंकि यह सब इस जीव को संसार-भ्रमण कराने में दृढ़ बन्धन का हेतु है। मोह को ऐसा स्वरूप समझ कर मोह को कम करना चाहिये और संसार से उदासीन होना चाहिये ॥”

नोटः—यहाँ स्त्री को संसार का कारण तथा धृष्टी के समान बताया है। इसी प्रकार स्त्रियों के लिये पुरुष को भी संसार-समुद्र में डूबने का कारण समझना चाहिये। और जो जो बातें स्त्रियों के बारे में लिखी हैं वे सब बातें पुरुषों के बारे में भी समझनी चाहियें।

स्त्रियों की अरमण्यता

चर्मास्थिभजांत्रवसास्रमांसाभेध्याधशुच्यस्थिरपुद्गलानाम् ।

स्त्रोदेहपियडाकृतिसंस्थितेषु, स्कन्धेषु किं पश्यसि रम्यमात्मन् ॥२॥

“स्त्रियों के शरीरपिंड की आकृति में स्थित चमड़ी से ढकी हुई हाड, मांस, चरबी, आठडियाँ, मेद, रक्त, विष्टा आदि अपवित्र अनेक अस्थिर पुद्गलों का समूह है। हे जीव ! तू इसमें क्या सुन्दरता देखता है ? ॥२॥”

अपवित्र पदार्थों को दुर्गंध श्री शरीर का सम्बन्ध

विषोक्त्य दूरस्थममेव्यमल्पं, क्षुणुप्ससे भोटितनासिकस्त्वं ।

भृतेषु तनैव विभूढ ! योषावपुंसु तर्कि कुरुपेऽमिलापम् ॥३॥

“हे मूर्ख ! दूर विद्यमान थोड़ी भी दुर्गन्धित वस्तु को देख कर तू घृणा करता है और मुँह मोड़ लेता है, तब वैसी ही दुर्गन्ध से भरी हुई स्त्रियों के शरीर की तू क्यों अभिलाषा करता है ? ॥ १३ ॥”

स्त्री-मोह से इस भव मे तथा परभव में प्राप्त दुःखों का दर्शन

श्रमेध्यमांसास्रवसात्मकानि, नारीशरीराणि निषेवमाणाः ।

इहाप्यत्यद्रविषादिचिन्तातापान् परत्रेऽप्यति दुर्गतीश्च ॥४॥

“बिष्टा, मांस, हथिर और चर्बी से भरा हुआ यह (अपना) अथवा स्त्रियों का शरीर सेवन करने वाले प्राणी ! इस भव में पुत्र और पैसे इत्यादि की चिन्ता के ताप से तू दुःख पाता है और परभव में भी तेरी दुर्गति होती है ॥४॥”

विवेचन : ऊपर बताया है कि अपना शरीर अपवित्र पदार्थों से भरा होने के कारण अपवित्र है। इसलिये सेवन योग्य नहीं, तब भी कामान्ध पुरुष इसका सेवन करते हैं। इसलिये उनको इस भव में अनेक दुःख सहने पड़ते हैं। पुत्र हो तो उसके लालन पालन की चिन्ता, अपना, अपनी स्त्री व पुत्र के पेट पालने का दुःख, कपड़ा, गहने तथा अपनी इज्जत बनाये रखने की चिन्ता हरदम सताती रहती है। पुत्र के वास्ते धन इकट्ठा करने की चिन्ता बनी रहती है जो कभी भी पूरी नहीं होती। इस प्रकार अनेक प्रकार की चिन्ताएँ जन्म भर बनी रहती हैं। इतना होने पर भी यदि पुत्र कपूत निकल जाय तो सारा जन्म नष्ट हो जाता है। इस सम्बन्ध में कपिल केवली का दृष्टान्त मनन करने योग्य है। कपिल एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसके पास अपनी स्त्री के प्रसूतिक्रम के लिये एक पैसा भी नहीं था। उस समय वहाँ के राजा का यह नियम था कि जो कोई भी ब्राह्मण प्रातः सब से पहले आकर उसको आशीर्वाद देता उसको वह दो मासे सोना देता था। अतएव कपिल दो मासा सोना प्राप्त करने के लिए प्रातः जल्दी उठ कर राजमहल की तरफ चला। रात्रि अधिक रहने के कारण जब वह बाजार में निकला तो राजकर्मचारियों ने उसे चोर समझ कर पकड़ लिया और प्रातः उसे राजा के सन्मुख उपस्थित किया। राजा ने उससे पूछा कि तू इतनी रात शेष रहते क्यों आया, सच सच बता। इस पर उसने सारी घटना सच सच कहदी और कहा कि दो मासा सोना प्राप्ति के लिये आया हूँ। राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और कहा कि मांग “जो कुछ तू माँगीगा वही दूँगा”। यह सुन कर उसने साचा कि राजा स्वयं मुझे मुँह माँगने को कहता है तो मैं कम क्यों माँगूँ। यह सोच उसने विचार किया कि दो मासे सोने से क्या होगा, अतएव एक तोला तो माँगूँ। इतने में फिर विचार आया कि एक ताले सोने से उसकी दरिद्रता दूर नहीं हो सकती, अतएव कम से कम एक गाँव माँगूँ। फिर सोचा कि एक गाँव से क्या होता है। ऐसा माँगने का मौका

बार बार नहीं आता, इसलिये आधा राज माँगूँ। फिर खयाल आया जेब माँगना ही है तो सारा राज्य ही क्यों न माँगलूँ। इस प्रकार विचार करते-करते उसने सोचा कि दो भासा सोना प्राप्त करने का लोभ अब इतना बढ़ गया कि राज्य माँगने पर भी लोभ शान्त नहीं होता तो इस लोभ का अन्त कहाँ? इसकी तो वृत्ति कभी होती ही नहीं। और इस लोभ का कारण क्या है, तो ज्ञात हुआ कि इस सब लोभ की जड़ तो एकमात्र स्त्री ही है। इतना सोचते ही उसे ज्ञान हो गया। वह तत्काल लोच कर साधु बन गया और कठिन दीक्षा पालते हुए अन्त में केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया। इस दृष्टान्त से साफ समझ में आ गया होगा कि इस संसार-भ्रमण की जड़ स्त्री ही है। उसे त्यागे बिना सच्चा सुख अर्थात् मोक्ष नहीं मिलता। इसीलिये स्त्री को गले में वँधी घट्टी की उपमा दी है। इसी से मनुष्य के दोनो लोक नष्ट हो जाते हैं। अतएव इससे बचो।

स्त्री शरीर मे क्या है यह विचारना जरूरी है।

अंगेषु येषु परिमुह्यसि कामिनीनां,  
चेतः प्रसीद विश च क्षणमन्तरेषाम् ।  
सभ्यक् समीक्ष्य विरमाशुचिपिण्डकेभ्य-  
स्तेभ्यश्च शुच्यशुचिवस्तुविचारमिच्छन् ॥५॥

“हे चित्त ! तू स्त्री के शरीर पर मोह करता है, पर जरा सोच कि इसके जिन अंगों पर तुझे मोह है उनमें प्रवेश कर पवित्रता और अपवित्रता का विचार कर और देख तो तुझे ज्ञान हो जायगा कि स्त्री अशुचि की खान है ॥ ५ ॥”

विवेचनः स्त्री के शरीर पर अति मुग्ध होने से रावण का नाश हुआ। स्त्री की अपवित्रता का विचार कर भगवान् नेमिनाथ ने संसार छोड़ा। इसी प्रकार अनेक महात्माओं ने संसार का मोह छोड़ा। यही स्त्री-मोह संसार में सब जीवों को रलाता है और चैन नहीं लेने देता। यह सब मोहक कर्म की लीला है।

भविष्य की पीड़ा का विचार कर मोह कम करना

विमुक्षसि स्मरेद्दशः सुमुण्या, मुखेक्षणादीन्यभिवीक्षमाणः ।

सभीक्ष्णं नो नरकेषु तेषु, मोहोद्भवा भाविकदर्थनास्ताः ॥६॥

“विकसित नयन वाली और सुन्दर मुख वाली स्त्रियों के नेत्र, मुख आदि देख कर तू मोहित हो जाता है। पर उस मोह के परिणाम-स्वरूप भविष्य में होने वाली पीड़ा तथा नरक की पीड़ा का ध्यान क्यों नहीं करता ? ॥६॥”

विवेचन : मोहान्ध प्राणी स्त्री के सुन्दर स्वरूप और सुन्दर वस्त्राभूषण तो देखता है परन्तु उनसे होने वाले इस भव और पर भव के दुःखों का विचार नहीं करता। नरक में अनेक दुःख होते हैं, जिनके वर्णनमात्र से रोगटे खड़े हो जाते हैं, और टूट हृदय वाला मनुष्य भी काँप जाता है। वहाँ बड़े २ अधमों की फलस्वरूप कठोर यातनाएँ प्राप्त होती हैं। उनके अलावा नारकीय जीवों की आपसी वेदना के कारण एक क्षण भी शान्ति नहीं मिलती। कौन ऐसा मनुष्य होगा कि एक क्षण के सुख के लिये इतना असह्य नारकीय कष्ट भोगने को तैयार हो ?

श्री-शरीर, स्वभाव और भोग फल का स्वरूप

अभेध्यमत्ता बहुरंघ्रनिर्यन्मलाविलोद्यत्कृमिजालकीर्णा ।

चापल्यमाया नृतवंचिका स्त्री, संस्कारमोहान्नरकाय भुक्ता ॥७॥

“विष्टा से भरी हुई और चमड़े से ढकी हुई कोयली तथा बहुत से छिद्रों में से निकलते हुए मल (मूत्र, विष्टा) से मलीन अनेक यानि में उत्पन्न कीड़ों से व्याप्त, चपलता, माया और असत्यता से ठगने वाली स्त्रियाँ पूर्व संस्कार के कारण मनुष्य को नरक में ले जाने वाली हुई हैं ॥७॥”

विवरण :—श्री के शरीर के स्वरूप का विवरण पहले ही चुका है। वह श्री श्लेष्मा मज्जा, हाड, मांस से भरी हुई विष्टा की कोयली है उसकी सिर्फ बाहरी आकृति सुन्दर है। इसके १२ द्वार हैं उनमें से अशुद्ध पदार्थ हरदम बहता रहता है। यदि इसी चमड़े की कोयली को बलद



दिया जाय अर्थात् हाड, माँस, मज्जा आदि को बाहर डाल दिया जावे तो वह सियार व गिद्धों ही के काम आवेगी। मनुष्य तो वहाँ खड़ा भी नहीं रह सकता। फिर ऐसी अशुद्ध वस्तु से मोह क्यों करना? इन दोषों के सिवाय अन्य भी महान् दोष हैं, जैसे चंपलता, भाया, असत्यता, लोभ, अपवित्रता, निर्दयता। जिनको इस भवसमुद्र से बचना है वे इनसे बचें। शास्त्र कहता है कि जो स्त्री सम्बन्ध करता है वह इतने पाप बाँधता है कि यदि उनका वर्णन किया जाय तो कंपकपी आती है और नरक का द्वार खुल जाता है।

ललना ममत्व भोचन द्वार का उपसंहार और स्त्री की हीनता

निभूमि विषकंदली गतदरी व्याघ्री निराहो महा

व्याधि मृत्युरकारणश्च ललनाऽनभ्रा च वज्राशनिः ।

बंधुस्नेहविघातसाहसभृषावादादिसंतापभूः;

प्रत्यक्षापि च राक्षसीति विरुदैः ख्याताऽऽगमे त्यज्यताम् ॥८॥

“आगम शास्त्र में स्त्री के अनेक उपनाम बताए गए हैं। वह बिना भूमि के उत्पन्न विष बेलड़ी है, बिना गुफा के रहने वाली शेरनी है, बिना नाम की भोटी व्याधि है, बिना कारण की मृत्यु नाशकराने है, बिना भेदों की बिजली है, सगे सम्बन्धियों तथा भाइयों से स्नेह वाली है, साहस, भूठ आदि दुःखों की जड़ है, यह प्रत्यक्ष राक्षसी है। नवः इसका त्याग कल्याणकारी है।”

X

X

X

X

विद्वान् ग्रन्थकार ने स्त्री-ममत्व पर इतना जोर इसलिये दिया है कि स्त्री ही ससार-रूप है। वह ममता में फँसाने वाली है। वह सब भवभ्रमण का कारण है। सब मोहों से अधिक स्त्री का मोह होता है। मोह ही भवभ्रमण का मुख्य कारण है। मोह ही सब कर्मों का राजा कहलाता है। यहां जिस प्रकार स्त्री को बन्धन रूप बताया है उसी प्रकार स्त्रियों के लिये पुरुष भी बन्धन रूप है और भवभ्रमण का कारण है। बरिच पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में मन पर अंकुश रखने की अधिक लभता होती है। उनमें आत्म-नियंत्रण, संयम, त्याग, सेवा इत्यादि उच्च भाव

अधिक होते हैं। विषय-रुप्ति केवल मनमाना आनन्द ही है। यह सब समझने हुए भी मनुष्य मनोविकार के आधीन होकर विषय-वासना में लीन हो जाता है। यदि मनुष्य मनोविकार से विषय सेवन करे तो उसे स्व-स्त्री तक ही मर्यादित रखना चाहिये। पर-स्त्री का तो कभी स्वप्न में भी ध्यान नहीं करना चाहिये। पर-स्त्री का ध्यान करते समय उसे सोचना चाहिये कि यदि ऐसा ही धर्ताव कोई दूसरा मनुष्य उसकी स्त्री के साथ करे तो उसे कितना बुरा लगेगा। अतएव इस बात को ध्यान में रख कर पर-स्त्री का स्वप्न में भी कभी ध्यान नहीं करना चाहिये।

नोट :—इस अधिकार में स्त्री जाति के लिये तिरस्कार पूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है इसका कारण विचारणीय है।

भारतीय नारियों पुरुषों की अपेक्षा सदा अधिक संयम, त्याग, सेवा तथा समर्पण भाव रखती हैं। वे अपने चरित्र रक्षण के लिये अपने प्राणों तक का बलिदान दे देना अपना आदर्श समझती आई हैं। वे सेवा और त्याग की मूर्ति हैं। जैन शास्त्रों में जैसे सोलह सतियों के नाम पूष्य दृष्टि से लिये जाते हैं वैसे पुरुषों के नाम नहीं लिये जाते हैं। स्त्रियों एकपति व्रत पालन करती हैं। इसके विपरीत पुरुषों के लिये अनेक विवाह भी गौरव की बात समझी जाती रही है। स्त्री-पुरुषों में जो अनैतिक व्यवहार होते हैं उनमें प्रायः पुरुष ही अभसर होते हैं। ऐसी दशा में स्त्रियों के लिये तिरस्कार पूर्वक भाषा का प्रयोग अनुचित है। कम से कम श्रे० जैनियों की दृष्टि में तो दीक्षा, भगवान् की पूजा, तथा मोक्ष प्राप्ति में स्त्रियों और पुरुषों के समान अधिकार माने जाते हैं। एक तीर्थंकर मल्लोनाथ स्त्री थीं। तीर्थंकरों के पिता तो मोक्ष जावें या न भी जावें किन्तु उनकी माताओं का मोक्ष में गमन अवश्य होता है, ऐसी मान्यता है।

ऐसा जान पड़ता है कि ग्रन्थों के लेखक प्रायः पुरुष ही होते आए हैं। वे पुरुष समाज की कमजोरी का दोष स्त्रियों पर डालते रहे हैं। विचार धारा ऐसी ही बन गई है। भारत के अन्य धर्मों में भी स्त्री को नीच माना गया है। अल्प संख्यक जैन जाति के धर्म-गुरु भी उस विचार

धारा के प्रभाव से नहीं बच सके। यहां तक कि दिगम्बर जैन समाज तो भगवान् की पूजा में स्त्रियों का अधिकार ही नहीं बताता। उनका मोक्ष में भी अधिकार नहीं है ऐसा मानता है।

यह सम्भव है कि नीच चरित्र वाली वेश्याओं से सतर्क रहने के लिये ऐसी भाषा का प्रयोग किया हो। लेकिन ऐसी अल्प संख्यक वेश्याओं से बचने के कारण पूरी नारी समाज को कलंकित करना उचित नहीं। ऐसी भाषा का उपयोग आज के जमाने में अति विचारणीय है। ऐसी भाषा से नारी समाज में आत्म-हीनता के भाव उत्पन्न होते हैं और पुरुषों के प्रति विरोध भाव पैदा होकर समाज का वातावरण बिगड़ता है। यह असमान अधिकार की भावना पैदा कर समाज की पतन की ओर ढकेलने का कारण बन जाती है।

आज तो परिवारों में उच्च भाव और जागृति पैदा करने में साधुओं अपेक्षा साध्वियाँ अधिक सफल हो सकती हैं।



# पृथिव्या अधिपतिः

## अपत्यममत्व मोहन

पुत्र पुत्री बन्धन है।

मा भूरपत्यान्यवलोकमानो, मुदाकुलो मोहनृपारिणा यत् ।

चिक्षिप्सया नारकचारकेऽसि, द्दं निबद्धो निगडैरभीभिः ॥१॥

“तू पुत्र पुत्री को देख कर हर्ष से पागल मत हो, क्योंकि इस मोह राजा ने, जो तेरा शत्रु है, तुझे नरक रूपी जेलखाने में डालने के लिये लोहे की बेड़ी रूपी (पुत्र - पुत्री) से तुझे दृढ़तापूर्वक बांधा है ॥१॥”

विवरण - मनुष्य पुत्र के स्नेह में बालक के साथ बालक बन जाता है यह सब मोह राजा की करामात है। मोह राजा ने पुत्र पुत्री रूप रररी से मनुष्य को खूब कस के बांधा है। ये रस्सियां इतनी मजबूत हैं कि लोहे की साँकल तोड़ना आसान है पर इन रस्सियों को तोड़ना बड़ा कठिन है। आर्दकुमार को पुनः दीक्षा लेने की इच्छा होने पर भी पुत्र-स्नेह रूप काचा सूत के १२ आँटे की वह तोड़ नहीं सका और १२ वर्ष तक गृहस्थाश्रम में रहना पड़ा। मनुष्य के चित्त में वैराग्य भाव बड़े पुण्य के प्रभाव से उत्पन्न होता है। पर यह स्त्री तथा पुत्र का मोह दृढ़ बन्धन के रूप में सामने आ जाता है, यह सर्व विदित है। ऐसे अवसर पर पुत्रधर्म या पतिधर्म का ध्यान न करके आत्म-धर्म का ध्यान करना चाहिये।

पुत्र पुत्री शल्य रूप

आजीवितं जीव भवान्तरेऽपि वा, शल्यान्यपत्यानि न वेत्सि किं हृदि ।

पलाचलैर्यैर्विविधार्तिदानतोऽनिशं निहन्येत समाधिरात्मनः ॥२॥”

“हे चेतन ! इस भव में और अगले भव में पुत्र-पुत्री शल्य रूप होते हैं ऐसा तू अपने मन में क्यों नहीं समझता ? वे थाड़ी

अथवा व्यादा उम्र तक जीवित रहते हुए अनेक प्रकार की पीड़ा-कर आत्मसमाधि का नाश करते हैं ॥३॥”

विवेचन :—पुत्र अनेक उपाधियों का कारण है और माता पिता के लिए शत्रुत्वरूप है। यदि कम उम्र में मर जावे तो माता पिता शोक करते हैं और यदि पीछे विधवा छोड़ जावे तो दुःख का अन्त नहीं। यदि बचपन से वह दीधेजीवी बनता है तो उसको पढ़ाने लिखाने, लगन आदि कार्यों में पिता को अनेक चिन्ताएँ करनी पड़ती हैं। यदि दुर्दैव वश वह पुत्र पिता का आशाकारी न हो पाया तो पिता के वित्त को शान्ति नहीं मिलती। इस प्रकार से पुत्र-पुत्री की चिन्ता पिता के मन की समाधि का नाश करती है। पुत्री की चिन्ता तो पुत्र की चिन्ता से भी अधिक होती है। उसको पढ़ाने की, अच्छा घर ढूँढने की तथा आगे उसके पुत्र पुत्री हो तब तक ध्यान रखना पड़ता है। यदि पाप के उदय से वह विधवा हो जावे तो फिर दुःख का पार नहीं और जीते जी मरने के समान हो जाता है।

आक्षेप द्वारा पुत्र-ममत्व त्यागने का उपदेश

कुशौ युवत्याः कृमयो विचित्रा, अप्यस्रशुकप्रमवा भवन्ति ।  
न तेषु तस्या न हि तत्पतेश्च, रागस्ततोऽयं क्रिमपत्यकेषु ॥३॥

“पुरुष के वीर्य और स्त्री के रक्त के संयोग से स्त्री-योनि में विचित्र प्रकार के कीड़ों की उत्पत्ति होती है। पति को इन कीड़ों से प्रेम नहीं होता तो पुत्र दर्शन के उपरान्त उस पर प्रीति क्यों होती है यह एक प्रश्न है ? ॥३॥”

अपत्य पर स्नेहवद नहीं होना इसके तीन कारण

त्राणाशक्तोरापदि सम्बन्धानल्पतो भिर्योऽगवताम्  
सन्देहाच्चोपश्रुतेर्मापत्येषु स्निहो जीव ॥४॥

“आपत्ति-काल में पालन करने की शक्ति न होने से, प्राणियों का पारस्परिक सम्बन्ध अनेक भवों में अनेक प्रकार का होने

से और किये हुए उपकार का बदला वापिस मिलने में सन्देह होने के कारण तू पुत्र पुत्रियों पर स्नेह मत कर ॥४॥

विवेचन : सन्तान में आसक्ति न हो इसके तीन कारण दिखाई देते हैं । ( १ ) पिता को दुःख से बचाने में अशक्ति अर्थात् कर्म जनित पापोदय से वह पिता का दुःख दूर नहीं कर सकता । ( २ ) प्राणी के अनन्त भवों में अनेक प्रकार के सम्बन्धः—कभी वह पुत्र रूप में हुआ है तो वही जीव दूसरे भव में माता रूप भी हो सकता है और वही पति स्वरूप भी हो सकता है यह अनुचित प्रतीत होता है । इसका विचार समता अधिकार में हो चुका है । ( ३ ) पुत्र-पुत्री के लिए जो उपकार किया जाता है उसका प्रत्युपकार प्राप्त करने में सन्देह अर्थात् कोई पुत्र पिता के पहले ही संसार से कूच कर जाता है अथवा कपूत निकलजाता है । ये दोनों प्रकार के पुत्र दुःखदायी होते हैं ।

X

X

X

X

इस प्रकार तीसरा अपत्यसमतामोचन द्वार समाप्त हुआ । पुत्र पुत्री की प्राप्ति पर न अति हर्ष मानना उचित है और न मरने पर शोक करना । क्योंकि इस प्रकार का पुत्र-पुत्री में स्नेह संसार को बढ़ाता है । यदि मनुष्य पुत्र पुत्री प्राप्त कर लेवे तो उन्हें छोड़ना उचित नहीं । यदि अभाग्यवश वह निःसन्तान है तो संतोष रखना चाहिये । उसे यह समझना चाहिये कि मुझे संसार के जंजाल से मुक्ति मिली, यह मेरा सौभाग्य है । परन्तु इस संसार में लोग पुत्र की प्राप्ति के लिये अनेक अव्यावहारिक तथा धर्म-विरुद्ध आचरण करते पाए जाते हैं । माता पिता समझते हैं कि पुत्र उनको मोक्ष में पहुँचा देगा वनका यह विचार उचित नहीं है ।

# चतुर्थ अधिकार

## धनममत्व - मो जन

मनुष्य को भवसागर में फँसाने वाली इस संसार में कामिनी और कांचन ये दो वस्तुएँ विशेष हैं। कामिनी के विषय में हमने पहले विचार कर लिया, अब कांचन के विषय में विचार करते हैं। कामिनी मनुष्य को मोहजाल में फँसाने वाली है तो कांचन उसे लोभ के वशीभूत कर देता है। ये दोनों ही सांसारिकता बढ़ाने वाले हैं।

पैसा पाप की जड़ है।

याः सुखोपकृतिकृत्वधियात्वं, भेद्यन्नसि रमा ममतामाक् ।  
पाप्मनोऽधिकरणत्वत एता, हेतवो ददति संसृतिपातम् ॥१॥

“अपने सुख और उपकार करने की बुद्धि के लालच से तू धन इकट्ठा करता है। वह भी आवश्यकता से अधिक होने से पाप का हेतुभूत और संसार भ्रमण का कारण हो जाता है ॥१॥”

विवेचन : धन इकट्ठा करते समय मनुष्य प्रायः अपनी तथा अपने परिवार और मित्रादि के हितार्थ उपकार करने की इच्छा रखता है परन्तु इस हेतु से प्राप्त की हुई लक्ष्मी भी कर्मादान आदि अनेक पापों से भरपूर होती है। ऐसे पाप से कमाया हुआ धन संसार-बुद्धि का हेतु ही होता है। वह मनुष्य अनन्त काल तक उन्नति पद पर नहीं पहुँच सकता। 'ममनसेठ' ने बड़ी कठिनाई से धन एकत्रित किया पर रोटी भी कभी भर पेट सुख से नहीं खाई। वह मरने के उपरान्त नरक में गया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि लोग पैसे के लिए न करने योग्य भी पाप करते हैं और खूब धन एकत्रित होने पर भी लुप्त नहीं होते। वे 'हाय पैसा हाय पैसा' करते र यहीं सब धन छोड़ चले जाते हैं। आज कल जितने इस विश्व में युद्ध होने हैं वे सब व्यापार तथा धनोर्पाजन के

लिये ही होते हैं और संसार में अशान्ति फैलाते हैं। इसलिये भगवान् महाधीर का उपदेश है कि पैसे का लोभ नहीं करना चाहिये। पैसा नरक वाले व्यक्ति के पास अधिक होता है।

मनुष्य धन धन के लिये कमाता है न कि अपने सुख अथवा परोपकार के लिये। लेकिन वह धन न उसके काम आता है न शुभ काम में लगता है। वह तो कमाने में इतना मस्त हो जाता है कि उसे उचित-अनुचित और कर्तव्य-अकर्तव्य कुछ नहीं सूझता। वह जीवन के अन्त में सब यहाँ छोड़ चला जाता है। इसके अतिरिक्त संसार-भ्रमण जो बढ़ जाता है वह नफा समझना चाहिये।

धन ऐहिक और आभुषिक दुःख देने वाला है  
यानि द्विषामप्युपकारकाणि, सर्पोन्दुरादिष्वपि यैर्गतिश्च ।  
शय्या च नापन्मरणामयाधा, हन्तुं धनेष्वेषु क एव मोहः ॥२॥

“जो पैसा शत्रु का उपकार करने वाला हो जाता है, जिस पैसे से सर्प या चूहे की योनि प्राप्त होती है और जो पैसा मृत्यु, रोग या किसी आपत्ति को दूर नहीं कर सकता ऐसे पैसे से इतना मोह क्यों ? ॥२॥”

व्याख्या: लोक व्यवहार में पैसे की बहुत कीमत आँकी गयी है। कहा है कि “सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते।” यह वाक्य मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाने वाला है। यहाँ प्रथम पद में कहा है कि शत्रु धन ले कर उसी धन से बलवान बन कर अपना ही सामना करता है। परशुराम ने पृथ्वी को निःक्षत्रिय किया परन्तु पृथ्वी तथा धन सब कुछ सुभूम चक्रवर्ती के हाथ आया। प्रतिवासुदेव ने बहुत परिश्रम कर तीन खंड को जीता पर अन्त में वह स्वयं भारा गया। उसकी एकत्रित की हुई राव्यलक्ष्मी वासुदेव ने भोगी है। इस प्रकार अपने पैसे से शत्रु भी बलवान हो सकता है।

बहुत लोभी आदमी बहुत सा धन इकट्ठा करके देह-त्याग के बाद सर्प या चूहे की योनि में आकर धन की रक्षा करता है। इस प्रकार धन इकट्ठा करने में दुःख और मरने पर पुरभय में तिर्यच योनि



में जन्म लेकर दोनों भवों में दुःख पाता है। वड़े बड़े राजा महाराजा हुए पर धन उनको भी मृत्यु से नहीं बचा सका; तब सब दोषों का मूल यह धन किस काम का ? इस पर मोह करना कष्टदायक है ॥४८॥

धन से सुख कम दुःख अधिक

ममत्वमात्रेण मनः प्रसादसुखं धनैरल्पकमल्पकालम् ।  
आरम्भपापैः सुचिरं तु दुःखं, स्याद्दुर्गतौ दारुणामित्यवेहि ॥३॥

“यह पैसा मेरा है, इस विचार से मन प्रसन्न होता है और थोड़े समय के लिये सुख होता है। पर आरम्भ के पापों से जीव दुर्गति में लम्बे समय तक भयंकर दुःख पाता है, ऐसा तुम जानो ॥ ३ ॥”

विशेषार्थः—यह घर मेरा है, ये आभूषण मेरे हैं, मैंने व्यापार में इतना कमाया, इस प्रकार के विचार से मन प्रसन्न होता है। पर यह सुख काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। मन की शान्ति में जो सुख है उसके सामने यह सुख कुछ भी नहीं है। यदि मनुष्य की आयु १०० वर्ष की मान लें तो इस धनोपार्जन में जो आरम्भ करना पड़ता है उसके फलस्वरूप असंख्य वर्षों तक नारकी तथा नीगोद में दुःख भोगना पड़ता है। उसके मुकाबले में १०० वर्ष किस गिनती में हैं ? वास्तव में जैसे कि धर्मदास गणित ने कहा है कि जिस सुख के अन्त में दुःख हो वह सुख नहीं। जैसे यदि कोई ५० वर्ष तक बहुत सुख भोगे और फिर बाकी १० वर्षों में उसे पूर्ण कष्ट होवे तो जो ५० वर्ष सुख भोगा वह किस गिनती में ? इसलिये हे भाई ! इस दुनिया में यदि सच्चा सुख है तो संतोष में ही है। जो परिस्थिति चलती है उसी में सुख मानना मन को आनन्द में रखना है। बाकी सुख ता रावण और धवल सेठ आदि के पास अनन्त धन होने पर भी नहीं था। ॥ ४९ ॥

क्या धर्म के लिए धन इकट्ठा करना उचित है ?

द्रव्यस्तत्रात्मा धनसाधनो न, धर्मोऽपि सारम्भतयातिशुद्धः ।

निःसंगतात्मा त्वतिशुद्धियोगान्मुक्तिधियं यच्छ्रुति तद्भवेऽपि ॥४॥

“पवित्र साधन से अर्जित धन ‘द्रव्यस्तव’ रूप धर्म को पैदा करता है लेकिन वह भी आरम्भ युक्त होने से अति शुद्ध नहीं। अति शुद्ध धर्म तो निःसंगता ही है। उसी से उसी भव में मोक्ष मिल सकता है ॥ ४ ॥

विवेचन विविध प्रकार की पूजा, विव प्रतिष्ठा, स्वाभिवात्सल्य, उपाश्रय आदि बनवाने को ‘द्रव्यस्तव’ कहते हैं। उपाजित द्रव्य को धर्म कार्यों में व्यय करना शुभ कर्म कहा जाता है। इसको महान् पुण्योपाजन भी कहते हैं। पर ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार के धर्म में भी ‘आरम्भ’ होता है। क्योंकि घट्काय के जीवों का मर्दन होना है। इससे यह धर्म भी अति शुद्ध नहीं। पर इसका यह भी अर्थ नहीं कि धर्म है ही नहीं। धन से धर्म का संग्रह तो होता है, पर धर्म के निमित्त धन इकट्ठा करने की इच्छा करना ठीक नहीं। हरिभद्रसूर महाराज ने कहा है

धर्मार्थं यस्य वित्तेहा तस्यानीदा गरीयसी ।

प्रक्षालनाद्धि पङ्क्तस्य दूरादस्पर्शनं वरम् ॥

“धर्म के लिये पैसा इकट्ठा करने की इच्छा की अपेक्षा धन की इच्छा ही न करना अधिक उत्तम है, कारण कि पैर में कीचड़ लगा कर पीछे उसे जल से धोने से तो कीचड़ लगने ही नहीं देना या उससे दूर रहना और उसका स्पर्श न करना अधिक श्रेष्ठ है।”

प्राप्त धन को धर्म मार्ग में लगाना चाहिये क्योंकि धर्म कार्य में लगाये हुए धन से लंबे समय में मुक्ति मिलती है जब कि नव विध परिग्रह से निःसङ्ग हुआ जीव उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म के निमित्त धन नहीं कमाना चाहिए। न्याय-युक्त साधन से जो धन इकट्ठा हो उसे शुभ सात क्षेत्रों में लगाना चाहिए। क्योंकि धर्म कार्य में धन लगाने से शुभ कर्म बँधता है और अन्त में मोक्ष होता है। लेकिन निःसंगता अपनाते से इससे भी जल्दी मोक्ष प्राप्त होता है। धर्म-कार्य में प्रधान बात तो निःसंगता है न कि धन। कई लोग अन्याय से अथवा गलत तरीकों से धन एकत्रित करते समय यह विचार करते हैं कि इस द्रव्य को धर्म कार्य में लगावेंगे। यह विचार भी बिलकुल गलत है, क्योंकि धर्म कार्य में द्रव्यस्तव की अपेक्षा भावस्तव की विशेषता है ॥

प्राप्त धन का कहां व्यय करना

क्षेत्रवास्तुधनधान्यगवाश्वमैलितैः सनिधिभिस्तनुमाजाम् ।

क्लेशपापनरकाभ्यधिकः स्यात्को भुणो न यदि धर्मनियोगः ॥५॥

“प्राप्त होने वाले क्षेत्र, वस्तु, धन, धान्य, गाय, घोड़ा और भंडार का उपयोग यदि धर्म निमित्त न होवे तो उससे दुःख, पाप और नरक के सिवाय और क्या प्राप्त हो सकता है ॥५॥”

भावार्थ :- धन पुण्यवान् जीव को ही प्राप्त होता है। वह उसे बढ़ाने और रक्षण करने में श्रम करता है और अनेक प्रकार के कर्म बन्धन (आश्रव) करता है। द्रव्य के वास्ते कुटुम्बीजनो से झगड़ा करता है और दुर्ध्यान करता है, इससे दुर्गति होती है, तो ऐसे धन से क्या लाभ ? यदि इसी धन को गरीब भाइयों के हित में याने स्कूल, पाठशाला, औषधालय आदि परोपकार के कार्यों में लगाया जावे तो द्रव्य का सदुपयोग होता है और इहलोक में यश तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है।

सार यह है कि आवश्यकता से अधिक धन की इच्छा नहीं रखनी चाहिये और न धन के पीछे पागल होना चाहिये। नीति, अनीति और उचित, अनुचित का विचार छोड़ देना चाहिये, सत्पुषार्थ से जो धन प्राप्त हो उसी में सन्तुष्ट रहना चाहिये और प्राप्त धन का सदुपयोग करना चाहिये।

धन से अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं इसीलिये उसे छोड़ देना चाहिये

आरम्भैर्भरितो निमज्जति यतः प्राणी भवाभ्मोनिधा

वीहन्ने कुपृपादयश्च पुस्था येन च्छलाद्वाधितुम् ।

चिन्ताव्याकुलताकृतेश्च हरते यो धर्मकर्मस्मृतिं,

विज्ञा ! भूरिपरिग्रहं त्यजत तं मोक्षं परैः प्रायशः ॥६॥

“जिस धन के लिये आरम्भ के पाप से भारी हुआ प्राणी संसार में डूबता है; जिस धन को छीनने के लिए राजा या राजपुरुष

छलछिद्र करते हैं तो वह दुःख पैदा करता है। यह प्राणी अनेक चिन्ताओं में डूबा हुआ धर्म-कार्य में पैसा खर्च करना भूल जाता है। ऐसे पैसे का मोटा संग्रह करने पर भी उसका उपयोग यदि धार्मिक कार्यों में नहीं किया गया तो कुछ काल बाद मनुष्य इस शरीर को छोड़ते हुए ऐसे धन को भी यहीं छोड़ कर चला जाता है। अतः हे विज्ञ पुरुषों! तुम धनसंग्रह की भावना या परिग्रह मत करो, इसे त्याग दो ॥६॥”

विशेषार्थः—यह संसार एक समुद्र के समान है। जैसे समुद्र में भारी जहाज डूब जाते हैं उसी तरह आरम्भ के पाप से भरा हुआ यह (आत्मा) जीव रूपी जहाज संसार रूपी समुद्र में डूब जाता है। पैसा कमाने, उसका रक्षण करने और अकार्य में खर्च करने में अनेक प्रकार के आरम्भ करने पड़ते हैं। आरम्भ से पाप होता है, और पाप से आत्मा भारी होती है। इसलिये पैसा संसार-भ्रमण का हेतु होता है। पैसा अधिक होने से राजा तथा चोर का भय रहता है। पैसे की चिन्ता में मनुष्य इतना बेमान हो जाता है कि वह पुत्र-धर्म, पितृ-धर्म, पति-धर्म, पत्नी-धर्म, भक्ति-धर्म आदि सब भूल जाता है। हर समय पैसे के विचार में डूबा हुआ वह आनन्द मानता है। पैसे को कैसे सुरक्षित रखना, कैसे बढ़ाना, कैसे खर्च करना आदि विचारों में वह इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे अपना धर्म याद ही नहीं आता। इसलिये धन त्याज्य है। इसके तीन प्रबल कारण हैं।

- ( १ ) परभव में दुर्गति
- ( २ ) इस भव में धन जाने का भय
- ( ३ ) तथा धर्म से विमुखता

इन तीनों कारणों के अतिरिक्त एक और बड़ा कारण यह है कि धन इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को प्रायः उसका पूरा उपभोग भी नहीं मिलता। इसलिये इन चारों कारणों को ध्यान में रखकर धन से मोह नहीं करना चाहिये।

सातों क्षेत्रों में धन लगाने का उपदेश

क्षेत्रेषु नो वपसि यत्सदपि स्वमेत  
धातासि तत्परभवे किमिदं गृहीत्वा ।  
तस्यार्जनादिजनिताधचयार्जितात्ते,  
भावी कथं नरकदुःखमराञ्च मोक्षः ॥७॥

“तेरे पास धन है तो भी तू उसे सातों क्षेत्रों में क्यों नहीं लगाता ? क्या तू धन को परभव में अपने साथ ले जायगा ? थोड़ा विचार तो कर कि जो पैसा इकट्ठा करने में पाप प्राप्त हुआ है उसके कारण नरक के दुःखों से तेरा छुटकारा कैसे होगा ? ॥७॥”

विवेचनः—तुम्हारे पास जो धन है वह परभव में साथ जाने वाला नहीं। उसे पैदा करने, रक्षा करने और व्यय करने में बहुत दुःख उठाने पड़ते हैं और परभव में हीन गति प्राप्त होती है। तब प्रश्न उठता है कि ऐसे धन का क्या करना ? प्राप्त धन का सदुपयोग सात क्षेत्रों में व्यय करना कहावा है। वे सात क्षेत्र हैं जिनबिम्ब-स्थापना करना, जिनदेरासर बनवाना, जीर्णोद्धार करवाना, पुस्तकों लिखवाना-छपवाना तथा प्रचार करना और प्राचीन ग्रंथों का रक्षाय करना, पढ़ाई का विस्तार आदि। अपने सधर्मी प्राइयों की दशा सुधारने, गरीब अनाथ, साधु साध्वी की सेवा करने, शासन की शोभा बढ़ाने तथा इसी प्रकार के शुभ कामों में इसे लगाना चाहिये। विशेष कर जिस काम की अनिवार्य आवश्यकता है वहीं लगाना चाहिये। ऐसे शुद्ध कार्य करने से सांसारिक दुःख से जल्दी छुटकारा मिलता है। नये देरासर की अपेक्षा पुराने देरासर के जीर्णोद्धार में धन का उपयोग करने से दश गुना अधिक लाभ होता है और इसरे भी अधिक लाभ [ पुण्य ] जग कल्याणकारी जैन धर्म का असली रूप जनता के सामने रखने तथा भगवान् के आदर्शों को समझाने और इनके प्रति पूज्य भाव रखने वालों की संख्या बढ़ाने में होता है।

X

X

X

X

धन संसारी जीवों को बहुत मुग्ध बनाता है। वे धन के दास बन जाते हैं। मनुष्य को धन की दास न बन कर उसका स्वामी बनना

चाहिये। जिस तरह नौकर से काम लेते हैं उसी प्रकार धन से भी काम लेना चाहिये। लोकोपकार, स्वधर्मा-उपकार आदि सातों क्षेत्रों में इसे लगाना चाहिये। धन कमाने के पीछे पागल नहीं होना चाहिये। जो धन प्राप्त हो उसमें संतोष करना चाहिये और जीवन का ऐसा निर्वाह करना चाहिये जिसका दूसरे लोग अनुकरण करें। इसका तात्पर्य यह नहीं कि भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहें और अपनी स्थिति सुधारने का प्रयत्न ही नहीं करें। अपनी स्थिति को सुधारने की महत्वाकांक्षा रखनी चाहिये और पुरुषार्थ करते रहना चाहिये। परन्तु धन प्राप्त करने का दुर्ध्यान नहीं करना चाहिये। जो कुछ मिल जावे उसमें प्रसन्नता-संतोष रखना चाहिये। एक अंग्रेज लेखक ने सत्य कहा है :—“you many aspire but don't be dissatisfied with your present lot” इसलिये धन कमाना चाहिये। जो धन प्राप्त हो उसमें संतोष रखना और लोक-सेवा, धर्म-सेवा तथा अपने जल्लतमन्द भाइयों की सेवा में लगाना चाहिये। यही धन का सदुपयोग है।



# पंचम अधिकार

## देह ममत्व मोचन

शरीर का पाप से पोषण नहीं करना

पुण्यासि यं देहमधान्यचिन्तयंस्तवोपकारं कमयं विधास्यति ॥  
कुर्मासि कुर्वन्निति चिन्तयायति, जगत्ययं वञ्चयते हि धूर्तराट् ॥१॥

“पाप का विचार किये बिना तुम शरीर का पोषण करते हो। थोड़ा सोचो कि शरीर तुम्हारा क्या उपकार करेगा? इस शरीर के पोषण के लिये हिंसा करते समय भविष्य में आने वाले काल का विचार करो। यह शरीर रूपी धूर्त संसार में प्राणियों को ठगता फिरता है ॥१॥”

भावार्थ :—मनुष्य शरीर के पोषण करने के लिये अभक्ष्य भोजन करते हैं, उसके लिये पैसा पैदा करते हैं। पैसा पैदा करने में अनेक प्रकार की हिंसा तथा असत्य आदि का सहारा लेते हैं। पर समय आने पर यह शरीर नष्ट हो जाता है। तब ऐसे पोषण से क्या लाभ? और इसे विविध प्रकार के अभक्ष्य खिला कर पोषण करने से दूसरे भव में हीन गति मिलती है। इसलिये हरेक मनुष्य को इन सब बातों पर पहले से कुछ गंभीर विचार कर शरीर की ममता नहीं रखनी चाहिये और शरीर का इतना ही पोषण करना चाहिये कि शरीर स्वस्थ रहे और धर्म कार्य तथा गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों का पालन करने के उपयोग में आ सके। उस पर अंध मोह नहीं करना चाहिये। मोह करने से संसार में दुःख भोगना पड़ता है और अनेक योनियों में भटकना पड़ता है। इस विषय में पुराण में एक सुन्दर कथा आती है कि त्रिशंकु नाम का एक राजा था। उसे शरीर से बहुत मोह था। वह सशरीर स्वर्ग में जाने की इच्छा करता था। अचपव उसने अपने गुरु षशिष्ठ से उसे सशरीर स्वर्ग में भेजने

की प्रार्थना की किन्तु उसने हंसी में उड़ा दी। फिर उसने अपने पुत्रों से कहा तो उन्होंने भी हंसी में उड़ा दिया। तब राजा ने विश्वामित्र से प्रार्थना की कि वह उसे सशरीर देवलोक में पहुँचा दे। विश्वामित्र राजा के उपकार से दवे हुये थे। इसलिये उसने सशरीर स्वर्ग में भेजने को स्वीकार कर लिया। विश्वामित्रजी ने यज्ञ किया और त्रिशंकु को तप के बल से स्वर्ग की ओर भेजा। ज्योंही वह स्वर्ग के पास पहुँचा त्योंही इन्द्र ने उसे उलटा सिर के बल पृथ्वी की ओर वापिस भेजा। इस पर विश्वामित्रजी ने जोर लगाया। ऐसी स्थिति में वह न तो स्वर्ग में जा सका और न मनुष्य लोक में आ सका और आकाश में उसी प्रकार उलटे, सिर नीचे किये भटकते रह गया। उसे न स्वर्ग का सुख मिला न संसार का सुख, वह दोनों सुखों से वंचित हो गया। इसलिये अपने शरीर से मोह नहीं करना, केवल धर्म कार्य हो सके तथा गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों का पालन करने के लिये स्वस्थ रह सके अपना ही पोषण करना चाहिये।

शरीर कारागृह में से छूटने का उपदेश

कारागृहाद्बहुविधाशुचितादिदुःखा

त्रिगन्तुमिच्छति जडोऽपि हि तद्विभिध ।

क्षिप्तस्ततोऽधिकतरे वपुषि स्वकर्म

प्रातेन तद्दृढयितुं यतसे किमात्मन् ॥ २ ॥

“मूर्ख प्राणी भी अनेक अशुचि आदि दुःखों से भरे हुए कैद को तोड़ कर बाहर निकल जाने की इच्छा रखता है। तू अपने कर्मों के कारण उससे अधिक दुःखदायी शरीर रूपी कैद में बंद है तो भी तू इस बंदीगृह को और अधिक शक्तिशाली क्यों बनाता है ? ॥ २ ॥”

भावार्थ: जिस प्रकार कैदखाने में क्षुधा, तृषा, गंदगी, कठोर श्रम आदि दुःख सहन करना पड़ते हैं उस समय उसमें बंद कैदी की इच्छा होती है कि कब मैं इस बंदीखाने से छुटूँ या इसे तोड़ कर किस तरह भागूँ। इसी प्रकार इस शरीर रूपी बंदीखाने में अनेक अशुचि पदार्थ भरे हैं उसमें से निकल भागने के बदले यह जीव उसे



सुन्दर आहार-खादिष्ट आहार, अभक्ष्य औषधियों के देकर वचों पोषण करता है और उसे थोड़ा भी रीढ़ा होने पर दबड़ा जाता है। विचारवान पुरुष को इस शरीर को बंदीखाना समझ कर इसका सदुपयोग करना चाहिये। और ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि इस बंदीखाने में फिर से नहीं आना पड़े। शरीर की ममता छोड़ना कोई कठिन काम नहीं है। जिस प्रकार बन्दर सँकड़े मुँह के घड़े में से मुट्ठी भर कर चने नहीं निकाल सकता है और यह समझता है कि घड़े ने उसका हाथ पकड़ लिया है परन्तु जब सवारी आकर बँत लगाता है तो हाथ तुरंत घड़े से बाहर निकाल लेता है। इसी प्रकार यह जीव समझता है कि उसको शरीर ने पकड़ रखा है और छोड़ता नहीं। वास्तव में अपना जीव ही उस (शरीर) का पकड़ बैठा है। पर जब काल आयगा तब तो छोड़ जाना ही पड़ेगा। इसलिये उचित यह है कि पहले से ही शरीर की ममता छोड़ देवे।

शरीर साधन से करने योग्य कार्य करना

चेद्वाञ्छसीदमवितुं परलोकदुःख

मीत्या ततो न कुरूपे किमु पुण्यमेव ।

शक्यं न रक्षितुमिदं हि च दुःखमीतिः,

पुण्यं विना क्षयमुपैति न वज्रिणोऽपि ॥३॥

“यदि तू अपने शरीर को परलोक में होने वाले दुःखों से बचाना चाहता है तो पुण्य क्यों नहीं करता ? इस शरीर का पोषण तो किसी भी तरह हो नहीं सकता। इन्द्र जैसे व्यक्तियों को भी शारीरिक दुःख का भय विना पुण्य किए नहीं मिलता ॥३॥”

भावार्थ—यदि तू शरीर की रक्षा करना चाहता है तो पुण्य कर। इससे परभव में जो शरीर प्राप्त होगा वह इससे अच्छा होगा। इसका कारण यह है कि इस शरीर को बचाने वाला कोई नहीं, इन्द्र भी इसे नहीं बचा सकता। इसलिये पुण्य का अर्जन करो। पुण्य कर्म किये बिना परलोक में होने वाले दुःख का भय नष्ट नहीं होगा।

देहाश्रित से दुःख, निरालंबनपनै में सुख  
 देहे विमुह्य कुरुषे किमघं न वेत्सि,  
 देहस्थ एव भजसे भवदुःखजालम् ।  
 लोहाश्रितो हि सहते घनघातमग्नि  
 र्घाधा न तेऽस्य च नभोवदनाश्रयत्वे ॥४॥

“शरीर का मोह कर तू पाप करता है, पर तू यह नहीं  
 जानता कि इससे तुझे भवसमुद्र में दुःख उठाना पड़ेगा। तू शरीर में  
 है इसलिये ही दुःख पाता है। अग्नि जब तक लोहे में रहती है तब  
 तक हथोड़ों की चोट सहती है। इसी तरह जब तक तू आकाश की  
 तरह आश्रय रहित भाव (अर्थात् शरीर से अलग) अंगीकार नहीं  
 करता अग्नि की तरह दुःख पावेगा ॥४॥”

भावार्थ - इस संसार में जो कुछ दुःख भोगना पड़ता है वह सब  
 इस शरीर के कारण ही। यदि शरीर का साथ छोड़ दिया जाय तो  
 मोक्ष प्राप्त हो जाता है जहां दुःख का काम ही नहीं। इसलिये शरीर  
 को भक्ष्य अभक्ष्य खिला कर पुष्ट नहीं करना चाहिये। उसे इतना ही  
 खिलाना चाहिये कि धर्म कार्य सरलता से हो जावे। यह शरीर धर्म  
 कार्य करने में उपयोगी है यह बात भूलना नहीं चाहिये। जब तक  
 शरीर है तब तक तो दुःख रहेगा ही। जिस प्रकार अग्नि जब तक  
 लोहे में है घन की मार सहेगी और जब बाहर निकल जायगी तब  
 पीड़ा मिट जायगी। इसी प्रकार अपने जीव का सन्बन्ध शरीर से है  
 यह समझना चाहिये।

जीव और सूरि महाराज की वातचीत  
 दुष्टः कर्मविपाकभूपतिवशः कायाह्वयः कर्मकृत्,  
 भद्रवा कर्मगुणैर्हृषीकचषकैः पीतप्रभादासवम् ।  
 कृत्वो नारकचारकापदुचितं त्वां प्राप्य चाशु च्छलं,  
 गन्तेति स्वहिताय संयमभरं तं बाह्याल्पं ददत् ॥५॥

“शरीर नाम का नौकर कर्मविपाक नामक राजा का दुष्ट

सेवक है। वह तुम्हें कर्मरूपी डोरी से बांधकर इन्द्रियरूपी शराव के वर्तन से प्रमाद रूपी शराव पिलावेगा। इस प्रकार तुम्हें नरक के दुःखों को भुगतने योग्य बनावेगा और अन्त में कोई वहाना कर चला जायगा। इसलिए अपने हित के लिये शरीर को थोड़ा थोड़ा खिलाकर संयम भाव उठाने के योग्य बना कर रख ॥५॥”

विवरण—ऊपर का श्लोक स्पष्ट हो सके इसलिए एक छोटी सी कहानी दी है। चतुर्गति नाम की एक नगरी है और कर्मविपाक नाम का राजा राज्य करता है और राजा के अनेक सेवकों में शरीर नाम का भी एक सेवक है। एक दिन राज दरवार में बैठे कर्मविपाक राजा ने सेवकों को आदेश दिया कि इस जीव को वंशीगृह में बंद कर दो जिससे वह मोक्ष नगरी में न जा सके। क्योंकि वहां अपनी सत्ता नहीं है। शरीर नौकर ने राजा से प्रार्थना की कि जीव को अविचार में रखने के लिए डारों की आवश्यकता होगी। इस पर कर्मविपाक राजा ने कहा कि इसकी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। अपने भंडार में कर्म नाम के हजारों डोरे हैं जितने चाहिए उतने ले जाओ। परंतु तू इस जीव से सचेत रहना कि कहीं वह तुम्हें थपड़ मारकर भाग न जावे। तब सेवक ने कहा “महाराज इस जीव में तो अनन्त शक्ति है, वह तुम्हें इससे मार सकता है, इसलिये ऐसी वस्तु दीजिये कि जिससे यह अनेक हो जाय और उसे अपनी शक्ति का ज्ञान न रहे। इस पर बहुत विचार करके राजा ने कहा—सद्य, विषय, कषाय, निद्रा और विरथा ये पाँच प्रमादरूपी शराव हैं, उन्हें इन्द्रियरूपी वर्तन में रखकर उसे पिलाया कर तब वह कुछ भी न कर सकेगा।

इस प्रकार कर्मविपाक राजा की आज्ञा को सुनकर शरीर रूपी सेवक ने जीव को उपरोक्त मद पिलाकर बेहोश कर दिया। उसे कृत्वाकृत्य का ध्यान नहीं रहा। जब सेवक को निश्चय हो गया कि यह जीव मोक्ष न जाकर नरक में जायगा तो अपने कार्य में सफल समझ कर जीव को छोड़ जाने का विचार किया। इतने में गुणमहान् (मुनि सुन्दर) मिल गये। उनका जीव की दशा देखकर दया आयी। उन्होंने उसे कैद नाने का स्वरूप समझाया और कहा—“हे भाई ! इस बड़ीखाने से छद्म भी निकल जा। यह शरीर लोमी है इसे थोड़ी थोड़ी रिश्वत देकर

मोक्ष का साधन उसीके द्वारा तैयार कर तथा इन पाँच इन्द्रियों को संयम में रख और पाँच प्रमाद रूप दारु को कभी छू मी मत"। गुरु महाराज के उपदेश से यह जीव विचार करता है और उपदेश के अनुसार चलने की कोशिश करता है पर चलता नहीं। वास्तव में इस जीव को वस्तुस्वरूप का बिलकुल ध्यान नहीं, वह प्रमाद रूपी मद में मस्त रहता है और अकार्य करता है, अनावरण करता है और दुःखी होता है, उसे किसी बात का ज्ञान नहीं। वह यह नहीं जानता कि इस संसार में मद तो क्या है और पिलाने वाला कौन है। यदि वह यह बात समझ जाय तो वह अपने शरीर को आवश्यकता के अनुसार पोषण करता हुआ संयम पालनरूप काम निकला कर मोक्ष चला जाय—

शरीर की अशुचिता तथा अपना हितसाधन

यतः शुचीन्यप्यशुचीभवन्ति,

कृम्याकुलात्काकशुनादिभक्ष्यात् ।

द्रग्भाविनो मस्मतया ततोऽगा-

त्मांसादिपिण्डात् स्वहितं गृह्णात् ॥ ६ ॥

“जिस शरीर के सम्बन्ध से पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है, जो कृमियों ( कीड़ों ) से भरा है जो कौवे और कुत्तों के भक्षण योग्य है, जिसकी थोड़े ही दिनों में राख होने वाली है और जो केवल मांस का पिण्ड मात्र है, ऐसे शरीर से तू अपने हित की साधना कर ॥ ६ ॥”

विवेचनः अति सुन्दर तथा स्वच्छ वस्तुएँ भी शरीर के सम्पर्क में आकर अशुद्ध हो जाती हैं। अपना शरीर भी हाड़ मांस आदि अपवित्र वस्तु का बना है और ऊपर से चमड़ी से ढका होने से सुन्दर लगता है। यह हाड़ मांस भी किसी काम का नहीं। जानवर का हाड़ मांस, चमड़ी इत्यादि तो काम आ जाते हैं पर मनुष्य का हाड़ मांस चमड़ी तो किसी भी काम में नहीं आते उसे जलाना ही पड़ता है। ऐसे निकम्मे शरीर से, जो किसी के भी काम का नहीं, मोह करने

से क्या लाभ ? इसलिये इस शरीर में जब तक यह जीव है तब तक थोड़ा २ खिला कर अपने स्वार्थ की साधना करनी चाहिये । यही शरीर का सदुपयोग है ।

शरीर भाड़े का घर है उसका उपयोग करो

परोपकारोऽस्ति तपो जपो वा, विनश्वराद्यस्य फलं न देहात् ।

समाटकादल्पदिनासगेहमृत्पिण्डमूढः फलमश्नुते किम् ॥ ७ ॥

“जो प्राणी इस नाशवान शरीर से परोपकार, तप, जप आदि लाभ नहीं उठाता तो वह ( प्राणी ) इस थोड़े दिनों के लिये भाड़े पर लिये मकान के समान इस अपने पिंड पर क्यों मोह करता है ? ॥ ७ ॥”

भावार्थ:—जिस प्रकार मनुष्य भाड़े के मकान से मोह नहीं रखता और जिस प्रकार उससे जितना लाभ उठा सकता है उतना उठाता है इसी प्रकार अपने शरीर से, जो नाशवंत है, परोपकार, धर्म-कार्य आदि करके जो कुछ लाभ उठाया जावे उठाना चाहिये ।

शरीर से होने वाला आत्महित

मृत्पिण्डरूपेण विनश्वरेण, जुगुप्सनीयेन गदालयेन ।

देहेन चेदात्महितं सुसाधं, धर्मान्न किं तद्यतसेऽत्र मूढ ॥ ८ ॥

“मिट्टी के पिण्ड के समान नाशवन्त, दुर्गन्ध और रोग के घर इस शरीर से जो कुछ धर्म हो सके करके अपना हित साधन करने का यत्न है मूर्ख तू क्यों नहीं करता ?

भावार्थ: अपना शरीर तो नाशवान है और रोगों का घर है । यह अपवित्र है फिर भी अपना जो कुछ हित साधन हो सके साध लेना चाहिये अर्थात् इन्द्रिय-दमन, संयमपालन आदि जो अपने हित साधन के कार्य हैं वे इस शरीर से ही हो सकते हैं । अतएव ये हित साधन इस शरीर द्वारा साध लेने चाहिये ।

इस षेह ममत्वमोचन द्वार में निम्न लिखित बातें सुझाई गई हैं ।

१. शरीर का पोषण अनुपकारी पर अनुकम्पा करना है।
२. शरीर तुम्हारी अपनी अधिकृत वस्तु नहीं, यह तो मोहराजा का बनाया हुआ बंदीगृह है।
३. शरीर तुम्हारा सेवक नहीं, यह तो मोहराजा का सेवक है।
४. शरीर रूपी बंदीगृह से छूटने के लिये असाधारण प्रयास की आवश्यकता है।
५. शरीर रूपी बंदीगृह से छूटने का उपाय 'पुण्य प्रकृति' का संचय करना है।
६. शरीर को नाजुक नहीं बनाना और इन्द्रियो को वश में रखना चाहिये।
७. शरीर से आत्महित करने के लिए धर्म-ध्यान करना चाहिये।
८. शरीर को भाड़े का मकान समझना चाहिये।
९. शरीर छोड़ते समय थोड़ा भी दुःख न हो ऐसी वृत्ति कर देना।
१०. शरीर की अशुचि पर विचार करना।

ज्ञानियों ने पुकार पुकार कर बार बार कहा है कि हे भाइयो ! तुम स्त्री, पुत्र, धन और शरीर से मोह मत रखो। पर यह जीव जानता हुआ भी इससे ममता नहीं छोड़ता। विशेष कर शरीर की, बल्कि शरीर की बात बात पर चिंता कर उसे बड़ा कोमल बना देता है। वह फिर बहुत दुःख देता है, इसलिये शरीर से मोह मत करो। केवल शरीर को भाड़े का पर समझो जिससे इसे छोड़ते समय दुःख न हो। जिसे अगले भव में अच्छा स्थान मिलने की आशा नहीं उसे ही दुःख होता है।

शरीर की ममता नहीं रखनी चाहिए, पर उसकी उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस शरीर की सहायता से संसार-समुद्र पार हो सकता है। इसलिये शरीर को स्वस्थ रखना चाहिये *Healthy body has a healthy mind*। शुद्ध भोजन देकर शरीर को भाड़ा देकर मोक्ष साधना करनी चाहिए।

नोट १ ममत्व त्याग पर इस ग्रंथ में जो कुछ लिखा गया है वह पूर्ण त्यागियों की अपेक्षा से लिखा समझना चाहिये। आज के काल में साधारण गृहस्थ को इन युक्तियों से ममत्व त्याग के लिये उत्साह की जगह विपरीत प्रभाव की आशंका होती है। इन बातों से निरुत्साह, आत्महीनता, निरसहायता के भाव पैदा होते हैं और वह ममत्व त्याग को एक असंभव वस्तु समझने लगता है।

मनुष्य सत् कार्य करता है, जिनसे शुभ कर्म बंधते हैं वह कुकृत्य भी करता है जिस से अशुभ कर्म बंधते हैं। मनुष्य को सत्कार्य करने का उपदेश दिया जाता है, जिससे वह बुरे कर्म बंधन से बचे। परन्तु यह न भूलना चाहिए कि अच्छे कर्म भी जीव को बंधते हैं। मोक्ष की अपेक्षा से अच्छे कर्म भी बड़ी रूप हैं, चाहे वह सोने की बेंड़ी ही हो।

इसी प्रकार ममत्व मोह या प्रेम भी दो प्रकार का समझना चाहिये—प्रशस्त और अप्रशस्त। यह दोनों प्रकार का मोह मोक्ष की अपेक्षा से चाहे त्याग्य हो पर साधारण मनुष्य को वह कुभागे से बचाकर सन्मार्ग में प्रेरित करता है। स्त्री तथा संतान पर प्रशस्त मोह—ममत्व—उनको सन्मार्ग पर चलने चारित्र्यगठन करने और सदाचारी जीवन ढालने के लिए प्रोत्साहित करता है, और इस प्रशस्त मोह का अभाव, एक प्रकार से स्त्री तथा संतान को अरक्ष्य में छोड़ देने के बराबर है, जहां उनको कुप्रभावों से बचाने वाला कोई नहीं है, ऐसा करना कर्तव्य से च्युत होना है। यही नहीं, ऐसा करना क्रूरता और हिंसा भी है।

अप्रशस्त मोह या ममत्व ऐसा लाड़—प्यार है जो पत्नी या संतान को दुरी आदतें ढालने से तथा दुरी संगत करने से नहीं रोकता है।

इसी प्रकार शरीर के प्रति अप्रशस्त ममत्व, जो शरीर को अत्याशी विलासिता, आरामतलबी, आलसी इत्यादि दुर्गुण सिखाये, त्यागना चाहिये।

इस प्रकार अप्रशस्त ममत्व त्यागने पर ही पूर्ण रूप से ममत्व त्यागने की योग्यता या पात्रता आती है। बिना योग्यता या पात्रता के

ममत्वा-त्याग की चेष्टा आत्म कल्याण नहीं कर सकती अपितु वह पतन कारी होती है।

नोट २ इस ग्रंथ में (१) स्त्री, (२) संतान (३) धन और (४) शरीर के ममत्व त्याग का उपदेश दिया गया है। यह गहराई से समझने योग्य है; केवल शब्दार्थ-आधारित विवेचन से विशेष लाभ नहीं होगा।

धार्मिक उपदेशों को कार्यान्वित करने के लिये कई बातों की आवश्यकता है। मुख्य बात यह है कि वे इस प्रकार से कार्यान्वित किये जाने चाहियें जिससे ध्येय की प्राप्ति हो। इसके लिये देश और काल की परिस्थिति, व्यक्ति की योग्यता या पात्रता का ज्ञान अपेक्षित है। स्त्री के ममत्व त्याग का यदि यह अर्थ लगाया जावे कि पुरुष विवाह करले, उसका परिवार भी हो जाय, वह संसार के सब काम करता रहे और स्त्री को चक्की का पाट समझकर उसकी उपेक्षा करे, उससे धृष्टा करता रहे, उसकी आवश्यकताओं की ओर ध्यान ही न दे और उसका तिरस्कार करे तो यह कल्याणकारी ममत्व का त्याग नहीं है अपितु यह पतनकारी क्रूरता और हिंसा है।

इसी प्रकार संतान के ममत्व त्याग के नाम पर उनकी ओर उपेक्षा दृष्टि रखे, उनसे प्रेम भरी भाषा में बोलकर उनकी सन्मार्ग पर ओत्साहित करने से भी उदासीनता धारण कर ले तो वह भी वास्तव में ममता का त्याग नहीं है।

धन के ममत्व-त्याग का यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य यह मानकर पुरुषार्थ न करे कि आरंभ या समारंभ में पाप है। वह धन संग्रह इस दृष्टि से न करे कि धन पाप का मूल है अन्यथा वह अपने और अपने परिवार के पतन का कारण बनेगा। अपने उदर की पूर्ति के लिये दीनता अंगीकार करके भिक्षा द्वारा अपना तथा अपने परिवार का पालन करना धन के ममत्व का त्याग नहीं है।

इसी प्रकार शरीर से ममत्व के त्याग का यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य स्वास्थ्य रक्षा का ध्यान न रखे, रोगों की चिकित्सा न कराये और गंदगी में पड़ा रहे। इस प्रकार के स्त्री, संतान, धन और शरीर से ममत्व के त्याग से आत्म-कल्याण की जगह 'आत्म-पतन' ही होगा।



# प्राग्गुणिक अधिकार

## विषय प्रमाद त्याग

ममत्व दो प्रकार का होता है एक बाह्य दूसरा आभ्यन्तर । बाह्य ममत्व स्त्री, पुत्र धन तथा देह का है । इनको त्यागने का उपदेश प्रथम पाँच अधिकारों में दिया है । अब आभ्यन्तर ममत्व-त्याग का उपदेश यहाँ देते हैं । आभ्यन्तर ममत्व में विषय तथा प्रमाद का समावेश होता है । यहाँ विषय पाँच प्रकार के हैं । (१) स्पर्शेन्द्रिय (२) रसनेन्द्रिय (३) घ्राणेन्द्रिय (४) चक्षुरिन्द्रिय (५) श्रोत्रेन्द्रिय । इस प्रकार पाँच इन्द्रियों के पाँच विषय हुए । इसी प्रकार शास्त्रों में प्रमाद भी पाँच प्रकार का बताया है यथा-

मज्जं विसयकसाया, निद्रा विकहाथ पंचमी भाणिया ।  
एए पंच पमाया, जीवं पाडंति संसारे ॥

“(१) मद (२) विषय (३) कषाय (४) विकथा (५) निद्रा । यहाँ विषय को भी प्रमाद में समीकित कर लिया है । अब विषय प्रमाद को छोड़ने की क्या आवश्यकता है इसे बताते हैं—

विषय सेवन से प्राप्त सुख तथा दुःख  
अल्पकल्पितसुखाय किमिन्द्रियायै  
स्त्वं मुह्यसि प्रतिपदं प्रचुर प्रमादः ।  
एते क्षिपन्ति गहने भवभीमकक्षे,  
जन्तून् यत्र सुलभा शिवमार्गदृष्टिः ॥१॥

“बहुत अल्प तथा काल्पनिक (अवास्तविक) सुख के लिये तू प्रमादघाम् होकर धारंवार इन्द्रियों के विषय में क्यों फंसता है ?

ये विषय प्राणी को संसार रूपी भयंकर वन में छोड़ देते हैं, जहाँ से मोक्ष मार्ग का दर्शन भी इस जीव को दुर्लभ हो जाता है ॥१॥

**विवेचनः—**पाँचों इन्द्रियो से प्राप्त विषय सुख जैसे स्त्री-संभोग, मिष्ट भोजन, गायन आदि बहुत प्यारे लगते हैं। परन्तु ये सब आनन्द कितनी देर तक चलते हैं? ये सब आनन्द कल्पित भी हैं, वास्तविक नहीं। कारण, इन्द्रिय जनित सुख आत्मिक सुख नहीं है। विषयसुख तो भव-भ्रमण कराने वाला है। इसमें फँसकर मनुष्य अपने आपको भी भूल जाता है। वह यह नहीं समझता कि मोक्ष क्या वस्तु है? उसका यहाँ तक पतन हो जाता है कि उसे मोक्ष जानने का अवसर तक नहीं मिलता। आत्मानन्द प्राप्ति शान्त प्रदेश होना चाहिए, जहाँ शान्ति भंग करने वाला कोई न हो। ऐसे गहन वन में बैठ कर धर्म शास्त्र का अध्ययन और मनन करना चाहिए। इससे अंतःकरण में विचित्र आनन्द पैदा होता है। यही आनन्द स्वाभाविक आनन्द है। उस आनन्द की कोई समता-बराबरी नहीं कर सकता। उस सुख के सामने इन्द्रिय सुख या देवगति का सुख भी कोई वस्तु नहीं है।

विषयों का परिणाम हानिकर

आपातरम्ये परिणामदुःखे, सुखे कथं वैषयिके रतोऽसि ।

जडोऽपि कार्यं रचयन् हितार्थी, करोति विद्वन् यदुदकतर्कम् ॥२॥

“विषय-सुखे भोगते समय तो सुन्दर लगते हैं पर परिणाम में दुःख देने वाले हैं। ऐसे विषय-सुख में तू क्यों आसक्त होता है? हे बुद्धिमान्! अपना हित चाहनेवाला मूर्ख या गँवार पुरुष भी कार्य का परिणाम तो सोचता है ॥२॥

**भावार्थः** विषय-जनित सुख एकान्त दुःख देने वाला है और तू एकान्त सुख की अभिलाषा रखता है। हे भाई, तू थोड़ा विचार कर कि एक मूर्ख भी जब कोई काम करता है तो उसका परिणाम क्या होगा इस पर विचार करता है। बुद्धिमान् होकर भी तू अल्प विषय-सुख को भोगते समय इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखता ?

## मोक्ष सुख और संसार सुख

यदिन्द्रियायैरिह शर्म विन्दवद्यदर्णवत्स्वःशिवगं परत्र च ।  
तयोर्मिथःसप्रतिपक्षताकृतिन्, विशेषदृष्ट्यान्यतराद् गृहाण तत् ॥३॥

“इन्द्रियो से जो सुख प्राप्त होता है वह एक वूँद के बराबर है और उसके त्याग से जो परलोक में स्वर्ग और मोक्ष का सुख है वह समुद्र के बराबर है। इन दोनों सुखों में परस्पर शत्रुता है। इसलिये हे भाई ! इन दोनों में से एक को ग्रहण कर ॥३॥

भावार्थ: ऊपर के श्लोक में संसार और मोक्ष दोनों में भी सुख होता है यह बताया है, परन्तु दोनों में रात-दिन का अन्तर है। संसार सुख यदि एक वूँद के बराबर है तो मोक्ष सुख समुद्र के समान विशाल है। दूसरी बात यह है कि जहाँ संसार-सुख है वहाँ मोक्ष सुख नहीं और मोक्ष-सुख वहाँ हांता है जहाँ संसार-सुख की अपेक्षा (इच्छा) भी नहीं। संसार-सुख अल्प समय का होता है तो मोक्ष सुख अनन्त समय का। सांसारिक सुख थोड़ा और अन्त में दुःखद होता है तो मोक्ष सुख अनन्त और नित्य है अर्थात् कभी घटता नहीं। अब इन दोनों सुखों की तुलना ऊपर बता दी। तुम्हे जो पसन्द हो उसे प्राप्त करो।

दुःख होने के कारणों का निश्चय

भुंक्ते कथं नारकतिर्यगादिदुःखानि देहीत्यवधेहि शास्त्रैः ।  
निवर्तते ते विषयेषु तृष्णा, विभेषि पापप्रचयाच्च येन ॥४॥

“इस जीव को नारकीय तिर्यञ्च आदि के दुःख क्यों प्राप्त होते हैं यह शास्त्रों के पठन से जानो। इससे विषयों में रुचि कम होगी और पाप एकत्रित होने का भय लगेगा ॥४॥”

विवेचन:—नारकीय जीवों को इतनी भूख होती है कि १४ राजलोक के सब पुद्गलों को खा जावे तब भी तृप्ति नहीं होती। वे सब समुद्रों का जल पी जावे तब भी उनकी प्यास शान्त नहीं होती। इसी प्रकार अत्यन्त ठंडी तथा गर्मी का दुःख भोगना पड़ता है। तथा नरक के जीव परस्पर वेदना देते हैं।

तिर्यच गति में जीव का मालिक नाक छिदवाता है, भार खिचवाता है और वह भार खिलाता है इस प्रकार जीव अनेक तरह के दुःख पाता है।

मनुष्य गति में व्याधि, वृद्धावस्था, इष्ट वियोग, धन हरण, स्वजन मरण आदि अनेक दुःख हैं। देवलोक में इन्द्र की पराधीनता -देवों में परस्पर द्वेष तथा स्वयं का च्यवन-समय निकट समझ कर बहुत दुःख होता है। इस प्रकार चारों गतियों में दुःख है। इन दुःखों के कारणों की जानकारी तू शास्त्रों से प्राप्त कर। इससे तुझे इन विषयों से घृणा होगी और पापों से बचेगा।

उपरोक्त निश्चयों पर विचार

गर्भावासनरकादिवेदनाः पश्यतोऽनवरतं श्रुतेक्षणैः ।

नो कषायविषयेषु मानसं, श्लिष्यते बुध ! विचिन्तयेति ताः ॥५॥

“ज्ञान-चक्षु से गर्भावास, नारकीय अवस्था आदि के दुःखों का बारम्बार ध्यान कर, इससे तेरा मन विषयों की ओर नहीं जायगा। इसलिये हे बुद्धिमान् ! इस बात का तू बराबर विचार कर ॥ ५ ॥”

मरणभय—प्रमाद त्याग

वध्यस्य चौरस्य यथा पशोर्वा, संप्राण्यमाणस्य पदं वधस्य ।

शनैः शनैरेति मृतिः समीपं, तथाखिलस्येति कथं प्रमादः ॥६॥

“फौसी की सजा वाले चोर की अथवा वध के स्थान पर ले जाए जाते पशु की मृत्यु धीरे-धीरे पास आती है। इसी तरह मृत्यु सब जीवों के भी दिन प्रतिदिन पास आती जाती है। यह जानकर भी तू प्रमाद क्यों करता है ? ॥ ६ ॥”

विवेचन : प्रत्येक क्षण जो बीतता है उतनी ही मनुष्य की उम्र कम होती जाती है, इसलिये एक-एक क्षण भी बहुमूल्य है। उसका सदुपयोग करना चाहिये। मनुष्य उद्योग करने के लिए पैदा हुआ है। इसलिये उसे हर समय कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिये। उसे अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिये। बीता समय पीछे कभी हाथ नहीं

आता तथा दिन-दिन मृत्यु निकट आती जाती है यह समझ कर अपना कर्तव्य निवाहना चाहिये।

सुख के लिये भोगते विषयो से दुःख।

विभेषि जन्तो ! यदि दुःखराशेस्तदिन्द्रियार्थेषु रतिं कृथा मा ।

तदुद्धवं नश्यति शर्म यद्द्राक, नाशे च तस्य भ्रुवमेव दुःखम् ॥७॥

“हे प्राणी ! जो तुम्हें दुःखों का दर है तो इन्द्रियों में आसक्ति मत रख। विषयों से जो सुख होता है वह पुरन्त नष्ट हो जाता है। और उसके नाश से पीछे लंबे समय तक दुःख होता है ॥७॥”

भावार्थः विषय सुख के विषय में बहुत सोच विचार करना चाहिये। एक तो विषय सुख थोड़े समय के लिये होता है, दूसरे अन्त में उसका परिणाम बुरा होता है, तीसरे उसके अभाव में दुःख भी होता है, चौथी बात यह है कि अगर हम अपनी खुशी से विषय-सुख छोड़ देते हैं तो बड़ा आनन्द आता है। यदि वह (विषय) हमको छोड़ देता है तो बहुत दुःख होता है ॥ भर्तृहरि ने कहा है :

स्वयं त्यक्त्वा ह्येते क्षमसुखमनन्तं विदधते ।

अर्थात्:—यदि हम विषयों को छोड़ते हैं तो सुख होता है और जो विषय हमको छोड़ दें तो हमें दुःख होता है। इसलिये बुद्धिमान विषय को ही प्रथम छोड़ दें तो अनन्त सुख होगा।

तू विषयो में क्यों मस्त होता है ?

मृतः किमु प्रेतपतिर्दुरामया, गताः क्षयं किं नरकाश्च मुद्रिताः ।

भ्रुवाः किमायुर्धनदेहबंधवः, सकौतुको यद्विषयैर्विमुह्यसि ॥८॥

“क्या यमराज भर गया है ? क्या इस संसार के सभी रोग समाप्त हो गये हैं ? या नरक के दरवाजे बंद हो गये हैं ? क्या आयु, पैसा, शरीर तथा सगे सम्बन्धी सब हमेशा बैठे रहेंगे ? जो तू इन विषयों में खुशी-खुशी विशेष मोह में फँसता है ॥”

संक्षेप जिसको मरने का भय नहीं वह विषय सेवन करे यह तो समझ में आ सकता है। पर जिसके सिर पर यमराज खड़ा है, जिसकी व्याधियों का पार नहीं, जिसके कृत्यों का फल नरक ही है, जिसकी आयुष्य अस्थिर है, जिसका शरीर क्षण भंगुर है और जिसके सब सगे सम्बन्धी स्वार्थ पर्यन्त साथी है और जिसका संसार में कोई नहीं तो ऐसा तू क्या समझ कर विषयों में पागल हो रहा है ?

विषय प्रमाद त्याग से सुख

विमोक्षसे किं विषयप्रमादैर्भ्रमात्सुखस्यायतिदुःखराशेः ।

तद्गर्भमुक्तस्य हि यत्सुखं ते गतोपमं चायतिमुक्तदं तत् ॥६॥

“अनेक दुखों के आवासरूप भविष्य में सुख प्राप्ति के भ्रम से तू विषय प्रमादजन्य बुद्धि से क्यों मोहित होता है ? इन सुखों का अभिलाषा से दूर प्राणी का जो सुख होता है उसकी तुलना में विषयजन्य सुख कुछ नहीं है और यही बात नहीं वह भविष्य में मोक्ष को भी देने वाला होता है ॥ ९ ॥”

भावार्थ—विषयों में सुख मानना भ्रम है, क्योंकि उसमें कोई सुख नहीं, अपितु पीछे उन माने हुए सुखों से बहुत दुःख होता है। इस प्रकार विषय और प्रमाद दोनों जीव को दुःख में डालन वाले हैं। जा सुख लोक व्यवहार से रहित साधु को मिलता है वह सुख चक्रवर्ती सम्राट व इन्द्र को भी नहीं मिलता। आत्मा को जिससे आनन्द होता है वह सुख उत्कृष्ट है। इसमें कोई नई बात नहीं किन्तु यह संसारी सुख तो विषयजन्य और माना हुआ सुख है और कर्म बंधन का हेतु है। आत्मिक सुख तो सात्विक है और मुक्ति ही इस सुख का परिणाम है ?

× × × ×

ऊपर लिखे विषय के अनुसार विषय-प्रमाद-त्याग का अधिकार समाप्त होता है। समस्त अधिकार में बताया है कि मनुष्य को विषय-प्रमाद में नहीं फँसना चाहिये क्योंकि विषय सुख भोगकाल में ही अच्छा लगता है, वह अन्त में दुःखप्रद होता है। यह तात्कालिक सुख भी कल्पित है और संसार के अनेक दुःख इन्हीं विषयों के कारण

होते हैं ये । पाँचों इन्द्रियाँ मनुष्य को संसार चक्र में बहुत घुमाती हैं । ये पाँचों इन्द्रियाँ किस प्रकार संसार-भ्रमण कराती हैं यह बात तिर्यच जाति के दृष्टान्तों से समझनी चाहिये । हाथी पकड़ने के लिए गड़्ढे में कृत्रिम हथिनी रखते हैं और हाथी स्पर्श-इन्द्रिय के वश होकर पकड़ा जाता है । माँस खाने के लोभ में मछली पकड़ने वाले की छड़ी के काँटों में मछली फँस जाती है । सुगन्धि के वश में भँवरा कमल में रात भर बंद रहता है । दीपक की ब्योति से मोहित पतंगा दीपक पर झल कर प्राण दे देता है । मधुर वाद्य सुनकर हिरण भी फँस जाता है । इस प्रकार हाथी, मछली, भँवरा, पतंगा व हिरण अपनी इन्द्रियों के वशीभूत होकर दुःख पाते हैं । इसलिये इन पाँचों इन्द्रियों के वश में नहीं होना चाहिये ।

प्रमाद पाँच हैं: मद्य, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा । इस युग में मद्य का प्रचार विरोध है । जिस वस्तु के खाने या पीने से नशा आ जाय, उसका हाँस खो जाय और मनुष्य पागल सा हो जाय वह सब मद्य है । मद्य के नशे में चूर मनुष्य बेभान हो जाता है, और सामान्य मनुष्यों के करने योग्य व्यवहार भूल जाता है । सद् असद् का विवेक दूर चला जाता है । लोक लज्जा नष्ट हो जाती है और सभ्य पुरुषों के बीच न बोलने योग्य अश्लील शब्द बोलता है । मूर्ख ही ऐसी निकम्मी वस्तु को पैसा खर्च कर काम में लावेगा । इस दुर्व्यसन को एक बार अपनाकर उससे पीछा छड़ाना बहुत मुश्किल है ।



# शास्त्रगत अधिकार

## कषाय त्याग

कषायों में चार मुख्य हैं : क्रोध, मान, माया और लोभ । यह प्रत्येक मनुष्य में कम ज्यादा होता है । कषाय का शब्दार्थ है संसार-भ्रमण । इस प्रकार कषाय संसार में परिभ्रमण का कारण है ।

क्रोध का परिणाम—उसको रोकने की आवश्यकता

रे जीव ! स्नेहिथ सहिष्यसि च व्यथास्ता

स्त्वं नारकादिषु पराभवभूः कषायैः ।

मुग्धोदितैः कुवचनादिभिरप्यतः किं,

क्रोधान्निहंसि निजपुण्यघनं दुरापम् ॥१॥

अर्थ :—हे जीव ! तूने कषाय के वशीभूत होकर नरक के अनेक दुःख सहे हैं और अब और भी सहेगा । इसलिये मूर्ख मनुष्यों द्वारा दी हुई गाली आदि दुर्वचनों के प्रतिशोध में क्रोध करके बड़ी कठिनाई से प्राप्त पुण्यघन का क्यों नाश करता है ?

विवेचन :—यह कषाय ही है जो जीव को अनेक बार संसार में धुमाता है, फँसाता है तथा कर्तव्यच्युत कराता है । यहाँ तक कि जीव को पागल तक बना देता है । राग और द्वेष यह दो बड़ी शक्तिशाली शक्तियाँ हैं जो कषाय उत्पन्न कराती हैं और जीव को भवभ्रमण कराती हैं ॥ १ ॥ ऐसे कषाय के वश में होने से इस जीव ने आज तक अनेक दुःख सहे हैं । नरक निगोद आदि ८४ लाख जीव योनियों में अनेकों बार जन्म मरण प्राप्त किया । द्वेष के दो रूप हैं—क्रोध और मान, तथा राग के दो रूप हैं माया और लोभ । अब पहले क्रोध पर विचार करते हैं । यदि कोई गाली दे तो विचार करना चाहिये कि यह गाली देने वाला बिना भयोजन संसार बढ़ाता है । इस विषय में भर्तृहरि ने क्या ही सुन्दर कहा है ।



ददतु ददतु गालीर्गालिमन्तां भवन्तां,  
 ययमिह तदभावाद्गालिदानेऽसमर्थाः ।  
 जगति विदितमेतद्दीयते विद्यमानं,  
 न तु शशकविपाणं कोऽपि कस्मै ददाति ॥

“तुम जितनी भी गाली दे सकते हो उतनी दो, क्योंकि तुम गाली वाले हो, हमारे पास तो गाली है ही नहीं, हम कहां से दें। इस दुनियाँ में जिसके पास जो कुछ होता है वही दे सकता है। शशक के सींग नहीं होता वह किसी को सींग नहीं दे सकता—अर्थात् वह सींग से किसी को नहीं मार सकता।”

क्रोध करने का कोई भी प्रसङ्ग आवे यदि उस समय मनुष्य क्रोध न करे और समता अपनाए तो उसकी आत्मा को इतना लाभ होता है जिसका वग़ेन नहीं हो सकता। क्योंकि क्रोध करने से अपने पुण्य (रूप धन) का नाश होता है, इसलिये क्रोध का क्षमा से जातना चाहिये।

शास्त्रों में क्रोध से हानि और क्षमा से लाभ के विषय में अनेक दृष्टान्त हैं, कुछ यहाँ बतलाते हैं। पूर्वभ्रम में चंड कौशिक गुरु अपने शिष्य पर क्रोध कर मृत्यु को प्राप्त हुआ तो मर कर चंड कौशिक सपे हुआ। महा तीव्र उपसर्ग होने पर भी गजसुकुमालजी क्रोध न कर शान्त रहे तो तुरन्त मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार मैताये मुनि में भी क्रोध पर विजय पाते हुए केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया। यदि महावीर भगवान् के क्रोध-जय की तरफ ध्यान देते हैं तो आश्चर्य होता है। उनके उपसर्गों को पढ़ने से हृदय कांपने लगता है। संगम देव न भगवान् की परीक्षा लेने का रात भर कई प्रार्थान्त उपसर्ग किये, परन्तु भगवान् विचलित नहीं हुए और थक कर संगम देव भगवान् के पैरो पड़ा और क्षमा याचना की। कहा है—क्षमा बड़न को हात है आछन को उत्पात। अतएव क्षमा बड़ी है। सबको इसे अपनानीं चाहिये। क्रोध से अनेक हानियाँ होती हैं। क्रोधी मनुष्य अपना विवेक तथा कर्तव्य भूल जाता है और अनेक अनर्थ कर बैठता है। मन में जलन पैदा हो जाती है। क्रोध शत्रुता और अशान्ति करता है और सुगति का नाश करता है।

## मान अहंकार त्याग

पराभिभूतौ यदि मानमुक्तिस्ततस्तपोऽखंडमतः शिवं वा ।  
 मानाहतिदुर्वचनादिभिश्चेत्तपःक्षयात्तत्ररकादिदुःखम् ॥२॥  
 वैरादि चात्रेति विचार्य लाभालाभौ कृतिन्नाभवसंभविन्ध्याम् ।  
 तपोऽथवा मानभवाभिभूताविहास्ति नूनं हि गतिर्द्विधैव ॥३॥

अर्थ: दूसरे की ओर से अपमान होने पर भी मान नहीं करने से अखंड तप का लाभ होता है। और उससे मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। दूसरे के दुर्वचन सुन कर मान करे तो तप का नाश होता है। और नारकीय दुःख भोगना पड़ता है। इस भव में भी मान से वैर तथा विरोध होता है। इसलिये हे बुद्धिमानों ! लाभ और हानि का विचार कर जब जब भी अपमान हो तो तप ( अर्थात् मन पर अंकुश ) या मान इन दो में से एक का रक्षण करो। इस संसार में ये दो ही रास्ते हैं।

विवेचन:—मनुष्य अपमानित होकर अपने मन का अंकुश खो बैठता है और क्रोध करता है। इससे आभ्यन्तर तप का नाश होता है और विनय तथा सद्बुध्यान नहीं रहता। इससे कर्म-निर्जरा न होकर संसार-वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि मन की बश में रख क्षमा धारण की जाय तो इच्छित लाभ याने निर्जरा होती है। अतएव बुद्धिमान आदमी को अपना लाभ हानि सोच कर वर्तना चाहिये। उसे अहंकार नहीं करना चाहिये।

क्रोध त्याग करने वाला योगी है और मोक्ष प्राप्त करता है  
 श्रुत्वाक्रोशान् यो मुदा पूरितः स्यात्, लोष्टाद्यैर्यश्चाहतो रोमहर्षी ।  
 यः प्राणान्तेऽप्यन्यदोषं न पश्यत्येष श्रेयो द्राग् लभेतैव योगी ॥४॥

अर्थ: जो आक्रोश ( अपमान, फटकार ) सुन कर भी क्रुद्ध न हो प्रत्युत आनन्दित होकर रोमाञ्चित हो जावे। उसे पत्थर आदि से कोई मारे तो भी उसका रोमरोम विकसित हो जावे, जो प्राणान्त होने तक भी पराये का दोष नहीं देखता वह योगी है, वह जल्दी मोक्ष जाने वाला है ॥ ४ ॥

भावार्थ :—कोई मनुष्य कारणवश या अकारण ही किसी पर क्रोध करे या पत्थर मारे फिर भी वह क्रोध नहीं करे और समता रखे, मन को बश में रखे तो वह योगी कहलाता है। वह उस समय क्रोध न कर संसार का स्वरूप सोचता है। वह मन में सोचता है कि यह प्राणी मेरा उपकारी है, क्योंकि यह मेरे पूर्व संचित कर्मों से अल्प समय में छुटकारा दिलाने में सहायक है। जैसे स्कंदक मुनि महाराज के बहनोई ने उनकी चमड़ी उधड़वाई तो दुखी न होकर सुख अनुभव किया। गजमुकुमालजी के स्वसुर ने उनके सिर पर मिट्टी की पाल बना कर आग रखी तो भी गजमुकुमालजी ने शान्ति से सहा और समझा कि उनके स्वसुर ने मोक्ष रूपी सुसराल जाने के लिए पगड़ी बाँधी है। दमदन्त मुनि को कौरवों ने पत्थर मारे और पाण्डवों ने विनय किया तो भी दोनों को उन्होंने समभाव से देखा। न किसी पर क्रोध किया और न किसी पर प्रसन्न हुए। इस समभाव का कारण क्या था? केवल इस संसार का वास्तविक स्वरूप समझना तथा दूसरों के दुर्बलता को सुनकर या उनसे यातनाएँ भी प्राप्त कर योगी पुरुष जब आत्मा और पुद्गल का भेद समझते हैं और क्रोध व हर्ष पर विजय प्राप्त करते हैं तो वे अपने पूर्व जन्म के किये हुए पापों का फल समझ कर शान्त रहते हैं और क्रोध नहीं करते।

### कषाय निग्रह

को गुणस्तव कदा च कषायैर्निर्ममे भजसि नित्यमिमान् यत्  
किं न पश्यसि दोषममीषां, तापमत्र नरकं च परत्र ॥ ५ ॥

अर्थ : तेरे कषायो ने तुझे कब और क्या लाभ पहुँचाया जो तू उन्हें बार बार सेवन करता है? ये कषाय इस भव में दुःख और पर-भव में नरक देने वाले हैं। क्या तू इन दोषो को नहीं देखता? ॥ ५ ॥

विवेचन: क्रोध में कोई लाभ नहीं है। किसी ने क्रोध में न कभी कोई गुण देखा है न सुना है। बल्कि क्रोध से पीड़ा अवश्य होती है। क्रोध की दशा में मनुष्य का मस्तिष्क तत्काल फिर जाता है और इस जन्म में दुःख और पर-भव में अपमान तथा नरक प्राप्त होता है। इसलिये समझदार आदमी कभी क्रोध न करे। यदि क्रोध कदाचित्

नहीं रुक सके तो यथाशक्ति उसे कम अवश्य करै, और ऐसा अवसर ही न आने दे जिससे क्रोध उत्पन्न होवे और संसार बंध हो।

कषाय करने और न करने पर विचार

यत्कषायजनितं तव सौख्यं, यत्कषायपरिहानिभवं च ।

तद्विशेषमथवैतदुदकं, संविभाव्य मज विशिष्टम् ॥६॥

अर्थ : कषाय सेवन से तुम्हें क्या सुख होता है और कषाय-त्याग करने से तुम्हें क्या सुख होता है इन दोनों में जो ज्यादा सुख दे वह कौनसा है अथवा कषाय की तथा कषाय त्याग का परिणाम क्या है इन दोनों की सोच विचार कर जो अच्छा हो उसे अंगीकर कर ॥ ६ ॥

भावार्थ:—यह देखना है कि क्रोध, मान और माया अपनाने से क्या फायदा ? इसके फल स्वरूप सदा चित्त में अशान्ति तथा वैर-भाव उत्पन्न होता है। सामने स्थित मनुष्य के मन में भी आपके प्रति कुभावना ही होगी। इसके बदले यदि आप क्रोध, मान या लोभ नहीं करेंगे तो आपका चित्त शान्त रहेगा, दूसरा भी आपकी तरफ कुभावना नहीं करेगा, आपका मन आनन्द में रहेगा और आपके सुप्रभाव से सामने वाले के हृदय पर इतना प्रभाव होगा कि वह आपसे क्षमा माँगेगा—

इस प्रकार कषाय-त्याग से सबको सर्वदा आनन्द ही होता और समस्त जगत् मित्र बन जाता है

कषाय त्याग-माननिग्रह-बाहुवली

सुखेन साध्या तपसां प्रवृत्तिर्यथा तथा नैव तु मानमुक्तिः ।

आधा न दत्तेऽपि शिवं परा तु, निदर्शनाद्बाहुवलेः प्रदत्ते ॥ ७ ॥

अर्थ : जिस प्रकार तपस्या में प्रवृत्ति करना आसान नहीं है उसी प्रकार मान का त्याग करना भी आसान नहीं है। केवल तपस्या की प्रवृत्ति मोक्ष नहीं दे सकती किन्तु मान का त्याग मोक्ष देती है। जिस प्रकार मान का त्याग करने से बाहुवलीजी को मुक्ति प्राप्त हुई है। तपस्या करना

अति कठिन है पर प्रवृत्ति ( practice ) करने से वह सुलभ हो सकती है। परन्तु धन के या गुण के अंशकार व मान को छोड़ना बड़ा कठिन है। यह अंशकार मनुष्य में न जानते हुए भी पैदा होता है और समय पर बहुत दुःख देता है। कई लोग अपनी लघुता लोगों को अपने मुँह से बताते हैं वय भी मन से वे अपने बढ़पन की छाप सामने वालों पर डालने की इच्छा रखते हैं। मनुष्य भाया के चक्र में ऐसा फँसता है कि उसे मालूम भी नहीं होता और सब किये कराये पर पानी फेर देता है। बाहुवलीजी ने धोर तपस्या की पर मान को नहीं त्याग सके। उनको इस मान का भान भी नहीं था पर जब उनकी बहनों ने आकर मान का भान कराया और कहा “भैया द्वारा गज थकी ऊतरो”। ये शब्द सुनते ही बाहुवलीजी को ध्यान आया और तत्काल मान को छोड़ दिया। मान छोड़ते देर नहीं हुई कि केवल ज्ञान होते ही मोक्ष प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य यह है कि तपस्या आसान और मान का त्याग मुश्किल है। तपस्या से एकान्त मुक्ति नहीं जब कि मान के त्याग से तत्काल मुक्ति होती है।

मान की स्थिति में मनुष्य दूसरे के गुणों को आँक नहीं सकता। यदि वह आँकता भी है तो उसे वह अपने से बहुत कम प्रशस्त समझता है। मानी व्यक्ति अपने से ज्यादा गुणी के गुणों को हीन समझ विनय नहीं कर सकता। जो विनय धर्म का मूल है “विपात्रो धन्मस्स मूले” उसी का नाश इस मान से होता है। इससे स्पष्ट हो गया है तपस्या आसान है और मान की मुक्ति अति कठिन है। यदि जीव अपनी स्थिति तथा पौद्गलिक स्थिति के सम्बन्ध का ध्यान रखे तो इस मान का नाश हो सकता है।

मान त्याग अपमान सहन

सम्यग्विचार्येति, विहाय मानं, रक्षन् दुरापाणि तपांसि यत्नात् ।  
 रुदा मनीषी सहतेऽभिभृतीः, शूः क्षमायामपि नीचजाताः ॥८॥

अर्थ :— इस प्रकार अच्छी तरह विचार करते हुए मान का त्याग करके और कष्ट से प्राप्त तप की यत्न पूर्वक रक्षा करते हुए क्षमा करने

में शूरवीर पंडित साधु नीच पुरुषों द्वारा किये अपमान को बड़ी प्रसन्नता के साथ सहन करता है ॥८॥

भावार्थ :—पंडित साधु अपमान को बड़ी प्रसन्नता से सहन करता है। वह यह सोचता है कि यह अपमान करने वाले मेरे शत्रु तो हैं नहीं, मैं केवल अपने कर्मों का फल भोगता हूँ। मान-त्याग तो फिर भी आसान है पर अपमान सहना अति कठिन है। ऐसे समय मनुष्य को यह सोचना चाहिये कि यह अपमान करने वाला व्यक्ति असमझ है, इसलिये इसके कार्य पर ध्यान देना व्यर्थ है। इस प्रकार सोचते हुए पंडित साधु अपने मन का संतुलन नहीं खोता। अपमान सहन करना कमजोर व्यक्ति का काम नहीं है। कहा है “कमजोर गुस्सा भारी”। अतएव शूरवीर ही अपमान को सहन कर सकता है। उसका मनोबल ऊँचा होता है। वह अपने मन को वश में रखता है।

सक्षोप से क्रोध-निग्रह

परामिभूत्याल्पिकयापि कुप्यस्यघैरपीमां प्रतिकर्तुमिच्छन् ।

न वेत्सि तिर्यङ्मरकादिकेषु, तास्तैरनन्तास्त्वतुला भवित्रीः ॥ ९ ॥

अर्थ : साधारण अपमान होने पर तू क्रोध करता है और प्रत्येक पापाचरण होने पर तू पापीजन से वैर के प्रतिशोध की इच्छा करता है। पर नारकी तथा तिर्यच गतियों में तू अपार दुःख पावेगा इसको जानते हुए भी विचार नहीं करता ॥९॥

भावार्थ :—यह जीव अपमानित होने पर प्रतिद्वन्द्वी के प्रति क्रोध करके उससे शब्द, हाथ अथवा हथियार से वैर का प्रतिशोध लेने की बात सोचा करता है। इस प्रकार दूषित मनोविकार के कारण वेचारे जीव को कृत्य अकृत्य का ध्यान नहीं रहता और भविष्य के लिए भी विचार नहीं करता है। वह क्रोध के आधीन हो निरंकुश वृत्ति धारण कर व्यवहार करता है। वह इस भव में और परभव में दुःख पावेगा इसका विचार नहीं करता। मानसिक विकार, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि मनुष्य के लिए इस जीवन में भी हानिकारक हैं और भव भ्रमण भी कराते हैं। अतएव क्रोध से बचना चाहिये।

षड्रिपु पर क्रोध तथा उपसर्ग करने वाले के साथ मैत्री  
धत्से कृतिन् ! यद्यपकारकेषु, क्रोधं ततो धेह्यरिपट्क एव ।

अथोपकारिष्वपि तद्भवार्त्तिकृत्कर्महृन्मित्र वहिर्द्विपत्सु ॥१०॥

अर्थ:—हे पंडित ! तुझे तेरे अहित करने वालो पर यदि क्रोध आता है तो अपने षट् रिपु ( काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष ) पर क्रोध कर और तू अपने हित करने वालो पर यदि क्रोध करता है तो संसार में अनेक प्रकार की पीड़ा पहुँचाने वाले कर्मों पर तथा उपसर्ग-परिपह पर, जो वास्तव में तेरे हितेच्छु हैं और बाह्यदृष्टि से जो तेरे शत्रु हैं, उन पर क्रोध कर ॥१०॥

भावार्थ मनुष्य अपने पर अपकार करने वालो पर क्रोध करता है वह उनका शत्रु कहलाता है। उन शत्रुओ का स्वरूप बुद्धिमान् लोगो ने इस प्रकार बताया है, उसको ध्यान में रखना चाहिए :

- (१) परकीय या अपनी स्त्री के साथ अथवा कुमारी या वेश्या के साथ विषय सम्बन्ध करने की इच्छा करना या कुचेष्टा करना यह काम ।
- (२) प्राणी पर क्रोध करना और इस बात का विचार नहीं करना कि इस गुस्से का स्वयं पर अथवा दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपनी कितनी हानि होगी इसका विचार किये बिना मन को अस्त व्यस्त करना—यह क्रोध ।
- (३) दान देने की सामर्थ्य होने पर भी दान नहीं देना। बिना कारण दूसरे का धन हरण करने की इच्छा रखना। धन की वृष्णा रखनी और परद्रव्य अथवा दूसरे की वस्तु लेने की इच्छा यह लोभ
- (४) जो गुण अपने में नहीं उस गुण की सत्ता अपने में मान लेना अथवा उसके होने का भाव दिखाना मान (Vanity)
- (५) कुल विद्या, धन आदि का धमंड करना मद

(६) बिना कारण दूसरे को दुःखी कर अथवा जुआ आदि व्यसन का आश्रय लेकर मन में प्रसन्न होना हर्ष

उपरोक्त छः रिपु हैं, जो देखने में सुन्दर परन्तु फल में अत्यन्त दुःखदायी हैं, इसलिये इन पर क्रोध करना और इनको छोड़ना उचित है। इसी प्रकार संसार में दुःख की जड़ कर्मों का त्याग करना है। उचित उपसर्गों को समता पूर्वक सहन करने से वास्तव में कर्म कटते हैं। ये इस प्रकार से मित्र और उपकारी हुए इसलिए इन पर क्रोध करना उचित नहीं। इसलिए उपरोक्त पट् रिपुओं को त्यागना चाहिये और उपसर्गों का आदर करना चाहिये, क्योंकि वास्तव में ये मित्र हैं। गजसुकमालजी के स्वसुर सोमल ने क्रोध के वशीभूत होकर उनके सिर पर आग रख कर उनके प्राण लिए, यह देखने में तो उपसर्ग हुआ परन्तु वास्तव में मोक्ष का कारण होने से उपसर्ग मित्ररूप हुआ

माया निग्रह का उपदेश

श्रधीत्यनुष्ठानतपःशमाद्यान्, धर्मान् विचित्रान् विदधत्समायान् ।

न लप्स्यसे तत्फलमात्मदेहकलेशाधिकं ताँश्च भवान्तरेषु ॥११॥

अर्थ :—यदि तू शास्त्राभ्यास, धर्मानुष्ठान, तपस्या शम इत्यादि धर्म या धर्म कार्य को माया के साथ आचरण करेगा तो इस जन्म में, तेरे शरीर को कष्ट के सिवाय भवान्तर में कोई भी फल नहीं प्राप्त होगा, और जो धर्म किया है वह भी भवान्तर में लाभकारी नहीं होगा।

विवेचन : शास्त्राभ्यास, प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य बाह्य तथा आभ्यन्तर के भेद से चारह प्रकार के हैं तप, उपशम, दम, यम, दान आदि धर्म कार्य यदि माया के साथ किये जायें तो सब निष्फल हैं। माया कपट या लुच्चाई का त्याग करना बहुत मुश्किल है। क्रोध और मान का तो तुरन्त भान हो जाता है, परन्तु गुप्त होने से माया का भान नहीं होता। कभी कभी तो स्वयं माया का व्यवहार करने वाले को भी मालूम नहीं पड़ता। इसलिये धर्म कार्य करने वाले को भद्रीक होना जरूरी है। क्योंकि ऐसे मनुष्यों को बहुत कम कर्म बन्धन होता है। उपाध्यायजी महाराज फरमाते हैं कि



केशलोच करना, शरीर से मेल नहीं उतारना, पृथ्वी पर सोना, तपस्या आदि कष्टकारक व्रत धारण करना साधु के लिये सरल हैं पर माया का त्याग अति कठिन है। उदयरत्नजी महाराज फरमाते हैं:

मुख मीठो झूठो मनेजी, कूट कपट को कोट,  
जीभे तो जी जी करेजी, चिप में ताके चांट,  
प्राणी मा करीज माया लगाए ॥

इसलिये शास्त्रकार कहते हैं कि कोई भी धर्म कार्य किया जाय यदि हृदय में कपट है तो सब व्यर्थ है। शास्त्र प्रत्येक स्थल पर स्याद्वाद का प्रयोग करते हैं परन्तु प्रसंग आने पर माया के लिए वे कहते हैं 'निष्कपट रहो यह एकान्तवाद ही है।

लोभ निग्रह आदेश

सुखाय धत्से यदि लोभमात्मनो, ज्ञानादिरत्नत्रितये विधेहि तत् ।  
दुःखाय चेदत्र परत्र वा कृतिन्, परिग्रहे तद्वहिरान्तरेऽपि च ॥१२

अर्थ: हे पंडितो ! यदि तुम अपने सुख के लिये लोभ करते हो तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र इन तीन रत्नों के संचय करने का लोभ करो और यदि तुम्हें इस भव में और परभव में दुःख झकट्टा करने का लोभ हो तो आन्तर तथा बाह्य परिग्रह के लिये लोभ करो ॥ १२ ॥

विवेचन :—यदि किसी व्यक्ति को आत्मा के सुख का लोभ हो तो उसे अपनी आत्मा के मूल गुणों की प्राप्ति का लोभ करना चाहिये। जो व्यक्ति बाह्य वस्तु की प्राप्ति के लिये लोभ करेगा उसका आन्तर और बाह्य परिग्रह बढ़ेगा, जो इस भव में तथा परभव दोनों में निरन्तर दुःख देने वाला है। बाह्य परिग्रह धन, धान्य, क्षेत्र, वस्तु, स्तया, सोना, धातु, द्विपाद, और चतुष्पाद ये नौ प्रकार के हैं। तथा आन्तर परिग्रह मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्यादि छः दोष और चार कपाय ये चौदह प्रकार के परिग्रह हैं जो संसार में दुःख देते हैं। इसलिये लोभ करना हो तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूपी रत्नों की प्राप्ति का लोभ करना चाहिये।

लोभ का स्वरूप समझना अत्यन्त आवश्यक है। लोभ समुद्र की तरह विशाल है, उसका पार पाना कठिन है। लोभी प्राणी सुखी नहीं रहता, उसके चित्त को शान्ति नहीं मिलती है। इसलिये लोभ को पाप का बाप कहा है। उमास्वाति वाचक महाराज ने प्रशमरति में कहा है “सर्वं गुणं विनाशनं लोभात्” लोभ से सब गुण नष्ट हो जाते हैं। सीता ने सोने के मृग की प्राप्ति के लोभ में अपने पति रामचन्द्रजी को भेजा तो स्वयं उसका अपहरण हुआ; धवल सेठ लोभ में जन्धा होकर श्रीपालजी की सज्जनता को न देख कर स्वयं मौत के मुख में गया और सातवें नरक में गया।

लोभ का शत्रु संतोष है। संतोष मन में आते ही हृदय से बोझ एकदम हट जाता है, और आनन्द प्रगट हो जाता है। बुद्धिमान् पुरुष हैं कि मन में संतोष आने पर “कौन गरीब और कौन अमीर।”

मद मत्सर निग्रह उपदेश

करोषि यत्प्रेत्य हिताय किञ्चित्, कदाचिदल्पं सुकृतं कथञ्चित् ।

मा जीहरस्तन्मदमत्सराद्यैर्विना च तन्मा नरकातिथिभूः ॥१३॥

अर्थ :—द्वैवश यदि अगले भव के लिये अच्छा काम करने का अवसर आवे तो तू उसे मद मत्सर करके क्यों नष्ट करता है। तू सुकृत किये बिना नरक का अतिथि मत बन ॥ १३ ॥

भावार्थ :—पुरुषों के बलवान होने पर जीव को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उत्तम कुल, उत्तम धर्म ( जैन धर्म ), सद्गुरु की प्राप्ति तथा इसमें भी श्रद्धा पाना तो बहुत दुर्लभ है। यह सब पाकर यदि वह अहंकार या मत्सर करता है तो उसका अधःपतन होता है। पुनः त्रापिस उन्नति की ओर चढ़ने का अवसर नहीं आता। इसलिये यदि तेरे पास धन, वैभव, गुण, पुत्र आदि संसारी वस्तुएँ हैं तो तू अहंकार मत कर। यदि ये संसारी सुख तेरे पास नहीं है तो औरों के पास देखकर मन में द्वेष भी मत कर। तुझे सोचना चाहिये कि ये सब कर्माधीन है।

विशेष कर ईर्ष्या नहीं करना

पुरापि पापैः पतितोऽसि संसृतौ, द्वासि किं रे गुणित्सरं पुनः ।  
न वेत्सि किं घोरजले निरात्यसे, नियंज्यसे शृङ्खलया च सर्वतः ॥ १४ ॥

अर्थः—तू पापावरण के कारण ही संसार में श्राया है। फिर भी गुणवान् व्यक्तियों से ईर्ष्या करता है। इस पाप से तो तू और भी गहरे पानी में डूब जावेगा। तेरा यह शरीर कर्मरूपी बन्धनों से बँधता रहता है, इस बात को तू नहीं विचारता ॥ १४ ॥

भावार्थः कर्म ही संसार-भ्रमण कराने वाले हैं यह सर्व-विदित है, फिर भी तू गुणवान् के प्रति ईर्ष्या कर क्यों कर्म बन्धन करता है। कर्म बन्धन से अधोगति प्राप्त होती है और संसार बढ़ता है, इसलिये यदि संसार-भ्रमण से वचना है तो गुणवान् व्यक्तियों के आचरणों का अनुकरण करो। गुणवान् के गुणों की प्रशंसा से वे ही गुण तुम में आ जावेंगे, कर्मों का नाश हो जायगा और जीवन शुद्ध हो जायगा।

कषाय से सुकृत का नाश

कष्टेन धर्मो लवशो मिलत्ययं, क्षयं कषायैर्युगपत्प्रयाति च ।  
अतिप्रयत्नार्जितमजुर्नं ततः, किमज्ञ ही हारयसे नभस्वता ॥ १५ ॥

अर्थः धर्म का संग्रह बड़े कष्ट से और बूंद बूंद संचय के समान होता है पर वह कषाय करने से एक साथ नष्ट हो जाता है। हे मूर्ख ! बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया हुआ सोना एक फूँक में क्यों उड़ा देता है ? ॥ १५ ॥

भावार्थः—श्रुति में बताया हुए चरित्र लक्षण और धर्म बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा कर प्राप्त होते हैं। और 'अनन्त पुद्गल परावर्तन होने के पीछे अन्त के परावर्तन में थोड़ा सा धर्म प्राप्त होता है। ऐसी कठिनता से प्राप्त धर्म की बड़ी सावधानी और पुरुषार्थ से रक्षा करनी चाहिये। यह धर्म भी कषाय करने से एकदम नष्ट हो जाता है। सद्गुणों के कारण उन्नत स्थानों में चढ़ा हुआ प्राणी भी मोहनीय कषाय से एकदम नीचे गिर जाता है। फिर पीछे गुणस्थान पर चढ़ना

बहुत कठिन हो जाता है। अतएव धर्म रूपी स्वर्ण रज को कषाय रूपी धौकंती की एक ही फूँक से उड़ा नहीं देना चाहिये।

धर्म का आचरण तो मनुष्यजन्म में ही किया जा सकता है। प्रथम तो मनुष्य भव प्राप्त करना अति दुर्लभ है। मनुष्यजन्म प्राप्त कर अपना समय भोग विलास अथवा उदरपूर्ति की चिन्ता में बिता देता है। इससे समय बचने पर मनुष्य में ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता तथा जिज्ञासा होना मुश्किल है, फिर शुद्ध गुरु का संयोग प्राप्त होना बड़े पुण्य से होता है। इतना साधन प्राप्त होने पर कहीं धर्म प्राप्त होता है। इतनी कठिनता से प्राप्त धर्म को यदि कषाय कर नाश कर दिया जाय तो इससे अधिक मूर्खता और क्या हो सकती है? इसलिये कषाय पर अंकुश रखना चाहिये।

कषायो से हानि की परम्परा

शत्रूमवन्ति सुहृदः, कलुषीमवन्ति,  
धर्मा, यशांसि निचितायशसीमवन्ति ।

स्त्रिह्यन्ति नैवं पितरोऽपि च वान्धवाश्च,  
लोकद्वयेऽपि विपदो भविनां कषायैः ॥१६॥

अर्थः कषाय से मित्र भी शत्रु बन जाता है, धर्म मलिन हो जाता है, यश अपयश में बदल जाता है, माता-पिता, भाई-बहन कोई प्रेम नहीं रखते और इस लोक में और परलोक में विपत्तियाँ आ घेरती हैं। कषाय से क्रोध, मान, माया और लोभ का समावेश होता है। क्रोध से मित्र भी शत्रु हो जाता है। अभिमानी पुरुष का तिरस्कार होता है। लोभी की सब जगह बुराई होती है। कपटी का कोई विश्वास नहीं करता। जिनमें ये अवगुण होते हैं उनसे लोग सदा दूर दूर रहते हैं। उनका दुःख-दर्द में कोई साथ नहीं देता। यहां तक कि माता, पिता और भाई-बन्धु भी दूर रहते हैं। कषाय से इस भव में और परभव में अनेक दुःख होते हैं और पुण्य का नाश होता है और लाभ कुछ भी नहीं। इसके उपरान्त दुःख की परम्परा अनेक भवों में चलती है। अभिमानी व्यक्ति को नीच गोत्र,

लोभी व्यक्ति को दरिद्रता और मायावी को स्त्री-देह प्राप्त होता है  
ऐसा शास्त्रों का कथन है ।

मद निग्रह का उपदेश

रूपलामकुलविक्रमविधाश्रीतपोवितरणप्रभुताधैः ।

किं मदं वहसि वेत्सि न मूढानन्तशः स्म भृशलाघवदुःखम् ॥१७॥

अर्थः रूप, लाम, कुल, बल, विधा, लक्ष्मी, तप, दान, ऐश्वर्य  
आदि का धमंड तू क्या समझ कर करता है ? मूर्ख ! अनन्त बार तूने  
इस नीचता का दुःख सहन किया है क्या तू यह नहीं जानता ? ॥१७॥

भावार्थः कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य ने इस प्रकार  
कहा है ।

जातिलाभकुलैश्वर्यवलरूप तपःश्रुतैः ।

कुर्वन् मदं पुनस्तानि हीनानि लभते जनः ॥

अर्थात्—उपरोक्त आठ मदों को करने से उन्हीं विषयों में नीचता  
प्राप्त होती जैसे—

(१) जातिमद याने मैं उत्तम जाति का हूँ ऐसा गर्व करने से जीव  
चांडाल के कुल में पैदा होता है । (२) लाममद—छः खंड के लाम  
के कारण मद में आकर सुभूम चक्रवर्ती सातवाँ खंड साधने गया तो  
उसने अपना प्राण खोया । (३) कुल मद—हमारे पूर्वज ऐसे थे इस  
प्रकार मद करने से मरीचि को नीच कर्म-बंधन हुआ । (४) ऐश्वर्य-मद  
दशार्णभद्र को हुआ और इस जमाने में रूस के बादशाह को हुआ  
सो वह नष्ट हुआ । (५) बलमद श्री आदिनाथ भगवान् के पुत्र  
महाबलवान् बाहुवलीजी को मद था तो उन्हें केवलज्ञान होने में  
विलम्ब हुआ । (६) रूपमद—सनतकुमार को यह मद हुआ, इस  
का परिणाम ठीक नहीं हुआ । (७) तपमद—तपस्वियों को यह मद  
होता है तो तप का फल नष्ट हो जाता है और वे भ्रष्ट हो जाते हैं ।  
(८) श्रुतमद—विद्या का मद इस जमाने में ज्यादा है । स्थूलिभद्रजी  
को श्रुतमद के कारण उन्हें पूर्वा (शास्त्रों) का ज्ञान श्री संध की आज्ञा

होने पर भी केवल सूत्र रूप में मिला। उनका अर्थ नहीं पढ़ाया जा सका। ये आठ मद बहुत विचारणीय हैं। इनके प्रति मनुष्य को बहुत सतर्क रहना चाहिये

ये आठ मद बहुत विचारणीय हैं यदि मनुष्य इनमें फँस जाता है तो दुःख पाता है। मनुष्य को मद नहीं करना चाहिये। जो गुण प्राप्त हुए हैं वे पूर्व भव के पुण्य के प्रताप से, तो इनमें मद क्यों? फिर जिन गुणों का तुमको मद है ऐसे गुणवाले, बल्कि तुम से भी बहुत अधिक गुण वाले इस संसार में बैठे हैं, फिर मद का क्या कारण? मद करें भी तो ऐसा गुण का करें जो संसार में किसी के पास न हो। फिर भी मद करना उचित नहीं; कारण ये सब नश्वर हैं।

संसार वृक्ष की जड़ कषाय

विना कषायान्न भवतिराशिर्मवद्भवेदेव च तेषु सत्सु ।

मूलं हि संसारतरोः कषायास्तत्तान् विहायैव सुखीभवात्मन् ॥१८॥

अर्थ : कषाय के न होने पर संसार की अनेक पीड़ाएँ नहीं होती। जहाँ कषाय होता है वहाँ पीड़ा अवश्य होती है। संसार-वृक्ष की जड़ कषाय है। इसलिये हे चेतन ! (जीव) कषाय त्याग कर सुखी हो ॥१८॥

भावार्थ : इस श्लोक में सब अधिकार का सार आ गया। जहाँ कषाय है वहाँ संसार है और जहाँ कषाय नहीं वहाँ संसार नहीं। इस आत्मा को संसार रूपी समुद्र में डुबाने वाला कषाय है। यदि कषाय नहीं हो तो इस जीव के लिये मोक्ष सरल है।

कषाय के साथी विषय का त्याग

समीक्ष्य तिर्यङ्गनरकादिवेदनाः, श्रुतेक्ष्यैर्धर्मदुरापतां तथा ।

प्रमोदसे यद्विषयैः सकौतुकैस्ततस्तवात्मन् विफलैव चेतना ॥१९॥

अर्थ :—शास्त्र-रूपी आँखों से तिर्यन्च आदि नारकीय प्राणियों की वेदना जानकर और उसी प्रकार धर्म प्राप्ति की कठिनाई को

जानकर भी तू कुपूहल वश विषयों में आनन्द मानता है तो हे चेतन ! तेरी चेतनता व्यर्थ है ॥१९॥

भावार्थ : विषय तथा प्रमाद परस्पर मिलने वाले हैं और विषय तथा कषाय एक दूसरे के साथी हैं। इसलिये विषय तथा कषाय दोनों की चर्चा यहां की गयी है। देवलोक में ज्यवन होने का दुःख है। मनुष्य लोक में प्रवृत्ति, विधोग, व्याधि, वृद्धावस्था, मृत्यु इत्यादि का दुःख है, तिर्यच गति में परार्धीनता का दुःख तथा नारकीय प्राणियों में तो दुःख ही दुःख है। ये सब बातें शास्त्रों से ज्ञात हैं। तू जानता है कि पांच इन्द्रियाँ भी बहुत मुश्किल से मिलती हैं और यह भी जानता है कि धर्म तो इससे भी अधिक कठिनता से प्राप्त होता है तो भी तू यदि अपनी आदत को नहीं सुधारता है तो तेरा सब ज्ञान निरर्थक है।

कषाय के साथी प्रमाद का त्याग

चौरैस्तथा कर्मकरैर्गृहीते; दुष्टैः स्वमात्रेऽप्युपतप्यसे त्वम् ।

पुष्टैः प्रमादैस्तनुभिश्च पुण्यं धनं न किं वेत्स्यपि लुब्धमानम् ॥२०॥

अर्थ : यदि चोर या तुम्हारा नौकर तुम्हारा जरासा भी धन चोरी कर लेता है तो तुम्हें गुस्सा आता है और साधारण अथवा बड़ा प्रमाद तेरे पुण्य धन को लूट लेता है तो तू उसे जानता भी नहीं ॥२०॥

भावार्थ : धर में यदि चोर या नौकर चोरी करता है तो सजा दी जाती है, पर मद्य, विषय, कषाय, विकथा रूप प्रमाद चोर हैं। ये तेरा पुण्य धन लूट ले जाते हैं, इसकी तू कुछ चिन्ता नहीं करता ? तू कैसा बुद्धिमान् है। अब चेत, उठ और विचार कर।

जरा नीचे देख कर चल उपसंहार मद का त्याग

मृत्योः कोऽपि न रक्षितो न जगतो दारिद्र्यमुत्रासितं,  
रोगस्तेननृपादिजा न च भियो निर्णाशिताः षोडश ।

विध्वस्ता नरका न नापि सुखिता धर्मैस्त्रिलोकी सदा,  
तत्को नाम गुणे मदश्च विभुता का ते स्तुतीच्छा च का ॥२१॥

अर्थ :—हे भाई ! तूने आज तक किसी प्राणी को मौत से नहीं बचाया, न इस जगत् का दारिद्र्य मिटाया, न रोग, चोर, राजभय आदि १६ भयों का तूने नाश किया है, न नरकगति के भय का नाश किया है और न धर्म करके तीन लोकों को सुखी किया तो तुझमें ऐसा कौनसा गुण है जिसका तू गर्व करता है ? अब बिना ऐसा कोई काम किये तू अपनी स्तुति की भी इच्छा रखता है ? ॥२१॥

विवेचन : प्रायः देखा गया है कि लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, वे बिना कोई अच्छा काम किये अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं और अकड़ कर रहते हैं। उनको समझना चाहिये कि उन्होंने ऐसा क्या बड़ा काम किया है जो इतना घमंड करते हैं। क्या उन्होंने किसी को मृत्यु से बचाया या संसार को भय, रोग अथवा दुःख से बचाया जिसके कारण वे इतना घमंड करते हैं। वास्तव में जो संसार को सुखी करने की शक्ति रखता है उन्हें घमंड नहीं होता। घमंड करना अपने आपको धोखा देना है।

X X X X

कषाय का अधिकार पूर्ण हुआ अब कषाय के भेदों पर संक्षेप से विचार करेंगे।

क्रोध :—क्रोध के बारे में एक विद्वान् ने कहा है

संतापं तनुते भिनत्ति विनयं सौशार्दमुत्सादय  
त्युद्वेगं जनयत्यवधवचनं सूते विधरो कलिम् ।  
कीर्तिं कृन्तति दुर्मतिं वितरति व्याहन्ति पुण्योदयं,  
दत्ते यः कुगतिं स हातुमुचितो रोषः सदोषः सताम् ॥

“क्रोध संताप पैदा करता है, विनय और धर्म का नाश करता है, मित्रता का अंत करता है, और उद्वेग पैदा करता है। यह नीच वचन कहलाता है, क्लेश कराता है, कीर्ति का नाश तथा दुर्मति उत्पन्न करता



है। यह पुरुष का नाश करता है और मानव की कुगति देता है। ऐसे-ऐसे अनेक दोष इस क्रोध से उत्पन्न होते हैं। क्रोध से हानि तो प्रत्यक्ष है पर लाभ एक भी नहीं। महात्मा कहते हैं कि क्रोध त्याग से मोक्ष भी सुलभ है।”

**अभिमान :** यह ऐसा मीठा कषाय है कि स्वयं अभिमान करने वाले को मालूम नहीं होता है। अभिमान से विनय का नाश होता है। इससे समकित प्राप्ति नहीं होती। अभिमानी आदमी से लोग दूर रहना पसंद करते हैं। बाहुबलीजी को घोर तपस्या करने पर भी अभिमान के कारण केवलज्ञान नहीं हुआ।

**माया :—** यह भी मीठा कषाय है। इस माया के कारण जीव को महातीव्र पाप बँधता है। एक बार माया करने पर उसे निभाना बहुत कठिन हो जाता है और अनेक मायाएँ रचनी पड़ती हैं। यह माया छिपी नहीं रहती इसके मालूम होने पर लोग माया करने वाले का तिरस्कार करते हैं।

**लोभ :—** लोभ को पाप का बाप कहा है ( लोभ पापकर मूल )। इससे सब गुणों का नाश होता है। लोभ का कभी अंत नहीं होता। ज्यों-ज्यों वस्तु की प्राप्ति होती है लोभ बढ़ता ही जाता है। लोभवश आदमी बड़ी से बड़ी हिंसा करने पर उतारू हो जाता है। लोभ का चश्मा पहनकर मनुष्य छोटे व्यक्तियों को भी बड़ा समझने लगता है और उनके पास अनेक प्रकार की याचना कर अपने जीवन को सन्तापमय बना लेता है।

इस प्रकार कषाय ही संसार की जड़ है “मूलं हि संसार वरोः कषायाः । विषय तथा प्रमाद कषाय के सहचर हैं ।

# श्रद्धाधिकार

## शास्त्रगुण

ऊपरी शास्त्राभ्यास

शिलातलाभे हृदि ते वहन्ति, विशन्ति सिद्धान्तरसा न चान्तः ।

यदत्र नो जीवदयार्द्रता ते, न भावनांकूरततिश्च लभ्या ॥१॥

अर्थ :—तेरा हृदय पत्थर के समान सपाट है सिद्धान्त-जल उसके ऊपर से बहता हुआ भी तेरे अन्दर प्रवेश नहीं करता । इस कारण तेरे हृदय में जीवदयारूप नमी नहीं है । अतः भावना रूप अंकुर भी नहीं उगते ॥१॥

विवेचन :—साधुजी के व्याख्यान अथवा शास्त्र-अभ्यास का मनुष्यों के हृदय पर प्रभाव थोड़ी ही देर रहता है और फिर भिद जाता है । जिस प्रकार सिला पर पानी पड़ने पर भी थोड़ी देर में शिला सूख जाती है, उसी प्रकार शास्त्र-श्रवण का भी असर साधारण मनुष्यों के हृदयों पर थोड़ी ही देर रहता है । जब तक श्रोता की जिज्ञासु प्रवृत्ति नहीं होती तब तक उसको शास्त्र-श्रवण कोई लाभ नहीं करता । क्योंकि वे जिज्ञासु हुए और उन पर सिद्धान्त-जल पड़ा क्योंकि मन्त्रीभावना रूप पौधा उगता है । इस प्रकार वर्तने पर तत्त्व संवेदना [ज्ञान] प्राप्त होता है । तभी शास्त्र पढ़ने का लाभ है । परन्तु इस लोक में लोग बहुधा दिखावे के लिये शास्त्राभ्यास करते हैं । लेकिन आगम अभ्यास या पढ़ने मात्र से फल नहीं देते, वरन् उनके अनुसार आचरण करने पर वे फल देते हैं

शास्त्र पढे लिखे प्रमादी को आदेश

यस्यागमाम्भोदरसैर्न धौतः प्रमादपङ्कः स कथं शिवेच्छुः ।

रसायनैर्यस्य गदाः क्षता नो, सुदुर्लभं जीवितमस्य नूनम् ॥२॥

अर्थ :—जो प्राणी प्रमाद रूपी कीचड़ को सिद्धान्त रूपी वर्षा के जल प्रवाह से नहीं धोता वह कैसे मुमुक्षु (मोक्ष की इच्छा वाला) हो सकता है ? जिस प्राणी की व्याधिरसायन से भी दूर नहीं होती उसका जीवन बचेगा नहीं, ऐसा समझना चाहिये ॥२॥

भावार्थ : शास्त्र में आठ प्रकार के प्रमाद\* कहे हैं। (१. संशय, २. विपर्यय (उलटा ज्ञान), ३. राग, ४. द्वेष, ५. मतिभ्रंश, ६. मन, वचन और काया के योग से दुःप्रणिधान, ७. धर्म का अनादर ८. अज्ञान) यदि शास्त्र श्रवण करने से ये आठ प्रकार के प्रमाद नष्ट नहीं होते हैं तो जीव को अनन्त काल तक भव-भ्रमण करना ही पड़ेगा, ऐसा समझना चाहिये ? जहां प्रमाद है वहां कार्य-सिद्धि नहीं। साधु जीवन में भी प्रमत्त अवस्था अधःपतन कराती है और साध्य मार्ग को लम्बा करती है।

प्रमाद अवस्था दूर करने के लिए शास्त्राभ्यास की आवश्यकता है। शास्त्राभ्यास से स्वयं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है तथा साध्य बिन्दु क्या है और उसको प्राप्त करने का क्या उपाय है आदि बातों का ज्ञान होता है। परन्तु ये अभ्यास भी मननपूर्वक कार्य करने में परिणत होना चाहिये और यदि अभ्यास करके मनन पूर्वक कार्य नहीं किया तो सब क्रिया निष्फल है, और मोक्ष प्राप्ति जो जीवन का साध्य है प्राप्त नहीं होती। अतएव शास्त्राभ्यास से प्रमाद दूर कर मनन पूर्वक ध्येय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिये।

स्वपूजा के लिए शास्त्राभ्यास करने वालों के लिये  
अधीतिनोऽर्चादिकृते जिनागमः प्रमादिनो दुर्गतिपापतेमुर्धा ।  
ज्योतिर्विमूढस्य हि दीपपातिनो, गुणाय कस्मै शलमस्य चक्षुषी ॥३॥

अर्थ : दुर्गति में पड़ने वाला प्राणी अपनी प्रतिष्ठा के लिये जैन शास्त्र का अभ्यास करता है। यह निष्फल है। जिस प्रकार पतंगा

\* प्रमाद पाँच प्रकार के भी बताये हैं—वे ये हैं —१. मद्य, २. विषय, ३. कपाय, ४. विक्रया, ५. निद्रा, इनका रूप छठे अधिकार में दिया है।

दीपक की ज्योति से मुग्ध होकर दीपक में पड़ता है तो उसे ऐसी आँखों से क्या लाभ ?

भावार्थ: आँखों के बिना यह जीवन दुःखमय है। यदि उन्हीं आँखों का दुरुपयोग जीवन का नाश करे तो ऐसी आँखें व्यर्थ हैं। इसी प्रकार शास्त्राभ्यास दुर्गति का नाश करता है। पर यदि वही अभ्यास अपनी पूजा सत्कार के लिये की जावे तो वह निष्फल ही नहीं अपितु हानिकारक ही है। शास्त्राभ्यास का अर्थ है प्रमाद हटाना और सद्गति प्राप्त करना, पर इसके बदले मनुष्य अपनी वाहवाही की इच्छा प्राप्ति अथवा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है तो शास्त्रकार इसको हानिकारक ही मानते हैं। क्योंकि वह मनुष्य को उसके लाभ (मोक्ष) से दूर ले जाती है। जब तक मनुष्य का ज्ञान उसे यह नहीं बताता कि वह कौन है, उसका कर्तव्य और लक्ष्य क्या है, तब तक वह ज्ञान नहीं, अज्ञान है।

परलोक-हित-वृद्धि के विना अभ्यास करने वालों के प्रति  
मोदन्ते बहुतर्कवितर्कणाः केचिजयाद्वादिनां,

काव्यैः केचन कल्पितार्थघटनैस्तुष्टाः कविख्यातितः ।

ज्योतिर्नाटकनीति-लक्षणधनुर्वेदादिशास्त्रैः परे,

ब्रूमः प्रेत्य हिते तु कर्मणि जडान् कुक्षिम्भरीनेव तान् ॥४॥

अर्थ :—कितने ही अभ्यासी बहुत प्रकार के तर्क वितर्क करने में प्रसिद्धि प्राप्त कर वादियों को जीतने में आनन्द मानते हैं। कई कल्पना करके काव्य रचना कर कवि के रूप में ख्याति प्राप्त करने में आनन्द मानते हैं। कोई ज्योतिष शास्त्र, नाट्य शास्त्र, नीति शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, धनुर्वेद आदि शास्त्रों का अभ्यास करके प्रसन्न होते हैं। परन्तु आने वाले भव के लिये हितकारी कार्य की ओर अनजान ही रहते हैं। ऐसे पुरुषों को हम तो पेट भराई करने वाले ही समझते हैं ॥४॥

भावार्थ:—अनेक पुरुष उद्योग से, गुरु कृपा से, क्षयोपशम से अथवा उपरोक्त ढंग से विद्वत्ता प्राप्त कर प्रसन्नता मानते हैं, पर वे परभव का कुछ भी ध्यान नहीं करते और न परभव में हितकारी धर्मानुष्ठान करते हैं।

ऐसे लोग केवल देखने में धार्मिक हैं। यथार्थ में वे पेट भराई करने वाले ही हैं।

सम्यग्-दृष्टि वाले के लिये जो मतिज्ञान है वही मिथ्या दृष्टि वाले के लिये 'मति अज्ञान' है। इसी प्रकार से जो ज्ञान शास्त्राभ्यास से प्राप्त होता है वह पात्रानुसार श्रुत ज्ञान अथवा श्रुत अज्ञान होता है। अर्थात् ज्ञान तो दोनों ही हैं, परन्तु जिस ज्ञान से आत्म-वृत्ति नहीं होती तो वह अज्ञान ही है। अज्ञान कषाय यदि शत्रुओं से भी बुरा है। विद्वान् होना या शास्त्रार्थ में निपुण होना इसमें कोई खुशी की बात नहीं, परन्तु वास्तविक खुशी तो आत्मिक वृत्ति में है। अन्यथा उसका ज्ञान केवल उदरपूर्ति के लिये है जो जीव को संसार में भटकाने वाला है ?

शास्त्र पढकर क्या करना ?

किं मोदसे पण्डितनाममात्रात्, शास्त्रेष्वधीती जनरञ्जकेषु ।  
तत्किञ्चनाधीष्व कुरुष्व चाशु, न ते भवेद्येन भवाब्धिपातः ॥५॥

अर्थ :—लोक रंजक शास्त्रों का अभ्यास कर तू पण्डित नाम से क्या प्रसन्न होता है ? तू कोई ऐसा अभ्यास या अनुष्ठान कर जिससे तुझे संसार-समुद्र में न गिरना पड़े ॥५॥

भावार्थ :—ऊपर सब बातें स्पष्ट हैं। शास्त्राभ्यास मात्र से प्रसन्न होना काफी नहीं है, उसके अनुसार आचरण भी करना चाहिये। जीवन में दान, शील, तप, भावना अथवा शुद्ध व्रतन, अनुकंपा और पवित्र प्रकट होने चाहियें। शास्त्राभ्यास से कीर्ति प्राप्त हो तो होवे, परन्तु इसे प्राप्त करने की वृत्ति नहीं रखनी चाहिये। तुमको आध्यात्मिक जीवन के उच्चस्थान या उच्च गुणस्थान प्राप्त करने की ओर प्रवृत्ति पैदा करने में लगना चाहिये। यही अभ्यास का फल है।

ज्ञान दो प्रकार का होता है एक तो मस्तिष्क को परिष्कृत बनाना (Mental training) अर्थात् भाषण या वाद-विवाद का हेतु, जो आध्यात्मिक चिंतन में निरर्थक समझा जाता है। दूसरा हृदय-सुधार या आत्म-

परिणतिमत् ज्ञान (Moral training) है। इस ज्ञान से मनुष्य कार्य और अकार्य को समझता है, वह सदा शुद्ध मार्ग की ओर चलता है, उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है और एक समय ऐसा आ जाता है कि वह भव-समुद्र से तर जाता है।

शास्त्राभ्यास करके संयम रखो

धिगागमैर्माधसि रञ्जयन् जनान्, नोधच्छसि प्रेत्यहिताय सयमे ।  
दधासि कुक्षिम्मरिमात्रतां मुने, कृते क्वान्तु क्वेष च ते भवान्तरे ॥६॥

अर्थ :- हे मुनि ! सिद्धान्तों के अभ्यास से लोगों का मनोरंजन करके तू खुश होता है, और अपने आमुष्मिक हित (आत्म परिणति) सुधारने का यत्न नहीं करता, इसलिये तुझे धिक्कार है ! तू केवल पेट भरने का उपाय जानता है, पर हे मुने ! तू थोड़ा विचार कर कि भवान्तर में ये आगम कहीं जाँयगे, तेरे मनोरंजन और संयम का क्या फल होगा ? ॥६॥

भावार्थ :- शास्त्राभ्यास कर यदि संयम नहीं रखा तो अभ्यास केवल उदरपूर्ति तथा लौकिक वाद-विवाद का साधन होने के कारण व्यर्थ है। उसका यह भव और परभव दोनों बिगड़ जाते हैं। अभ्यास का उद्देश्य आत्म-परिणति (सुधारना) है। यदि यह प्राप्त नहीं हुआ तो अभ्यास, आगम तथा संयम पालन सब निष्फल हैं। जिसका परिणाम यह होगा कि तेरी जीवन नैया भव-समुद्र में डूब जायगी। थोड़े दिनों तक ही रहने वाले मान या यश के प्राप्ति की इच्छा आदि मनोविकारों की वृत्ति के लिये तू अपना बहुमूल्य समय शास्त्राभ्यास में मत नष्ट कर।

केवल अभ्यास करने वाला और अल्प-अभ्यासी  
परन्तु साधक इन दोनों में श्रेष्ठ कौन ?

धन्याः केऽप्यनधीतिनोऽपि - सदनुष्ठानेषु वद्धादरा,  
दुःसाध्येषु परोपदेशलवतः श्रद्धान् शुद्धाशयाः ।  
केचत्वागमपाठिनोऽपि दधतस्तत्पुस्तकान् येऽलसाः  
अत्रामुत्रहितेषु कर्मसु कथं ते भाविनः प्रेत्यहः ॥ ७ ॥

अर्थ : कितने ही व्यक्ति शास्त्रों का अभ्यास न करने पर भी दुर्लभ आचार्यों के उपदेश से शुभ अनुष्ठान को अपनाते हैं और श्रद्धा पूर्वक शुद्ध आशय वाले होते हैं वे धन्य हैं। कितने ही पुरुष तो आगमशास्त्र के अभ्यासी होते हैं, पुस्तकों को अपने समीप रखते हैं, तब भी वे इस भव और परभव के हितकारी आचारणों में प्रमादी होते हैं। ऐसे पुरुष परलोक को बिगाड़ लेते हैं। विचार करना चाहिये कि उनकी क्या गति होगी ? ॥७॥

विवेचन :—विद्या-प्राप्ति और मुक्ति-प्राप्ति में क्या सम्बन्ध है यह देखना है। विद्वान् को मोक्ष मिल ही जावे यह संदेहरहित नहीं है। हों सदा-चरण या अभ्यास के साथ सरलता और सद्वर्तन होना मोक्ष दिलाने वाला है, इसमें संदेह नहीं। देव, गुरु और धर्म में शुद्ध श्रद्धा, शुद्ध वर्तन और सौम्य प्रकृति प्राप्त करने वाले बहुत से भद्रीक जीव संसार से तर गये हैं। विचार तथा वर्तन के शुद्ध होने से ज्ञानी पुरुष जल्दी भव के पार हो जाता है। अज्ञानी पुरुष करोड़ों वर्षों में जो कर्म-क्षय करता है वह ज्ञानी श्वासोच्छ्वास में पूरा कर सकता है। ज्ञानी पुरुष इतनी सुविधा होने पर भी यदि प्रमाद अथवा आढम्बर करता है या बाह-वाही की इच्छा रखता है तो वह बहुत हानियाँ उठाता है। ज्ञानी के पास एक क्षण में कर्मों के क्षय करने की शक्ति होती है तो तीव्र कर्म-बन्धन और उत्तरदायित्व का खतरा भी उसके सिर पर होता है।

मुग्ध-वृद्धि व पड्डित

धन्यः स मुग्धमतिरप्युदितार्हदाज्ञा-

रागेण यः सृजति पुण्यमदुर्विकल्पः ।

पाठेन किं व्यसनतोऽस्य तु दुर्विकल्पै-

र्यो दुःस्थितोऽत्र सदनुष्ठितिषु भ्रमादी ॥८॥

अर्थ : बुरे संकल्प न करने वाला और तीर्थकर भगवान् की प्रेरित आत्माओं को राग से पालने वाला प्राणी अभ्यास करने में मुग्ध वृद्धिवाला हो तो वह भाग्यशाली है। जो प्राणी कुविचार किया करे पर शुभ क्रिया में प्रमादी हो तो उसके अभ्यास की आदत भी निष्फल है ॥ ८ ॥

भावार्थ :—तीर्थंकर भगवान् ने जो कुछ कहा है वह सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसी सामान्य बुद्धि वाला प्राणी भी संसार-समुद्र से तर जाता है। पर जिसके विचार शुद्ध न हों, जो सांसारिक कामों में फँसा रहता हो, जो राजकथा या विकथा में आसक्त हो और शुद्ध क्रिया करने में प्रमादी हो, ऐसा विद्वान् पुरुष भी संसार-समुद्र से तर नहीं सकता। अतः जीव को शुद्ध श्रद्धा के बिना कोई लाभ नहीं होता। मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है, बुद्धि भी बहुत थोड़ी है, और अनुभव करने में समय भी बहुत लंगता है, इसलिये आप्त पुरुषों की परीक्षा कर उनके बताये मार्ग पर चलना चाहिये। आप्त पुरुषों की पहिचान उनकी वीतराग दशा, शुद्ध मार्ग-कथन, अपेक्षा की शुद्ध स्थापना, नयस्वरूप का विचार और स्याद्वाद-विचार-पद्धति द्वारा करनी चाहिये।

### शास्त्राभ्यास उपसंहार

श्रधीतिमात्रेण फलन्ति नागमाः, समीहितैर्जीव सुखैर्मवान्तरे ।

स्वनुष्ठितैः किं तु तदीरितैः खरो, न यत्सिताया वहनश्रमात्सुखी॥६॥

अर्थ :—जिस प्रकार शकर के बोझ उठाने वाले गधे को शकर से कोई लाभ नहीं उसी प्रकार आगमों के केवल अभ्यास से भवान्तर में इच्छित सुख प्राप्त नहीं होता। परन्तु उसमें बताए हुए शुभ अनुष्ठानों के करने से आगम का फल होता है।

भावार्थ : शास्त्राभ्यास सुख-प्राप्ति का एक साधन है। परन्तु शास्त्राभ्यास से सुख मिले यह आवश्यक नहीं है। आत्मिक सुख तो शास्त्रों में बताए हुए अनुष्ठानों के करने से प्राप्त होता है। जैसे गधा शकर का बोझ ढोता है परन्तु उसे शकर का स्वाद नहीं मिलता। इसी प्रकार ज्ञान भी उसका उपयोग में लाने पर ही लाभ देता है।

जो लोग भाषण देने में लोक दिशाऊ लटके करते हैं और श्रोताओं को रिभाते हैं, पर शास्त्रानुसार क्रिया नहीं करते, वे पत्थर की नाव के समान हैं, जिसमें वे आप भी डूबते हैं और साथ में बैठने वालों को भी ले डूबते हैं। इसलिये ज्ञान के साथ साथ क्रिया की भी आवश्यकता है "ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः"। प्रमादवश चौदह पूर्वधारी भी संसार



में भटकते हैं। (क्रिया से आशय केवल सामयिक तपस्या इत्यादि नहीं किन्तु शुद्धाचरण समझना चाहिये। यहाँ यह बात जानना चाहिये कि यदि विशेष अभ्यास नहीं भी किया हो परन्तु शुद्ध श्रद्धा से क्रिया की हो तब भी जीव को उच्च स्थिति प्राप्त होती है।

### चतुर्गति के दुःख

शास्त्राभ्यास करने बाद जो जानने की बात यह है कि संसार-में कहीं सुख नहीं। संसार में जीव को चार गतियों में घूमना पड़ता है। यहाँ दुःख ही दुःख है। ये गतियाँ नरक, तिर्यच, मनुष्य तथा देव की हैं।

### नरक गति के दुःख

दुर्गन्धतो यदश्रुतोऽपि पुरस्य मृत्यु-  
 रायूंषि सागरमितान्यनुपक्रमाणि ।  
 स्पर्शः खरः क्रकचतोऽतितमामितश्च,  
 दुःखावनन्तगुणितौ भृशशैत्यतापौ ॥१०॥

तीव्रा व्यथाः सुरकृता विविधाश्च यत्रा

क्रन्दारवैः सततमभ्रभृतोऽप्यमुष्मात् ।

किं भाविनो न नरकात्कुमते विभेषि,

यन्मोदसे क्षणसुखैर्विषयैः कषायी ॥११॥

अर्थ :—जिस नरक की दुर्गन्धि का एक सूक्ष्म भाग भी मनुष्य लोक के नगर के लोगों की मृत्यु का कारण होता है, जहाँ की आयुष्य सागरोपम में नपती है, जिसका स्पर्श भी करोत से ज्यादा पीखा है, जहाँ की सर्दी गर्मी का दुःख यहाँ के (मनुष्य लोक के) दुःख से अनन्तगुणा ज्यादा है, जहाँ देवता की दी हुई अनेक प्रकार की वेदना के दुःख से भरा रुदन से आकाश भरा है। इस प्रकार की नारकीय-दशा-तुम्हें भविष्य में मिलेगी-ऐसे विचारों से हे मूखे ! तू क्यों-नहीं डरता ? और कषाय करके थोड़े सुख देने वाले विषयों का सेवन कर आनन्द मानता है।

विवेचनः नरक की थोड़ी सी दुर्गन्धि से भी इस मनुष्य लोक के एक शहर का नाश हो सकता है। मनुष्य की आयु महाभारी, शस्त्राघात आदि से नष्ट हो जाती है। परन्तु नारकीय जीवों की आयुष्य किसी भी कारण से नहीं टूटती। यदि शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिये जावें तब भी वे पारे की तरह एक हो जाते हैं, और उनकी उभ्र सागरोपम गिनी जाती है। इतनी बड़ी आयु, पर उसमें दुःख ही दुःख और सुख तो एक क्षण भी नहीं। नरक की पृथ्वी भी करोती के समान तीक्ष्ण होती है और वहां की सर्दी तथा गर्मी भी असह्य होती है। वहां का ताप इतना अधिक होता है कि वहाँ के जीव को निकाल कर वहां अग्नि में डाल दिया जावे तो वह वहाँ की तुलना में शान्ति अनुभव करेगा। फिर परमाधरमी देव वेदना अलग देता है। इसके उपरान्त दूसरे देव भी जीवों से अपना वैर निकालते हैं, वे भी दुःख देते हैं। नारकी के जीव आपस में भी बहुत कट-कट कर मरते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख कर हे जीव ! तू नरक से डर और क्रोध, अहंकार, कपट, लोभ और विषयों में आसक्त मत हो, क्योंकि ये ही सब नरक के कारण हैं।

तिर्यंच गति के दुःख

बन्धोऽनिशं वाहनताडनानि, क्षुत्तृडुुरामातपशीतवाताः ।

निजान्य जातीयभयापमृत्युदुःखानि तिर्यक्ष्विति दुस्सहानि ॥१२॥

अर्थ —निरन्तर बन्धन, भार वहन, अति जूधा, भूख, व्यास, रोग, सर्दी गर्मी अपनी और दूसरे जाति के जीवों से भय और कुमति आदि अनेक दुःख तिर्यंच गति में होते हैं ॥१२॥

भावार्थ :—पशु पक्षी आदि समस्त चलने फिरने वाले जीव तीर्यंच गति में हैं। इनको कितना दुःख है, वे रात दिन देखते हैं। वे हरदम बंधे रहते हैं, वे सर्दी गर्मी और पानी से अपना बचाव नहीं कर सकते।

देव गति के दुःख

मुधान्यदास्याभिभवाभ्यसूयाभियोऽन्तगर्भस्थिति दुर्गतीनाम् ।

एवं सुरेष्वप्यसुखानि नित्यं किं तत्सुखैर्वा परिणामदुःखैः ॥१३॥

अर्थ :—इन्द्रादि की निष्कारण सेवा करना, पराभव, मत्सर, अल्प अवधि, गर्भस्थिति और दुर्गति का भय, इस प्रकार के देवगति में निरंतर भय होते हैं। जिसके अन्त में दुःख है वह सुख क्या ? ॥१३॥

भावार्थ :

- (१) मनुष्यलोक में मनुष्य उदरपूर्ति के लिये सेवा करता है पर देवलोक में बिना कारण इन्द्र की चाकरी करनी पड़ती है।
- (२) अपने से बलवान देव पराये देव की स्त्री को ले जाते हैं।
- (३) एक देव दूसरे देव की बड़ाई या सुख देखकर ईर्ष्या करता है।
- (४) देवों की मृत्यु से ६ महीने पहले उनकी फूलमाला कुम्हला जाती है। इससे वे अपनी मृत्यु का समय निकट जान बहुत दुःखी होते हैं।
- (५) मरने के पीछे गर्भ में रहने का दुःख और अशुचि अवस्था में रहने तथा तिर्यच गति में जाने का दुःख।
- (६) देव गति छोड़कर नीच गति में जाने का दुःख।

इस प्रकार देव गति में भी सुख नहीं। वहाँ भी आपस में कलह चलता रहता है, इससे चिन्ता बनी रहती है। जिस सुख के अन्त में दुःख हो वह सुख नहीं।

मनुष्य गति के दुःख

सप्तभीत्यभिमवेष्ट विप्लवानिष्टयोगगददुःसुतादिभिः ।

स्याच्चिरं विरसता नृजन्मनः, पुण्यतः सरसतां तदानय ॥१४॥

अर्थ.—सात भय, अपमान, प्रिय वियोग, अप्रिय का संयोग, व्याधि, आज्ञा न मानने वाला पुत्र आदि के कारण से मनुष्य जन्म भी दुःखी हो जाता है। इसलिये पुण्य से मनुष्य जन्म में मीठापन प्राप्त करो ॥ १४ ॥

भावार्थ :—मनुष्य जन्म में सात भय बड़े हैं। (१) इस लोक का भय, (२) परलोक का भय, (३) चोरी का भय, (४) कोई अचानक

भय, (५), अजीविका का भय, (६) मृत्यु-भय, (७) और अपकीर्ति का भय। इसके अतिरिक्त दूसरे भी भय हैं। राजा की ओर से भय, पुत्र अथवा किसी प्रिय की मृत्यु का भय, स्त्री, धन, कीर्ति के नाश का भय आदि अनेक भय हैं। इस प्रकार अनेक भय हैं फिर भी मनुष्य इस-संसार में मस्ती से जीवन बिताता है। मनुष्य को चेतना चाहिये। पुण्योपार्जन कर इन भयों को सुख में परिवर्तित करना चाहिये।

### उपरोक्त स्थिति का परिणाम

इति चतुर्गतिदुःखततीः कृतिन्नतिप्रयास्त्वमनन्तमनेहसम् ।

हृदि विभाव्य जिनोक्तकृतान्तसः, कुष तथा न यथा स्युरिमास्तव ॥१५॥

अर्थ :—इस प्रकार अनन्त समय से सहन करी हुई और अत्यन्त भय देने वाली इन चार गतियों के दुखों को केवली भगवान् के बताए हुए सिद्धान्त से हृदय में विचार कर हे विद्वानो ! ऐसा करो जिससे ये पीड़ाएँ फिर न आवें ॥ १५ ॥

भावार्थ :—सांसारिक पीड़ा जानकर विचार कर, उनका परिणाम ऐसा है यह सोचकर ऐसा पुरुषार्थ कर जिससे भविष्य में ऐसी पीड़ा न हो। सब प्राणी कल्पित सुख के पीछे दौड़ते हैं। पर सिद्धान्त के अनुसार वास्तविक रीति से सोचने पर ह्यान होता है। इस संसार में सुख है ही नहीं। इसलिये जीव का कर्तव्य है कि वह शास्त्र द्वारा संसार की सब गतियों में कैसे कैसे दुःख होते हैं जाने और चतुर्गति दुःख नहीं होवे ऐसा कार्य करे। ये सब बातें शास्त्र से ज्ञात होती हैं।

भावार्थ :—चारों गतियों में भी सुख नहीं है यह हमने देखा। यह संसार दुःखभय है; जो कुछ भी सुख है, वह माना हुआ और क्षणिक है। ये सब बातें शास्त्राभ्यास से जानो। और इन सब बातों को सोचकर ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे ये दुःख फिर न हों।

सब अधिकार का उपसंहार

आत्मन् परस्वमसि साहसिकः श्रुताक्षै-  
 र्यद्भाविनं चिरत्तुर्गतिदुःखराशिम् ।  
 पश्यन्नपीह न विभेषि ततो न तस्य,  
 विच्छिद्यते च यतसे विपरीतकारी ॥ १६ ॥

अर्थ:—हे आत्मा ! तू तो बड़ा जबरदस्त साहसिक है, क्योंकि भविष्य में होने वाली चारों गतियों के दुःख को ज्ञान-चक्षु से देखकर भी उनसे नहीं डरता, बल्कि उसके विपरीत आचरण करता है, और दुःख-नाश का कोई उपाय नहीं करता ॥ १६ ॥

भावार्थ:—तूने चारों गतियों में दुःख का अनुभव किया है, भोगा है, सुना है, और ज्ञान-चक्षुओं से देखा है। इतना होने पर भी उनका अन्त करने का तू प्रयत्न नहीं करता तो तेरी समझदारी व्यर्थ है।

X X X X

इस सबका सार यह है कि शास्त्रों को पढ़ना चाहिये और तदनुसार वर्तना चाहिये। जब मनुष्य किसी वस्तु को देखता है तो उसे विषय प्रतिभास ( ) ज्ञान ( ) होता है। अर्थात् उसे वस्तु का स्वरूप दीखता है, और उसके गुणों को जानता है। परन्तु जब तक तत्त्वसंवेदना ज्ञान न हो और उसका बताए हुए उपाय के अनुसार वर्तन न हो और क्या हेय, ज्ञेय और उपादेय है यह नहीं जानता और तदनुसार क्या त्याग्य है और क्या आदर्शनीय यह नहीं जानता तब तक सब व्यर्थ है, और जीव भी उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होता। ज्ञान प्राप्त कर चारों गतियों का वास्तविक रूप क्या है यह जानना तथा इस विषय पर विचार करना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है।

इस संसार की विषय वासना तथा इच्छाओं को कम करो, इन्द्रियों को वश में रखो, मन को वश में रखो, यह सब जैन सिद्धान्त का सार है। इस संसार का सब सुख माना हुआ है, वास्तविक सुख तो है ही नहीं ॥

# नवगाधिकार

## मनोनिग्रह

अब तक के अधिकारों में, समता, इन्द्रियों पर अंकुश रखना, प्रमाद, कषाय-त्याग करने का जो उपदेश दिया है, उन सब का मतलब मन पर अंकुश रखना है। जो भी धार्मिक क्रिया की जावे पर मन पर अंकुश न हो तो वह अल्प फल देती है। इसी प्रकार यदि पाप कार्य भी किया जावे पर मन पर अंकुश हो तो अल्प दोष लगता है। इस से मन पर अंकुश रखने की महत्ता का ज्ञान होता है।

मनधीवर का विश्वास मत करो

कुकर्मजालैः कुविकल्पसूत्रजैर्निवध्य गाढं नरकाभिमिश्रिणम् ।

विसारवत् पश्यति जीव ! हे मनः कैवर्त्तिकस्वामिति मास्य विश्वसीः ॥१॥

अर्थ :—हे चेतन ! मनधीवर (मछलीमार) कुविकल्प रूपी डोरियों से बना हुआ कुकर्मरूपी जाल डाल कर तुझे भजयूती से बाँधकर देर तक मछली की तरह तुझे नरकामि में भूजेगा। इसलिये इस मन का विश्वास नहीं करना ॥ १ ॥

भावार्थ :—हे चेतन ! तू जानता है कि मन तेरा है पर वास्तव में यह मन तेरा नहीं है। यह मन तो एक मछली पकड़ने वाला है जो तुझे जाल में डाल कर पकड़ना चाहता है और जो फिर तुझे नरक की अग्नि में डाल कर भूजेगा। इसलिये हे मछलीरूपी जीव, तू मन का विश्वास मत कर। जिस प्रकार खाने की इच्छा से मछली जाल में फँस जाती है और फिर वापस नहीं निकल सकती। इसी तरह अज्ञानी जीव मनधीवर के जाल में फँस जाता है और फिर वापस नहीं निकल सकता। इसी तरह कुविकल्प रूपी डोरों से बने हुए जाल में तेरे

जीव को मन धीवर फँसा लेता है। मन के कुविकल्प को देखना हो तो प्रतिक्रमण के समय या गुरु महाराज के व्याख्यान के समय देखना चाहिये कि वह कहाँ कहाँ चला जाता है। इसलिये मन का विश्वास नहीं करना। मन का विश्वास करने वाले को नारकीय दुःख भोगने पड़ते हैं और इस लोक में भी उसकी कार्य-सिद्धि नहीं होती।

मन को मित्र समान अनुकूल होने की प्रार्थना

चेतोऽर्थये मयि चिरत्नसख प्रसीद,  
 किं दुर्विकल्पनिकरैः क्षिपसे भवे माम् ।  
 पद्मोऽञ्जलिः कुरु कृषी भजे सद्विकल्पान्;  
 मैत्रीं कृतार्थय यतो नरकाद्भिमेमि ॥२॥

अर्थ : हे मन ! तू मेरा पुराना मित्र है। मैं तुझ से प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझ पर कृपा कर और मुझे बुरे संकल्प करा कर संसार चक्र में मत डाले। मैं तुझसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि मुझे पर कृपा कर, मुझ में अच्छे विचार ला और अपनी पुरानी मित्रता सफल कर। कारण कि मैं नरक से डरता हूँ ॥२॥

भावार्थ : गन का विश्वास तो नहीं करना चाहिये यह तो ठीक है, फिर भी जीव मन को समझता है और हाथ जोड़ कर कहता है कि हम दोनों तो पुराने दोस्त हैं (जब से संज्ञी पंचेन्द्रिय योनि में जीव पैदा होता है तब से उसके साथ मन होता है), फिर तू खराब संकल्प कराकर मुझे संसार में क्यों घुमाता है ? कृपा कर बुरे संकल्प बंद कर और नरक से बचा, मुझे नरक से बहुत भय लगता है।

मन पर अंकुश रखने का उपदेश

स्वर्गापवर्गौ नरकं तथान्तमुर्द्ध्वमाप्त्रेण वशावशं यत् ।  
 ददाति जन्तोः संततं प्रयत्नाद्वशं तदन्तःकरणं कुरुष्व ॥३॥

अर्थ :—वश में किया हुआ अथवा वेवस मन क्षण भर में जीव को स्वर्ग, मोक्ष अथवा नरक में भेज देता है। इसलिये मन को जल्दी से वश में करो ॥३॥

भावार्थ :- मन का विश्वास नहीं करना चाहिये, क्योंकि यह दुर्विकल्प बहुल करीब है। इसलिये इस पर अंकुश रखना चाहिये। अंकुश में रखा हुआ मन मोक्ष सुख अथवा देव-सुख आसानी से दिला सकता है। बिना अंकुश के मन की प्रवृत्तियों से दुःख पर दुःख आते हैं ॥४॥

दृष्टान्त : राजर्षि प्रसन्नचन्द्र ने अपने बालक पुत्र को मन्त्रियों के विश्वास पर राजगद्दी पर बैठा कर दीक्षा ले ली और घोर तपस्या में लीन हो गये। तपस्या करते हुए उन्होंने सुना कि मन्त्रियों ने धोखा देकर राज्य ले लिया। इस प्रकार मन की प्रबल प्रेरणा से अपने पुत्र प्रेम के कारण मन्त्रियों से मन ही मन युद्ध करने लगे। और ज्योंही मन्त्रियों का मारने का हाथ उठाया तो सिर पर मुकट नहीं देख उनको ध्यान आया कि मैं तो साधु हूँ मुझे युद्ध से क्या काम। इतना ध्यान आते ही वे चेतें और मन को फिर वश में किया और पल भर में सब कर्मों का क्षय कर केवलज्ञान प्राप्त किया। जो कार्य असंख्य भवों में नहीं हो सकता वही मन की वश में कर एक क्षण में कर लिया। कहा है "मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोः" अर्थात् मन ही जीव को अनन्त भव में घुमाने वाला अथवा मोक्ष दिलाने वाला है। इसी प्रकार एक कहानी तन्दुल मत्स्य की भी आती है। एक छोटा सा तन्दुल मत्स्य एक मगरमच्छ की आँख की पपड़ी के अन्दर बैठा देखता था कि मगरमच्छ मछलियों का भक्षण करने के लिये मुँह में पानी लेता और जब मुँह बंद करता तो छोटी मछलियों मगरमच्छ के दौंठों से बाहर निकल जातीं। तब वह आँखों की पलकों में बैठा तन्दुल मत्स्य मन में कहता कि यदि मैं इस मगर के बराबर मोटा होता तो मैं मुँह में से एक मछली को भी बच कर नहीं जाने देता। वह तन्दुल मत्स्य इन्हीं भावनाओं से भर कर सातवें नरक में ३३ सागरोपमा की आयु वाला नारक हुआ। इसी प्रकार जीरण सेठ ने भगवान् महावीर की पारणा कराने की भावना भाई तो १२ वीं देवलोक प्राप्त किया। यदि थोड़ी देर में दुन्दुभी नहीं बजती तो वह अपनी बढ़ती भावना से मोक्ष प्राप्त कर लेता।



ऊपर के तीन दृष्टान्तों से ज्ञात होगा कि भावना से मनुष्य नरक, स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिये जिसे अपना भव सुधारना हो वह अपना मन वश में करे।

संसार भ्रमण का हेतु मन

सुखाय दुःखाय च नैव देवा, न चापि कालः सुहृदोऽरयो वा ।  
भवेत्परं मानसमेव जन्तोः संसारचक्रभ्रमणैकहेतुः ॥४॥

अर्थ :—देवता मनुष्य को सुख या दुःख नहीं देते। इसी प्रकार काल, मित्र या शत्रु भी सुख या दुःख नहीं देते। मनुष्य को संसार-चक्र में घुमाने वाला एकमात्र मन है ॥४॥

भावार्थ : सुख दुःख तो प्राणी को होता ही रहता है। तब हम कहते हैं कि किसी देव ने क्रोध किया है। अथवा कहते हैं कि अपने अधिष्ठापक देव ने दुःख-सुख दिया है। या कहते हैं कि दिन-मान खराब है। अथवा अमुक मित्र या शत्रु ने हमारे साथ भला या बुरा किया। पर वास्तव में यह सब कल्पनामात्र है। शास्त्रकार कहते हैं कि

“सुख दुःख कारण जीव ने, कोई अवर न होय  
कर्म आ प जे आचर्या, भोगवीये सोय”

ये सब सुख-दुःख कर्माधीन हैं। सुख-दुःख देने वाला कोई दूसरा नहीं। यह संसार एक चक्र के समान है जिसे एक बार जोर से धक्का दे दिया तो फिर चलता ही रहता है। इसे रोकना बड़ा ही मुश्किल है। जब मन को वश में करते हैं तब ही बड़ी मुश्किल से रुकता है। एके धार मन अच्छी तरह वश में आया नहीं कि मोक्ष सरल हो जाता है।

मनोनिग्रह और यम नियम

धरं मनो यस्य समाहितं स्यात्, किं तस्य कार्यं नियमैर्यमैश्च ।  
हतं मनो यस्य च दुर्विकल्पैः, किं तस्य कार्यं नियमैर्यमैश्च ॥५॥

यदि प्राणी का मन समाधि में हो या अपने वश में हो तो उसे

यम नियम की क्या जरूरत और जिसका मन दुर्बिकल्पों से भरा हो तो उसे यम नियम से क्या मतलब ? ॥५॥

विवेचन : जिसका मन दुःख में या सुख में एकसा रहता है और विचलित नहीं होता उसे यम-नियम की कोई जरूरत नहीं। ऐसे मन वाले पुरुष महात्मा होते हैं। उनका मन स्वभाव से ही स्थिर रहता है। जिनके मन में संकल्प विकल्प उठते रहते हैं उनको यम-नियम से कोई लाभ नहीं। इसलिये यम-नियम से लाभ उठाने वालों को अपने मन को वश में करना चाहिये।

टीकाकार ने नियम इस प्रकार बताये हैं। (१) फाया और मन की शुद्धि शौच, (२) संतोष, (३) स्वाध्याय, (४) तप, (५) देवता प्रणिधान। यम भी पाँच हैं (१) अहिंसा (२) [सत्य] सूतृत, (३) अस्तेय, (४) ब्रह्मचर्य, (५) अकिंचनता-अपरिग्रह।

विना दान आदि धर्म के मनोनिग्रह निष्फल

दानश्रुतध्यान तपोऽर्चनादि, वृथा मनोनिग्रहमन्तेरण।

कषाय-चिन्ताकुलतोन्मितस्य, परो हि योगो मनसो वशत्वम् ॥६॥

अर्थ :—मनोनिग्रह विना दान, ज्ञान, ध्यान, तप, पूजा आदि सब साधन व्यर्थ हैं। कषाय से होने वाली चिन्ता तथा आकुल-व्याकुलता रहित ऐसे प्राणी के लिये मन वश करना ये महायोग है ॥६॥

विवेचन :—दान पाँच प्रकार के हैं : किसी जीव को मरने से बचाना अभयदान, योग्य पात्र देखकर उचित वस्तु देना सुपात्रदान, दीन दुखी को देखकर दान देना अनुकम्पा दान, सगे सम्बन्धी को आवश्यकतानुसार देना उचित दान, अपनी इज्जत के लिये दान कीर्ति दान; इनमें प्रथम दो दान उत्तम हैं।

ज्ञान अर्थात् शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना, श्रवण मनन आदि ;

ध्यान अर्थात् धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान आदि ;

तप अर्थात् कर्मों की निर्जरा करने वाले तप ;

पूजा अर्थात् तीन, पाँच, आठ, सत्तर, इक्कीस, एक सौ आठ प्रकार की द्रव्य पूजा—

यदि मन वश में नहीं तो ये सब अनुष्ठान उत्तमता पूर्वक किए जाने पर भी निकाम हैं। अतएव मन को वश में रखो।

जिसने मन को त्रश में किया उसने सब कुछ किया  
जपो न मुक्त्यै न तपो द्विभेदं, न संयमो नापि दमो न मौनम् ।  
न साधनाद्यं पवनादिकस्य किं त्वेकमन्तःकरणं सुदान्तम् ॥७॥

अर्थ :—जप करने से मोक्ष नहीं मिलता, न दो प्रकार का तप करने से। उसी प्रकार संयम, दम, मौनधारण अथवा पवनादिक की साधना से भी मोक्ष नहीं मिलता, परन्तु अच्छी तरह से वश में किया हुआ अकेला मन मोक्ष दे सकता है ॥७॥

विवेचन :—ऊपर के श्लोक का अर्थ स्पष्ट है। ओंकार या नवकार आदि का जप करो; उपवास करो, ध्यान करो, कोई भी धार्मिक क्रिया करो, परन्तु जब तक मन को वश में नहीं किया तब तक ये सब क्रियाएँ निरर्थक हैं। मन को वश में करना बहुत कठिन है। जिसने मन को साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। मोक्ष साधन भी इससे सरल हो जावा है।

जो मन के वश हुआ वही डूबा

लब्धापि धर्मं सकलं जिनोदितं, सुदुर्लभं पोतनिभं विहाय च ।

मनः पिशाचग्रहिणीकृतः पतन्, भवाभ्युधौ नायतिद्य् जडो जनः ॥८॥

अर्थ : संसार-समुद्र में भटकता हुआ प्राणी बड़ी कठिनता से तीर्थकर भाषित धर्म रूपी जहाज के प्राप्त होने पर भी यदि मन पिशाच के आधीन होकर जहाज को छोड़ देता है और संसार-समुद्र में पड़ जाता है, वह भूख दूरदर्शी नहीं ॥८॥

विवेचन : जिस प्रकार कोई मनुष्य समुद्र की बीच धारा में पड़ता हुआ जहाज का अवलंब छोड़ दे तो वह समुद्र पार नहीं कर सकता। उसी प्रकार संसार-समुद्र को पार कर मोक्ष जाने का

अभिलाषी मनुष्य धर्म रूपी नौका का सहारा लेता है। परन्तु उसी समय मन पिशाच जीव को बहकाकर प्रमाद-मदिरा पिला कर अपने वश में कर लेता है, और उसे ऐसा विचार शून्य कर देता है कि उसे कार्य-अकार्य का ध्यान नहीं रहता, वह आत्मस्वरूप को बिल्कुल भूल जाता है। धर्मभ्रष्ट होकर समुद्र में जहाज छोड़ने वाले की तरह वह भव समुद्र में डूब जाता है और ८४ लाख जीव योनियों में भ्रमण करता हुआ अनेक दुःख पाता है। अतएव बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि मन पर काबू रखे।

परवश मन वाले को तीन शत्रुओं से भय

सुदुर्जयं ही रिपवत्यदो मनो, रिपुं करोत्येव च वाक्तनू अपि ।  
त्रिमिर्हतस्तद्रिपुमिः करोतु किं, पदीभवन् दर्विपदां पदे पदे ॥६॥

अर्थ : बड़ी मुश्किल से जीता जावे ऐसा यह मन शत्रु जैसा आचरण करता है। कारण यह वचन और काया को भी दुश्मन बना देता है। इस प्रकार इन तीन शत्रुओं से भारा हुआ तू जगह-जगह विपत्ति उठाकर क्या कर सकता है।

विवेचन :—मन बड़ी कठिनाई से जीता जाने वाला शत्रु है। यह कुविचार पैदा कर वचन और काया को भी शत्रु बना देता है। इससे वचन पर अंकुश नहीं रहता और नीति धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कराकर काया से भी पाप करा देता है। इस प्रकार मन रूपी शत्रु के वश में होने से तीन शत्रु दुःख देते हैं। वह एक शराबी की तरह अनेक तुरे आचरण करता है। जिसके फलस्वरूप संसार भ्रमण करना पड़ता है। वचन और काया मन के आधीन होने से उसी के कहने पर नाचता है और शत्रु की तरह व्यवहार करता है। इसलिये मन को काबू में रखना चाहिये और इसको काबू रखने से वचन और काया आप ही वश में हो जाते हैं ॥

मन से प्रार्थना

रे चित्त वैरि तव किं नु मयापराद्धं,  
यद्दुर्गतौ क्षिपसि मां कुविकल्पजालैः ।

जानासि मामयमपास्य शिवेऽस्ति गन्ता,  
तर्हि न सन्ति तव वासपदं ह्यसंख्याः ॥१०॥

अर्थ :—हे वैरी चित्त ! मैंने तेरा क्या विगाड़ा है जो तू मुझे कुविकल्प-जाल में फँसाकर दुर्गति में डालता है। क्या तेरे मन में ऐसी बात आई है कि यह जीव तुझे छोड़ कर मोक्ष में चला जायगा। पर जरा सोच, तेरे रहने के लिए तो दूसरे भी असंख्य स्थान हैं।

भावार्थ : जब जीव शान्त अवस्था में हो और अनुकूल संयोग हो तो अपने पहले किए हुए कार्यों का विचार करता है। और बहुत पश्चात्ताप करता है ऐसी स्थिति प्रतिक्रमण करते समय होती चाहिये। उस समय यह जीव भविष्य में गलती न करने की प्रतिज्ञा करता है। ऐसी शान्त अवस्था प्राप्त होने से जीव उच्च गुणस्थान पर चढ़ता है। और ज्यों-ज्यों आगे चढ़ता जाता है उसके विचार शुद्ध होते जाते हैं। इसलिए जीव अपने मन से कहता है कि हे मित्र ! मेरी मित्रता छूटने को क्या चिंता करता है ? तुझे मेरे जैसे असंख्य मित्र मिलेंगे।

पर वश मन वाले का भविष्य

पूतिश्रुतिः श्वेव रतेर्विदूरे, कुपीव संपत्सुदशामनर्हः ।

श्वपाकवत्सग्दतिमन्दिरेषु, नाहेत्प्रवेशं कुमनोहतोऽङ्गी ॥११॥

अर्थ :—जिस प्राणी का मन खराब स्थिति में होने से दुःख पाया करता है वह प्राणी कीड़ा से भरे हुए कान वाले कुत्ते की तरह बहुत दुःख पाता है। अथवा कोढ़ी की तरह लक्ष्मी सुन्दरी से विवाह करने के अयोग्य हो जाता है। वह चांडाल की तरह शुभगति रूपी मन्दिर में प्रवेश करने योग्य नहीं रहता।

विवेचन :—जिस प्रकार कीड़ों से भरे कान वाले कुत्ते को कहीं भी चैन नहीं पड़ता। उसी प्रकार अस्थिर मन वाले मनुष्य को कहीं भी सुख नहीं मिलता। अस्थिर मन वाले व्यक्ति को उसके हित की भी बात यदि कही जावे तो वह समझेगा नहीं उल्टा वह क्रोध करेगा। यदि उसपर कोई दुःख आवेगा तो वह-उल्टी बात सोचेगा और अज्ञान्त चित्त के

कारण अनेक कर्म बाँधेगा। शान्त चित्त वाला पुरुष घबरायेगा नहीं। उसपर कोई भी आपत्ति आवेगी तो वह उसको कर्माधीन समझ शान्त चित्त से सहेगा। एक ओर तो वह शान्त चित्त से सहन कर निर्जरा करेगा और दूसरे वह नये कर्म नहीं बाँधेगा। इस प्रकार वह इस लोक और परलोक दोनों को सुधारेगा।

मनोनिग्रह बिना किये तप-जप में धर्म नहीं

तपोजपाद्याः स्वफलाय धर्मा, न दुर्विकल्पैर्हतचेतसः स्युः ।

तत्खाद्यपेयैः सुभृतेऽपि गेहे, क्षुधातृषाभ्यां म्रियते स्वदोषात् ॥१२॥

अर्थ : जिस प्राणी का चित्त बुरे विचारों से व्याप्त है उसे जप, तप आदि धर्म कार्य भी आत्मिक फल नहीं देते। इस प्रकार का प्राणी खाने पीने की वस्तुओं से भरपूर घर में भी अपने दोष से भूख और प्यास से मरने वाले के समान है ॥१२॥

भावार्थ :—जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक कठोर से कठोर तपस्या भी केवल काया क्लेश है और निष्फल है। ऐसा मुनि सुन्दरजी महाराज कहते हैं। यही बात आनन्दधनजी महाराज भी कहते हैं। पर संसारी जीव को जो पैसा-प्राप्ति ही में धर्म मानता है, यह बात देर से समझ में आवेगी। शास्त्रकार कहते हैं कि इसमें न धर्म है और न सुख। सुख तो आत्मरमणता और चित्त-शान्ति में है। जब तक यह स्थिति नहीं बनती तब तक इस जीव की स्थिति अन्न-धन से भरपूर घर में भी अपने दोष से भूखों मरने के समान है।

मन के साथ पुण्यपाप का सम्बन्ध

अकृच्छ्रसाध्यं मनसो वशीकृतात्,

परं च पुण्यं, न तु यस्य तद्वशम् ।

स वञ्चितः पुण्यचयैस्तदुद्भवैः,

फलैश्च ही ही हतकः करोतु किम् ॥१३॥

अर्थ:—वश में किये हुए मन से पुण्य महान् और उत्तम प्रकार के पुण्य

बिना किसी कष्ट के प्राप्त कर सकता है। और जिस पुरुष का मन वश में नहीं है वह प्राणी पुण्य की राशि खो बैठता, है और उससे होने वाले फल भी नष्ट हो जाते हैं ( अर्थात् पुण्य नहीं वैधता ) ! अफसोस ( जिसके मन वश नहीं ) ऐसा हतभागी क्या करे ? ॥१३॥

भावार्थ :—जिसका मन वश में हो उसके लिये इसी लोक में इन्द्रासन है और मोक्ष भी सन्मुख है। अर्थात् जिसका मन वश में है उसके लिये कुछ भी असंभव नहीं और जिसका मन वश में नहीं या जिसका मन अस्थिर है उसके मन में हरदम संकल्प विकल्प उठा करते हैं, उसका कोई भी काम सिद्ध नहीं होता।

यशोविजयजी महाराज ने ज्ञानसार में कहा है :—

अन्तर्गतमहाशल्यमस्थैर्यं यदि नोद्भूतम् ।

क्रियौषधस्य को दोषस्तदा गुणमयच्छतः ॥

अस्थिरता रूपी हृदय का कौटा हृदय से नहीं निकाला जाय तो क्रियारूपी औषध गुण नहीं करती, इसमें औषध का क्या दोष ? इसलिये मन से अस्थिरता निकाल देनी चाहिये। यह अस्थिरता जीव को बहुत फँसाती है। मन को शुभ योग में लगाने से स्वर्गप्राप्ति होती है और पूर्ण निरोध करने से मोक्ष मिलता है। और मन को निरंकुश छोड़ देने से अवपतन होता है।

इस प्रकार अस्थिर मन वाले को पुण्य नहीं होता और पाप का भार वहन करने के कारण वह दुःख पाता है। जीव का एक बार पतन होने पर फिर संभलना कठिन हो जाता है।

विद्वान् भी मनोनिग्रह बिना नरक में जाता है

अकारणं यस्य च दुर्विकल्पैर्हतं मनः शास्त्रविदोऽपि नित्यम् ।

घोरैरघैर्निश्चितनारकायुर्मृत्यौ प्रयाता नरके स नूनम् ॥१४॥

अर्थ :—जिस प्राणी का मन निरर्थक दुर्विकल्पों से निरन्तर भरा रहता है वह प्राणी कितना ही विद्वान् हो भयंकर पापों के कारण

नारकी का निकाचित आयुष्य कर्म बाँधता है और मरने पर अवश्य नरक में जायगा ।

विवेचन :—किसी समय शास्त्र का जानकार भी भयंकर गलती कर बैठता है जो एक अज्ञानी भी नहीं करता । लोग कहते हैं कि वह तो ज्ञानी है, वह “आलोचना” कर पाप मुक्त हो जायगा—यह धारणा गलत है । ज्ञानी [ शास्त्र का जानकार ] पाप को पाप मानता है और पाप करके केवल मुँह से आलोचना करे और दूसरे दिन पची पाप उतनी ही प्रबलता से करे तो वह अज्ञानी की तुलना में ज्यादा पाप का भागी होता है । क्योंकि विद्वान् दूसरों के लिये आदर्श रूप है, जिसका दूसरे पुरुष अनुकरण करते हैं ।

पाप-बंध या पुण्य बंध जिस समय बाँधता है उस समय प्रवेशबन्ध के साथ साथ रसबन्ध भी पड़ता है अर्थात् जो बन्ध पड़ता है उसके शुभ अशुभ होने के साथ तीव्रता अथवा मंदता ( अर्थात् चिकनास Intensity ) कितनी है यह भी निश्चित हो जाती है । एकसा ही पाप करने वाले दो व्यक्तियों के कर्म की तीव्रता उनके भावों के अनुसार होती है । एक विद्वान् ज्ञानी निरपेक्ष भाव से जो पाप करता है वह जितना विकास से पाप कार्य करता है उतना विकास सापेक्ष वृत्ति वाले अल्पज्ञ या अज्ञ को नहीं होता । अज्ञानी तो पाप अज्ञानवश करता है इसलिये पाप में इतना विकास नहीं होता जितना कि जानकार ज्ञानी को होता है ।

ज्ञान का सदुपयोग जिस प्रकार कार्य-सिद्धि करता है उसी प्रकार उसका दुरुपयोग बहुत हानिकर होता है । मनुष्य सांसारिक कार्यों में अकारण ही संकल्प विकल्प करता है । इसी प्रकार व्यापारी अपने व्यापार में तथा दूसरे लोग अपने-अपने कार्य में जानते अजानते अनेक कर्म बंधन कर लेते हैं ।

मनोनिग्रह से मोक्ष

योगस्य हेतुर्मनसः समाधिः, परं निदानं तपसश्च योगः

तपश्च मूलं शिवशर्मवल्त्या, मनः समाधि मज तत्कथञ्चित् ॥१५॥



अर्थ : मन की समाधि (एकाग्रता-रागद्वेष रहित दशा) योग की कारण है। योग तप का उत्कृष्ट साधन है, और तप शिवसुख रूपी वेद (लवा) की जड़ है। इसलिये किसी भी प्रकार से मन की समाधि रखो ॥ १५ ॥

विवेचन : यह आपने देखा कि मनोनिग्रह से अशुभ कर्म रुकते हैं और पुण्य-बंध होता है। इतना ही नहीं, मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। परन्तु मनोनिग्रह के लिये पहले मन का कचरा जैसे द्वेष, खेद, विकल्प, अस्थिरता आदि को निकाल देना चाहिये। इतना करने के उपरान्त समता प्राप्त होती है और स्थिति स्थापकता आती है अर्थात् मन पर अधिकार हो जाता है। इस तरह से योग की प्राप्ति होती है। योग से इन्द्रियो पर अंकुश आता है। यही तप है और तप से कर्म-निर्जरा और अन्त में मोक्ष होता है। इससे स्पष्ट है कि मन की समाधि कितनी आवश्यक है।

### मनोनिग्रह के उपाय

स्वाध्याययोगैश्वर्यक्रियासु, व्यापारयैर्द्वादशभावनाभिः ।

सुधीस्त्रियोगी सदसत्प्रवृत्तिफलोपयोगैश्च मनो निरुन्ध्यात् ॥१६॥

अर्थ : सुज्ञ प्राणी स्वाध्याय, योग-वहन, चारित्र्य क्रिया, वारह भावनाएँ तथा मन, वचन और काया की शुभ अशुभ प्रवृत्ति के फल का चिन्तन कर अपने मन को वश में करते हैं ॥१६॥

भावाये :—मनोनिग्रह का प्रथम उपाय है स्वाध्याय। यह पाँच प्रकार का है। वाँचना (पढ़ना), पृच्छना (प्रश्न करना) परावर्तना (पुनरावर्तन-वाद करना), अनुप्रेक्षा (मन में विचारना), धर्म कथा (धर्म उपदेश) और योग अर्थात् मूल सूत्र के अभ्यास की योग्यता प्राप्त करने की क्रिया। दूसरा उपाय है तपस्या। क्रिया-मार्ग अर्थात् श्रावको के करने योग्य क्रिया, जैसे देव-पूजा, सामयिक, पौषध आदि करना तथा साधु के लिए आहार-नाहार, प्रतिलेखन, कायोत्सर्ग आदि शुभ क्रियाएँ। इन क्रियाओं से विरोध लाभ यह है कि मन हमेशा शुभ कार्यों में लगा रहता है। उसे उथल पुथल या अकार्य करने को अवसर

नहीं मिलता। तीसरा उपाय है वारह भावना भाना। ये १२ भावनाएँ इस प्रकार हैं: १. अनित्य भावना (संसार नाशवन्व है) २. अशरण भावना (कोई बचाने वाला नहीं है), ३ संसार भावना (संसार विचित्र है) ४ एकत्व भावना (अकेला आया और अकेला ही जायगा), ५. अन्यत्व (यह जीव सबसे अलग है), ६. अशुचि भावना (यह शरीर अशुद्ध पदार्थों का बना है), ७ आश्रव भावना (मिथ्यात्व, अविरति और कषाय आदि के योग से कर्मबन्ध होता है, ८. संवर भावना (मन को बश में रखने से अर्थात् समता रखने से कर्म बन्धन रुकता है) ९ निर्जरा (तपस्या से कर्म क्षीण होते हैं), १०. लोकस्वरूप (चौदह राजलोक के स्वरूप का चिन्तन करना, ११. बोधि (सम्यक्त्व पाना बड़ा दुर्लभ है), १२. धर्म (अरिहंत भगवान् जैसे निरागी कहने वाले बहुत कम हैं)। इस प्रकार की वारह भावनाएँ हरदम भानी चाहियें। चौथा उपाय आत्म-अवलोकन करना अर्थात् यह विचारना कि शुभ प्रवृत्ति का फल शुभ और अशुभ प्रवृत्ति का फल अशुभ होता है।

ऊपर बताए हुए मनोनिग्रह के चार उपाय बड़े मनन करने योग्य हैं। इससे मन बश में रहता है और पुण्य प्राप्त होता है। जीव का नरक में जाना रुक जाना है और देवलोक तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है।

मनोनिग्रह में भावना का माहात्म्य

भावनापरिणामेषु, सिंहेष्विव मनोवने ।

सदा जाग्रत्सु दुर्ध्यान-सूकरा न विशन्त्यपि ॥१७॥

अर्थ : मन रूपी वन में भावना भाना रूप सिंह जहाँ सदा जागृत अवस्था रहती हो तो दुर्ध्यान रूप सूअर उस वन में प्रवेश नहीं कर सकता ॥१७॥

भावार्थ : मन बश में करने के लिए ऊपर चार उपाय बताए हैं। उनमें सबसे कठिन उपाय भावना भाना है। जब तक मन में शुद्ध भावना चलती है तब तक कोई अशुद्ध भावना नहीं आ सकती जैसे जिस जंगल में सिंह विद्यमान हो वहाँ सूअर नहीं रह सकता। वैसे ही अशुद्ध भावना मन में प्रवेश नहीं कर सकती। यह प्रायः देखा गया

है कि जब एक ही ध्यान में मन भग्न हो जाता है तो वह दूसरी तरफ जाता ही नहीं। मन्दिर में देव-दर्शन के समय या पूजा-भक्ति में या किसी उत्तम पुस्तक के पढ़ने में मन एकाग्र हो जाता है तो उसे उसके आस पास क्या हो रहा है इसका कुछ भी ध्यान नहीं आता। इसी प्रकार बारह भावनाएँ भाते-भाते इतना अभ्यास हो जाता है कि पुरुष संसार की सब बातें भूल जाता है। ऐसी अवस्था में उसे एक अद्भुत आनन्द का अनुभव होता है। उसके सामने सब सांसारिक सुख तुच्छ लगते हैं।

×                    ×                    ×                    ×

मन को वश में करना मुश्किल है परन्तु असम्भव नहीं। शुरु में मन से संकल्प एकदम दूर करना मुश्किल है। पर अभ्यास करने से काये-सिद्धि हो सकती है। अभ्यास करते समय पहले बुरे विचार आते हैं, उनको दबाना चाहिये। एक बार दबाने से संकल्प दूसरी बार ज्यादा जोर से आते हैं फिर और जोर से दबाने से धीरे-धीरे वश में होता जाता है। इस प्रकार अभ्यास करने से मन पूर्णरूप से वश में हो जाता है।

# दशगाधिकार

## गौराग्योपदेश

मृत्यु पर विजय और विचार

किं जीव माधसि हसस्ययमीहसेऽर्थान्  
कामांश्च खेलसि तथा कुतुकैरशङ्कः ।

चिक्षिप्सु घोरनकावटकोटरे त्वा-  
मभ्यापतल्लघु विभावय मृत्युरक्षः ॥१॥

आलम्बनं तव लवादिकुठारधाता-  
शिञ्छन्दन्ति जीविततरुं नहि यावदात्मन् ।

तावधतस्व परिणामहिताय तस्मि-  
शिञ्छन्ने हि कः क्व च कथं भवतास्यतन्त्रः ॥२॥

अर्थ : अरे जीव ! तू क्या समझकर अहंकार करता है, क्यों हँसता है ? पैसा तथा विषय-भोग की इच्छा क्यों करता है, तू किस कारण निःशंक होकर खेल तमाशा करता है । यह बात याद रख कि मृत्यु राक्षस तुझे नरक के गहरे खड्डे में फेंक देने की इच्छा से तेरी तरफ जल्दी से आ रही है । ॥१॥

जब तक तेरे आधारभूत जीवन वृत्त पर कुल्हाड़ी का प्रहार नहीं होता तब तक हे आत्मा ! अपने हित के लिये प्रयत्न कर, क्योंकि वृत्त गिर जाने के बाद तू परतन्त्र हो जायगा । फिर न मालूम किस ठिकाने तू जायगा और तू क्या और कैसा होगा ॥२॥

विवेचन : हे चेतन ! तू बहुत भूल करता है । जरा सोच, तू अहंकार क्यों करता है, थोड़ी संपत्ति पाकर तू हँसता है, मन चाहा

कुपूहल करता है, विषयभोग की इच्छा करता है और समझता है कि तेरे बराबर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। ऐसा समझकर तू अभिमान करता है, पर क्या तुझे यह भी मालूम है कि तेरी स्थिति कितनी है ? तू अपनी वास्तविक स्थिति पर क्यों नहीं विचार करता ? बड़े दुःख की बात है कि तेरे मिर पर मृत्यु मँडरा रही है और वह तुझे नरक में डालने की व्यवस्था कर रही है। इसलिये तू उस रातान से डर, निःशंक होकर घुमना बुद्धिमत्ता नहीं, तू अपने शत्रु को पहिचान और बचने का प्रयत्न करे।

जीव को इस प्रकार चेताने का दूसरा प्रयोजन यह है कि यह शरीर ही सब धार्मिक कार्य कर सकता है। यह शरीर क्षण प्रति क्षण में क्षीण होता जाता है। एक झोका आते ही मृत्यु हो जायगी। इसलिए इस शरीर से जो साधना (आत्म हित) हो सकती है सो करलो। मनुष्य प्रायः तात्कालिक सुख देखता है, पर उसका परिणाम क्या होगा यह वह नहीं देखता। जिस प्रकार पाँच मिनट के सुख के लिये एक स्त्री पर बलात्कार कर १० वर्ष की जेल भुगतना पड़ती है इसी प्रकार इन सब संसारी सुखों का भी परिणाम नरक की प्राप्ति है। अतएव वास्तविक सुख वही है जो मनुष्य को जीवन भर सुखी करे। यदि वास्तविक सुख प्राप्त करना है तो दान, शील, तप, भावना, संयम, धृति और कषाय-त्याग अंगीकार करे। यदि इस प्रकार से तू नहीं करेगा तो आयु पूरी होने पर मृत्यु आवेगी। फिर तेरी क्या दशा हो जायगी, तब तू कुछ कर सकेगा या नहीं यह कौन कह सकता है। क्योंकि ये तेरे वश की बात नहीं। इसलिये तू इस जन्म में पुरुषार्थ कर, मृत्यु आने के पहले सब तैयारी करले, ताकि मृत्यु के समय कोई भी भय न हो।

मृत्यु से मनुष्य को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वह देर से अथवा जल्दी अवश्य आवेगी ही। और मृत्यु की इच्छा भी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि नया जन्म सुखमय होगा या दुःखमय होगा इसको कोई नहीं कह सकता। इसलिये समझदार आदमी मरने से डरता नहीं और न मरने की इच्छा करता है। वह तो मृत्यु के लिये हमेशा तैयार रहता है और परलोक के लिये धर्म-धन संचय करता रहता है। जिस प्रकार

यात्रा करते समय मनुष्य रास्ते में निर्वाह के लिये खाद्य पदार्थ अपने साथ रखते हैं उसी प्रकार अगले भव के लिये भी धर्म रूपी खाद्य पदार्थ तैयार करके अपने साथ रखना चाहिये।

पुरुषार्थ से आत्मा की सिद्धि  
 त्वमेव भोग्वा मतिमांस्त्वमात्मन्,  
 नेष्टाप्यनेष्टा सुखदुःखयोस्त्वम् ।  
 दाता च भोक्ता च तयोस्त्वमेव,  
 तच्चेष्टसे किं न यथा हिताप्तिः ॥३॥

अर्थ :—हे आत्मा ! तू ही अज्ञानी है और तू ही ज्ञानी है। सुख की इच्छा करने वाला और दुःख नहीं चाहने वाला भी तू ही है। सुख दुःख देने वाला और भोगने वाला भी तू ही है। इसलिए जिससे तेरा निजी हित हो उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास तू क्यों नहीं करता ? ॥३॥

विवेचन :—इस श्लोक में स्वहित के लिए यत्न करने को कहा है। शिष्य कहता है कि सब कुछ तो दैवाधीन है। इसलिए स्वहित के लिए हम यत्न क्यों करें ? तो गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! आत्मा ही अज्ञानी है और यही ज्ञानी है। जब तक ज्ञानावरणी कर्म लगे हैं तब तक यह आत्मा अज्ञानी है और कर्मों के नष्ट हो जाने के बाद ज्ञानी हो जाती है। सुख की हम इच्छा करते हैं और दुःख को धिक्कारते हैं पर सुख दुःख पैदा करने वाले भी हम स्वयं ही हैं। क्योंकि सुख दुःख की प्राप्ति कर्माधीन है। संचित किये हुए कर्म भोगने पड़ते हैं। कर्माधीन का यह अर्थ नहीं कि हम कर्मों के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। कर्म भी तो हमारे आधीन हैं। हम ही कर्म बाँधते हैं और काटते हैं और उनके बंधन को रोकते हैं यह सब पुरुषार्थ के आधीन है। हमें पुरुषार्थ द्वारा बुरे कर्म बन्धन से बचना चाहिये और बंधे हुए कर्मों की निर्जरा करनी चाहिये।

लोकरंजन और आत्मरंजन

कस्ते निरंजन चिरं जनरक्षणेन,  
 धीमन् ! गुणोऽस्ति परमार्थदशेति पश्य ।

तं रक्षयाशु विशदैश्चरितैर्भवाब्धौ,  
यस्त्वां पतन्त्वमवल परिपातुमीष्टे ॥४॥

अर्थ :- हे निर्लेप ! हे बुद्धिमान् ! तूने लंबे समय तक जनरंजन कर कौनसा गुण प्राप्त किया यह परमाथे बुद्धि से देख और विशुद्ध आचरणों की सहायता से धर्मरंजन कर जिसके कारण तेरी आत्मा संसार-समुद्र में न पड़े और तू बच जावे ॥४॥

विवेचन :- अच्छे-अच्छे कपड़े पहन कर, मीठा-मीठा भाषण देकर तुम लोकरंजन कर सकते हो, पर आत्मरंजन या परलोकरंजन नहीं कर सकते। तुम लोकरंजन या आत्मरंजन इन दो में से एक कर सकते हो, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिये शुद्ध और आढम्बर रहित धर्म का आचरण करो जिससे लोकोत्तरंजन हो। इसका साधन दान, दया, शील, तप, भाव, ध्यान, धृति और सत्य आदि हैं।

भरत चक्रवर्ती ने लोकोत्तरंजन को प्रधानता दी। भरत चक्रवर्ती को चक्ररत्न की प्राप्ति तथा उनके पिता ऋषभ भगवान् को केवल ज्ञान एक ही समय में हुए। भरत महाराज चक्र में पड़ गये कि पहले चक्ररत्न की पूजा करूँ या केवलज्ञान महोत्सव मनाऊँ। अन्त में उन्होंने धर्मरंजन अर्थात् लोकोत्तरंजन को महत्ता दी और केवलज्ञान महोत्सव मनाया। कहा भी है "रिक्ताओ एक साईं लोक ते वात करेरी" लोक कुछ भी कहे परन्तु जो काम प्रभु को अच्छा लगे सो पहले करो यह लोकोत्तरंजन है। इस प्रकार जब मन में शुद्ध भावना उत्पन्न हो तो समझना चाहिये कि आत्म-सिद्धि निकट ही है।

मद त्याग और शुद्ध विचार

विद्वानहं सकललब्धिरहं नृपोऽहं—

दाताहमद्भुतगुणोऽहमह गरीयान् ।

इत्याद्यहङ्कृतिवशात्परितोषमेषि,

नो वेत्सि किं परमवे लघुतां भवित्रीम् ॥५॥

अर्थ : मैं विद्वान् हूँ, मैं सर्वलब्धि वाला हूँ, मैं राजा हूँ, मैं दानेश्वरी हूँ, मैं अद्भुत गुण वाला हूँ, मैं मोटा हूँ इस प्रकार के अहंकार के वशीभूत होकर तू अपने मन में अपार संतोष मानता है। पर जरा सोच तो सही ! इससे तुझे परलोक में लक्षुता मिलेगी ॥५॥

विवेचन : इस संसार में जहाँ देखो दो ही चीजें दिखाई देती हैं "मैं और मेरा"। जो कुछ अच्छी चीज दुनियाँ में है वह मेरी और दुनियाँ के सब गुण मेरे में हैं। यह अहंकार है। दुनिया में यही सब को नष्ट करता है। ऐसे लोग कर्म सिद्धान्त को नहीं मानते और घमंड में चूर रहते हैं। यह घमंड ही सब संसारी दुःखों का कारण है। इससे दोनों भव नष्ट हो जाते हैं।

तुमको प्राप्त हुई सामग्री

वेत्सि स्वरूपफलसाधनधाधनानि

धर्मस्य, त प्रभवसि स्ववशश्च कर्तुम् ।

तस्मिन् यतस्व मतिभ्रधुनेत्यमुत्र,

किंचित्त्वया हि न हि सेत्स्यति भोत्स्यते वा ॥६॥

अर्थ : तू धर्म का स्वरूप, फल, साधन तथा उसकी बाधा को जानता है और स्वतन्त्रता से तू धर्म कर सकता है। इमलिये अभी (इस भव में) ही धर्म कर। क्योंकि अगले भव में तुझसे यह काम हो सकेगा या नहीं अथवा तुझमें इतना ज्ञान भी होगा यह नहीं कहा जा सकता है।

विवेचन • धर्म का स्वरूप—श्रावक धर्म और साधु धर्म

धर्म का फल—परम्परा में मोक्ष और तात्कालिक निर्जरा अथवा पुण्य प्राप्ति,

साधन—चार अनुयोग, अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अथवा मनुष्य जन्म, धर्म, श्रद्धा और संयम वीर्य वाधा कुजन्म, कुक्षेत्र और भ्रमाद आदि

तू धर्म का स्वरूप, साधन, फल आदि को जानता है और धर्म



साधना की सहकारी वस्तु, आर्य देश, सुगुरु की प्राप्ति तथा उत्तम जैन धर्म तथा शारीरिक सुख, धन आदि तुम्हें सब प्राप्त हैं तथा तू धर्म क्रिया करने के लिए स्वतन्त्र भी है। इसलिए धर्म का साधन इसी जन्म में कर ले। कौन जाने तू अगले जन्म में कहाँ जन्म लेगा और आज जैसी सब सामग्री तुम्हें पुनः प्राप्त होगी या नहीं।

धर्म करने की आवश्यकता और उससे दुःख क्षय  
 धर्मस्थावसरोऽस्ति पुद्गलपरावर्तैरनन्तैस्तवा  
 यातः संप्रति जीव हे प्रसहतो दुःखान्यनन्तान्ययम् ।  
 स्वल्पाहः पुनेरष दुर्लभतमश्चास्मिन् यतस्वार्हतो,  
 धर्मं कर्तुमिमं विना हि नहि ते दुःखक्षयः कर्हिचित् ॥७॥

अर्थ :—हे चेतन ! बहुत प्रकार के अनेक दुःख सहन करते करते अनन्त पुद्गल परावर्तों की वीथ गये, अब यह धर्म का सुअवसर प्राप्त हुआ है। वह भी थोड़े दिनों के लिए। ऐसा अवसर भी मिलना बहुत कठिन है। इसलिए धर्म करने का उद्यम कर। इसके बिना दुःख का अन्त नहीं हो सकता ॥७॥

विवेचन : जिस प्रकार नदी का पत्थर कई वर्षों तक गुडता गुडता गोल हो जाता है उसी प्रकार अनन्त काल तक अनेक भवों में घूमते घूमते यह मनुष्य-जन्म प्राप्त होता है। इस मनुष्य जन्म का मत खोओ, समय थोड़े ही वर्षों का है। इसका उपयोग करो, नहीं तो गया समय फिर हाथ नहीं आयगा। चिड़िया चुग गई खेत अब पछताये क्या होत क्या। इसलिये धर्म करो, धर्म बिना जीवन निरर्थक है।

अधिकारी बनने का प्रयत्न करो

गुणस्तुतीर्वाञ्छसि निर्गुणोऽपि, सुख-प्रतिष्ठादि विनापि पुण्यम् ।  
 अष्टाङ्गयोगं च विनापि सिद्धीर्वातूलता कापि नवा तवात्मन् ॥८॥

अर्थ : तुम्हें गुण नहीं तो भी तू अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। पुण्य किए बिना सुख और प्रतिष्ठा चाहता है। इसी प्रकार अष्टाङ्ग

योग के बिना सिद्धियों की इच्छा रखता है। इस तेरे पागलपन पर बड़ा आश्चर्य होता है ॥८॥

भावार्थ :—इस जीव की ऐसी आदत है कि जो गुण उसमें नहीं है उसकी भी प्रशंसा चाहता है। यह उसकी एकदम मूर्खता है। इसी प्रकार पुण्य बिना भाग्यशालियों के-से सुख की इच्छा करना कहाँ तक उचित है? संसार में ऐसे भी भाग्यशाली प्राणी हुए हैं जिन्होंने उग्र भर कर्मा दुःख देखा ही नहीं। जैसे शालिभद्रजी जिनके भन का और सुख का पार नहीं था। इन सबका कारण पूरे भव में संचित पुण्य हैं। बिना पुण्य के ऐसे सुख की इच्छा करना मूर्खता है। इसलिये यदि प्रशंसा अथवा सुख की इच्छा करते हो तो पुण्य-संचय करो।

पुण्य के अभाव में अपमान अतएव पुण्यसाधन कर

पदे पदे जीव पराभिभूतीः पश्यन् किमीर्ष्यस्यधमः परेभ्यः ।

अपुण्यमात्मानभवैषि किं न, तनोषि किं वा न हि पुण्यमेव ॥९॥

अर्थ : हे जीव ! दूसरे पुरुषों के द्वारा किए गए अपमान को देखकर तू दूसरों से ईर्ष्या क्यों करता है? तू अपनी आत्मा को पुण्यहीन क्यों नहीं समझता अथवा तू पुण्य-संचय क्यों नहीं करता ॥९॥

भावार्थ : अपना अपमान होने पर मनुष्य अपने अपमान करने वाले से ईर्ष्या करता है या क्रोध करता है। पर यह अपमान क्यों हुआ यह कोई नहीं सोचता। अपमान पाप कर्म से होता है। तेरी आत्मा पुण्यहीन है इसलिए अपमान हुआ। अतः अपमान करने वाले पर गुस्सा करना उचित नहीं। उचित तो यह है कि तू पुण्य-संचय कर।

पाप से दुःख इसलिये उसका त्याग

किमर्दयन्निर्दयमङ्घिनो लघून्, विचेष्टसे कर्मसु ही प्रमादतः ।

यदेकशोऽप्यन्यकृतार्दनः सहत्यनन्तशोऽप्यङ्गचयमर्दनं भवे ॥१०॥

अर्थ : तू प्रमाद से जीवों को नाना प्रकार के दुःख देने के उपाय निर्दयतापूर्वक क्यों करता है? कोई जीव किसी प्राणी को एक

वार भी पीड़ा देता है तो वही पीड़ा उसे भवान्तर में अनन्त वार होगी ॥१०॥

विवेचन : कोई भी पाप करने से पहले मनुष्य का जीव एक वार हिचकता है। परन्तु पाप वार-वार करने से उसका स्वभाव ही पापकर्मी हो जाता है। अर्थात् उसकी बुद्धि (Conscience) मर जाती है। जैसे चोरी-अथवा व्यभिचार पहली वार करने पर मन हिचकता है बार-बार किए जाने पर वही उसका स्वभाव हो जाता है। शास्त्रकार कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे प्राणी को पीड़ा देता है उसे परभव में उससे कई गुणा तीक्ष्ण तथा अनेक वार वही पीड़ा सहनी पड़ती है और इस भव में भी सुख नहीं होता। भगवान् महावीर के हाथ से दीक्षित धर्मदासजी गण कहते हैं।

वहमारणअम्भकूखाणदाणपरधणविलोवणाईणं ।  
सव्वजहएणा उदओ, दशगुणिओ इक्कसि कयाणं ॥  
तीव्वयरेउ पओसे, सयगुणिओ सयसहस्सकोडिगुणो ।  
कोडाकोडिगुणो वा, हुज्ज विवागा बहुवरो वाः ॥

अर्थ :—लकड़ी आदि से भारना या प्राण नाश करना, भूटा कलक देना, परधन का हरण करना आदि एक वार करने से उदय आने पर कम से कम दस गुणा तो होता ही है। यदि यही तीव्र द्वेष से किया हो तो सौ गुणा, हजार गुणा, लाख गुणा, करोड़ गुणा अथवा करोड़ करोड़ गुणा भी उदय होता है।

इसलिये प्रत्येक मनुष्य को पाप कर्म से डरते रहना चाहिये। पाप बंध करने वाले के मन की तीव्रता पर रस बँधता है इसका ध्यान रखना चाहिए। पाप सेवन नहीं करना चाहिये और सेवन करते समय सांचना चाहिये कि जिस प्राणी का हम पीड़ा देते हैं उसकी जगह यदि हम होते तो हमें कैसा लगता ?

प्राणियो को पीड़ा और उसको बचाने की आवश्यकता  
यथा सर्पमुखस्थोऽपि, मेको जन्तूनि मक्षयेत् ।  
तथा मृत्यमुखस्थोऽपि, किमात्मन्नर्दसेऽङ्गिनाः ॥११॥

अर्थ : किस प्रकार सर्प के मुँह में रहा हुआ मेंढक दूसरे जन्तुओं को खाना चाहता है उसी प्रकार हे आत्मा ! तू मृत्यु के मुँह में पड़ा हुआ भी अन्य प्राणियों को क्यों दुःख देता है ? ॥११॥

भावार्थ :—अगर हम नमर हों और पाप करें तो चिंता नहीं। परन्तु मृत्यु तो सामने खड़ी है, फिर भी हम पाप करते नहीं रुकते। हमने चारों तरफ धूम मचा रखी है और निरिचत होकर नाच-गान में, विषय-कषाय में लीन हैं। हम नहीं सोचते कि हम थोड़े दिन के लिए ही इस लोक के मेहमान हैं। हम वंद मुट्ठी आये थे और खुली मुट्ठी जावेंगे। इसलिये मोक्ष के अभिलाषी प्राणी ! ज़रा चेत, तेरी स्थिति सर्प के मुँह में पड़े मेंढक की-सी है, पीड़ा से बचना चाहता है तो धर्म का आचरण कर।

माने हुए सुख का परिणाम

आत्मानमत्पैरिह वञ्चयित्वा, प्रकल्पितैर्वा, तनुचितसौख्यैः ।

मवाधमे किं जन सागराणि, सोढासि ही नारकदुःखराशीन् ॥१२॥

अर्थ : हे मनुष्य ! थोड़े और कल्पित शारीरिक तथा मानसिक सुखके लिए इस भवमें तू अपनी आत्मा को डुबोता है। इसलिये अधम भवों में सागरोपम जितने काल का नारकी जीवन सहन करना पड़ेगा ॥१२॥

विवेचन :—साधारण मनुष्य कई बार अन्याय से धन प्राप्त करने वाले को सुखी देखता है तो उसका मन विचलित हो जाता है, पर उसे यह सोचना चाहिए कि ये सुख वास्तविक नहीं हैं। वे तो अन्त में अवश्य दुःख देंगे। इसी प्रकार जितने भी सांसारिक सुख, जैसे खाना-पीना, भोग-विलास आदि हैं, ये सब प्रारम्भ में अच्छे लगते हैं लेकिन अन्त में इसी जीवन में दुःखदाई हैं, इनसे अनेक कर्मबन्धन होते हैं, नीच गति प्राप्त होती है और अनेक सागरोपम काल तक नरक का दुःख भोगना पड़ता है।

प्रमाद से दुःख और उनके दृष्टान्त

उरप्रकाशियुदबिन्दुकाभ्रवणिक्रयीशाकटभिक्षुकाद्यैः ।

निदर्शनैर्हारितमर्त्यजन्मा, दुःखी प्रमादैर्बहु भोषितासि ॥१३॥

अर्थ-: प्रमाद करने से हे जीव ! तू मनुष्य जीवन को देता है और उससे दुःखी होकर नीचे दिये हुए बकरा, कांकिणी, जलबिंदु, कैंरी, तीन बनिये, गाड़ी चलाने वाले, भिखारी आदि की भाँति बहुत दुःख पाता है ॥१३॥

भावार्थ-: मनुष्य प्रमादवश सुकृत नहीं कर पाता। वह इस दुर्लभ जन्म को वृथा गँवा देता है और समस्त जीवन पर्यन्त दुःख पाता है। उसका पछताना निरर्थक है। यह बात नीचे दृष्टान्तों से समझाई गई है।

### १ श्रज का दृष्टान्त

एक सेठ के पास एक बकरा और एक गाय का बछड़ा था। सेठ बकरे को खूब प्रेम से खिलाता पिलाता परन्तु बछड़े को उसकी माँ का दूध भी पूरा पीने को नहीं मिलता। बकरा बहुत पुष्ट हो गया और बहुत उछल कूद करने लगा। यह देख बछड़ा बकरे से ईर्ष्या करता। एक दिन बछड़े ने क्रोध में आकर अपनी माँ से पूछा कि मालिक इस भाँति भेदभाव क्यों रखता है? तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि यह उछल कूद थोड़े दिन ही की है। जब कोई मेहमान आवेगा तो इसी बकरे को मार कर उन्हें खिलाया जायगा। बछड़ा माँ की बात सुनकर चुप हो गया। थोड़े दिनों बाद कोई सेठ का सगा सम्बन्धी आया तो उसकी मेहमानी में उस बकरे को मार कर भून डाला। बछड़े ने यह सब बात देख कर डर कर खाना पीना छोड़ दिया। तब उसकी माँ ने उसे खाना पीना छोड़ने का कारण पूछा तो उसकी माँ ने समझाया कि तू डर नहीं, यह बात तो होने वाली थी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। यह बात सुन बछड़ा शान्त हुआ।

इस कहानी का तात्पर्य यह है कि पाप करने से नहीं डरने वाला और निडर हो मस्त होकर फिरने वाला प्राणी बकरे की तरह अचानक मर जाता है। वह इसका कुछ प्रतीकार नहीं कर सकता। इसी तरह व्यसनों से फँसा हुआ आदमी सुख अनुभव करता है पर मृत्यु के

उपरान्त नरक में जाता है। उसके पछताने से कुछ नहीं बनता। इन सब बातों को ध्यान में रखकर समझदार आदमी धर्म कार्य में कभी प्रभाव नहीं करता।

## २ कांकिणी का दृष्टान्त

एक गरीब मनुष्य धन कमाने परदेश गया। कुछ समय में ही उसने बहुत सी कांकिणी ( सोने की मोहरें ) कमाई। कुछ दिन बाद वह घर को लौटा। उसने कमाई हुई मोहरें एक ब्राँस में भर लीं और एक मोहर (कांकिणी) खर्च के लिए मुना कर अपने साथ ले ली। एक दिन खाना खाने के लिए वह एक पेड़ के नीचे बैठा और लकड़ी तथा खुले पैसे पास में रख लिये। थोड़ी देर विश्राम कर वह लकड़ी लेकर रवाना हो गया और खुले पैसे वहीं भूल गया। आगे जाने पर उसे कांकिणी की रेजगी की याद आई तो वह लकड़ी को जमीन में गाड़ कर, रेजगी लेने को उस पेड़ की तरफ चला, जहाँ उसने रेजगी रखी थी। वहाँ जाकर देखता है कि रेजगी गायब। लाचार वापिस लौटता है तो क्या देखता है, कि वह कांकिणी से भरी हुई लकड़ी भी गायब। जब वह गाँव में पहुँचा तो निर्धन को निर्धन ही रहा। इस प्रकार मनुष्य लोभवश संसार में दौड़ता है और जो कुछ उसे प्राप्त होता है वह भी खो बैठता है। इसी प्रकार मनुष्य इस भव और परभव को सुधारने के लिए सर्वविरति अथवा देशविरति धर्म अंगीकार करता है और फिर भी संसारी सुखों की आकाँक्षा करता है। पर वह दोनों लोकों का नाश कर देता है। कहा है "दुविधा में दोनो गए, माया मिली न राम।" वह उस मूर्ख मनुष्य की तरह थोड़े पैसे के लोभ में प्राप्त किया हुआ लकड़ी वाला धन भी खो बैठता है।

## ३ जल बिन्दु का दृष्टान्त

एक मनुष्य प्यास से बहुत पीड़ित था। उसने प्यास मिटाने के लिए एक देव की नाराधना की। देव प्रसन्न होकर प्रकट हुआ और उस प्यासे को क्षीर-समुद्र पर ले गया पर प्यासे मनुष्य ने क्षीर-समुद्र का पानी नहीं पिया और देव से प्रार्थना की कि हे देव ! आप मुझसे

प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे गाँव के पास के कुएँ पर ले चलिये। मैं वहाँ कुएँ के पास लगी दोब पर पढ़ी हुई ओस की बूँद पीकर अपनी प्यास बुझाऊँगा। देव समझ गया कि यह मनुष्य क्रमभूटा है। उसने उसे तत्काल उसी स्थान पर पहुँचा दिया। वहाँ पहुँचकर क्या देखता है कि ओस के बिन्दु जो दोब पर थे, जमीन पर गिर गए। नतीजा यह है कि क्षीर-समुद्र का जल भी गया और ओस की बिन्दु का जल भी नहीं मिला। वह इतने समय तक प्यासा ही रहा। इसी प्रकार कोई पुरुष वैद-संयोग से तप-संयम रूपी क्षीर-समुद्र प्राप्त करे और फिर भी ओस बिन्दु समान संसारी सुख की लालसा करे तो वह न इस भव में न परभव में सुख प्राप्त कर सकता है। चारित्र्य से भ्रष्ट हुआ मनुष्य दोनों सुखों से वंचित हो जाता है। वह जल-बिन्दु के समान सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए देव-तुल्य गुरु महाराज तथा समुद्र-तुल्य सम्यक्त्व (चारित्र्य) को खो बैठता है।

#### ४ आम्र दधान्त

एक राजा को कैरी खाने का बड़ा शौक था। वह कैरी देखते ही उन पर भ्रुपट पड़ता था। बहुत कैरी खाने से उसे विश्चिका रोग हो गया। वैद्यों ने बहुत इलाज किया तो वह रोग दूर हुआ। वैद्यों ने उसे भविष्य में कैरी खाने की मनाही कर दी थी और समझा दिया था कि तुम्हें कैरी खाते ही यह रोग वापिस हो जायगा और मृत्यु हो जायगी। राजा ने देश भर के आम्र के पेड़ कटवा दिये। इस तरह से कैरी खाने से बचा। लेकिन एक बार वह अपने मन्त्री के साथ शिकार खेजने के लिए जंगल में गया। वहाँ जब वे बहुत दूर निकल गये तो एक आम्र का पेड़ कैरियों से लदा देखा। राजा ने बहुत दिनों बाद कैरी देखी थी तो मन नहीं मान सका और एक कैरी तोड़कर खाने लगा। मन्त्री ने बहुत मना किया पर वह नहीं माना और कैरी खा गया। कैरी खाते ही विश्चिका रोग हो गया और वैद-संयोग से उसकी वहाँ मृत्यु हो गई।

इसी प्रकार यह जीव भी प्रमाद से, काम या भोग की इच्छा से, इन्द्रियो के वश हो जाता है उसे किसी बात का भान नहीं रहता

और वह नहीं करने योग्य कार्य कर बैठता है। दूसरा सार यह भी निकलता है कि इस सांसारिक भोग रूपी दुःसाध्य रोग से बचने के लिए गुरुमहाराज देशविरति अथवा सर्वविरति चरित्र देकर उसे संसारी सुख की तरफ देखने को मना करते हैं तब भी वह सांसारिक सुख या भोग की इच्छा करता है और कर्म रूपी दुःसाध्य व्याधि के बश हो दुर्गति में फँस जाता है, जहाँ से वापिस लौटना कठिन हो जाता है।

### ५ तीन बनिधे

एक बनिधे के तीन पुत्र थे। उसने अपने पुत्रों की योग्यता देखने के लिए तीनों पुत्रों को एक-एक हजार मोहरें देकर परदेश कमाने के लिए भेजा और कुछ समय बाद आकर सब हाल बताने को कहा। कुछ समय बीतने पर इनमें से समझदार पुत्र परदेश जाकर अच्छा पैसा कमा कर लौटा और उसने पिता से सब हाल कहा। दूसरे पुत्र ने अपने पैसे को न बढ़ाया न घटाया और कमाकर अपना काम चलाया। लेकिन तीसरे पुत्र ने सब रुपया मौज, शौक तथा जुए में खो दिया और खाली हाथ होकर घर आया। पिता ने तीनों पुत्रों की बात सुनी। उसने बड़े पुत्र का, जिसने परदेश में जाकर मूलधन को बढ़ाया था बहुत आदर किया। दूसरे पुत्र से जिसने मूलधन न बढ़ाया और न घटाया कुछ संतुष्ट हुआ, लेकिन तीसरे लड़के की, जो मूलधन का नाश कर आया घर से निकाल दिया।

### उपनय

यह मनुष्य जन्म पाना बड़ा मुश्किल है फिर अच्छा कुल, जैन धर्म, निरोग शरीर तथा सद्गुरु का योग्य पाना और भी मुश्किल है। यदि इन सबकी पाकर भी मनुष्य लाठी, बाड़ी और गाड़ी के चक्कर में पड़ कर सब भूल जाता है और यह नहीं जानता कि धर्म क्या है तो वह सब साधन होते हुए भी उपरोक्त तीसरे कपूत भेदे की तरह नष्ट हो जाता है। केवल उद्यम प्राणी ही ये सब योगवाई प्राप्त कर उद्यम तरीके से लाभ उठाता है तथा धार्मिक शुद्ध कार्य कर अपना जन्म सफल करता है और परलोक सुधारता है।



## ६ गाड़ी चलाने वाले का दृष्टान्त

एक गाड़ी चाला किसी गाँव को जाता था। उस गाँव को जाने के दो रास्ते थे एक साफ और दूसरा ऊबड़ खाबड़ मूर्ख गाड़ी वाले ने दूसरा रास्ता लिया। जिसका नतीजा यह हुआ कि गाड़ी का धुरा बीच जंगल में दूब गया। अब उसे अपनी मूर्खता का ध्यान आया और पछताने लगा।

### उपनय

यह दृष्टान्त बुद्धिमान और पढ़े लिखे श्रोताओं के लिये है। वे संसार की स्थिति जानते हैं। वे जानते हैं कि प्रमाद और मांह से संसार बँधता है और शम, दम, दया, दान आदि से पुण्यबंध अथवा निर्जरा होती है इतना जानते हुए भी मूर्ख गाड़ी वाले की तरह उनका व्यवहार पाप मार्ग की ओर होता है यह अच्छा नहीं। मनुष्य का व्यवहार तो आदर्श होना चाहिये, क्योंकि जनसाधारण पढ़े लिखे का अनुकरण करता है।

## ७ भिक्षु का दृष्टान्त

एक भिक्षु था। वह माँगने परदेश निकला। रास्ते में एक मन्दिर में उसने डेरा डाला। रात को एक सिद्ध वहाँ बड़ा लिये आया। उसने बड़ा जमीन पर रखकर उसके द्वारा—महल, धन, स्त्री आदि वस्तुएँ उत्पन्न कर खूब पेश किया। भिक्षु यह देख चकित हो गया। मातःकाल होते ही सिद्ध सब सामान समेट कर जाने लगा तो भिक्षु उसके पैरों पड़ा और सेवा करने लगा। सिद्ध ने प्रसन्न हो उससे पूछा—तू क्या चाहता है, या वो विधा ले या बड़ा ले। भिक्षु ने सोचा यदि मैं विधा लेता हूँ तो परिश्रम करना पड़ेगा, इसलिए उसने बड़ा माँगा। सिद्ध ने बड़ा दे दिया। भिक्षु प्रसन्न होकर घर आया और मौज में रहने लगा। एक दिन वह मस्त होकर बड़ा लेकर नाचने लगा। पर दुर्भाग्य से बड़ा गिर गया और फूट गया। बड़ा फूटते ही सब धन-बौलव आदि गायब हो गई। अब वह भिक्षु भिक्षु ही रह गया।

यदि वही भिक्षु घड़ा न लेकर विद्या लेता और परिश्रम से नहीं करता तो एक घड़े के बदले अनेक घड़े बना लेता और दुर्दिन नहीं देखता।

उपनय

जिस प्रकार भिक्षु प्रमाद्वश सब सामग्री हार गया उसी प्रकार मनुष्य भी इस भव में धर्म आराधना करने की सब योगवाइ प्राप्त करके भी प्रमाद्वश सब कुछ खो बैठता है और पछताता है। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि मनुष्य तात्कालिक सुख देखता है और उसके लिये अन्याय करने को भी तैयार हो जाता है। परन्तु कष्ट करके सही रास्ते पर नहीं चलता। इसका परिणाम बुरा होता है।

दरिद्र कुटुम्ब का दृष्टान्त

एक दरिद्र परिवार वालों ने खीर पूड़ी खाने का विचार किया। सबने निश्चय किया कि सब मिलकर सामान इकट्ठा करें। यह विचार कर सब मिलकर सामान इकट्ठा करने लगे। कोई दूध लाया, कोई शक्कर लाया और कोई चावल। इस प्रकार सब सामान इकट्ठा कर खीर पूड़ी बनाई और खुशी-खुशी सब खाने बैठे। लेकिन खीर का बँटवारा लोभवश नहीं कर सके और चापस में भाग देने लगे। यहाँ तक कि वे खीर को छोड़कर न्याय कराने न्यायालय गये। जब वापिस लौटे तो देखते क्या हैं कि न खीर है न पूड़ी। कुत्ते सब खा गये। यह तमाशा देख सब दुखी हो भर गये।

उपनय

जिस प्रकार बड़ी मुश्किल से तैयार की हुई खीर पूड़ी दरिद्र परिवार नहीं खा सका उसी प्रकार बड़ी कठिनता से प्राप्त इस-मनुष्य जन्म में सब सामग्री प्राप्त करके भी मनुष्य राग द्वेष के कारण उसका लाभ नहीं उठा सकता; इतना ही नहीं, मरने पर अनन्त काल तक मनुष्य जन्म पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिये मनुष्य को अपनी स्थिति पर संतोष करना चाहिये। दूसरों को सुखी देख द्वेष नहीं करना चाहिये, उसे तो धर्म सामग्री प्राप्त करनी चाहिये।

## ९ दो बनियों का दृष्टान्त

दो बनिये थे। वे बहुत ही गरीब थे। उन्होंने एक यज्ञ के मन्दिर में आकर उसे सेवा से प्रसन्न किया। यज्ञ ने प्रसन्न हो उन्हें वर माँगने को कहा। दोनों बनियों ने धन की प्रार्थना की। यज्ञ ने कहा कि तुम एक-एक गाड़ी ले आओ, मैं तुम्हें रत्नद्वीप में ले चलूँगा। वहाँ जाकर जिसने भी रत्न तुम भर सकी गाड़ी में भर लेना। फिर रात्रि के दो पहर शेष रह जावेंगे तब तुम्हें गाड़ी सहित तुम्हारे गाँव पहुँचा दूँगा। इतना सुनकर दोनों बनिये एक-एक गाड़ी ले आये और यज्ञ ने उन्हें रत्नद्वीप में पहुँचा दिया। एक बनिया तो तुरन्त रत्नों से गाड़ी भरने लगा। दूसरे बनिये ने एक सुन्दर महकती शैथ्या देखी। उसका दिल अति प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि अभी समय बहुत है कुछ आराम कर लूँ फिर गाड़ी भर लूँगा। इस तरह सोच कर वह सुन्दर शैथ्या पर सो गया। दैव-संयोग से उसे ऐसी गहरी नींद आई कि उसे दो बड़ी प्रातः का ध्यान नहीं रहा और सोता ही रहा। समय पर यज्ञ आया और उन दोनों बनियों को उनके गाँव पहुँचा दिया। पहला बनिया जिसने रत्नों से गाड़ी भरी थी मालदार हो गया और बड़े ठाट से रहने लगा, परन्तु दूसरा तो गरीब का गरीब ही रहा और बहुत पछसाने लगा।

### उपनय

शुद्ध गुरु, धर्म आदि की योगवाइँ रत्नद्वीप है जो बहुत पुण्य से प्राप्त होती है। मूर्ख लोग इस जन्म को प्रमाद, विषय वासना में गँवा देते हैं फिर पछवाते हैं। जो बुद्धिमान् होते हैं वे प्रथम बनिये की तरह सचेत रहते हैं। वे अग्रमत्त होकर धर्म-संनय करते हैं मन को इधर उधर विषय कषाय की ओर नहीं दौड़ाते और उत्तम व्यवहार, दान, शील, तप, भावना आदि धर्माचरण करते हुए सुखी होते हैं। जो प्रमाद में व सांसारिक विषय भोगों में लिप्त रहते हैं वे नष्ट होते हैं।

## १० दो विधाधरों का दृष्टान्त

दो विधाधरों ने वैताल्य पर्वत पर वशीकरण विधा साधने का विचार कर एक चोंडाल से साधनों के लिये उसकी दो कन्याएँ

मांगी। चाँडाल ने दो कन्याएँ दी। वे दोनों विधाधर विधा साधने में लग गये। उन दोनों में से एक तो विधा साधने में हड़ रहा और उस चाँडाल कन्या के हाव भाव में नहीं आया और दत्तचित्त हो छै महीनों में विधा साध अपने घर वापस आ गया। परन्तु दूसरा विधाधर उस चाँडाल लड़की के हाव भाव में फँसकर विषय भोग करने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि विधा तो सधी नहीं और जो कुछ विधा पढ़ी वह भी चाँडाल कन्या के संपर्क से जाती रही।

### उपनयन

विधाधर के पास सब अनुकूल सामग्री होने पर भी इन्द्रियों के वश होकर सब कुछ खो दिया। इस तरह संसार में भी मनुष्य लालचवश या इन्द्रियों के विकारवश होकर सब धर्म-धन को हार जाता है और विधाधर की तरह पछताता है, इसलिए मनुष्य को सचेत रहना चाहिए। प्रथम विधाधर की तरह जो कोई भी व्यक्ति मन को वश में करके काम करेगा वह अवश्य सिद्धि प्राप्त करेगा।

### ११ निर्भागी का दृष्टान्त

एक निर्भागी को किसी देव की सेवा करने से चिन्तामणि रत्न प्राप्त हुआ, वह बहुत सुख से रहने लगा। एक समय वह समुद्र यात्रा के लिए निकला। चाँदनी रात थी। चिन्तामणि रत्न की चमक को चंद्रमा की चमक से मिलाने के लिए बाहर निकाला। पर भाग्यहीन होने से वह चिन्तामणि रत्न समुद्र में गिर गया और वह पहले जैसा दरिद्र हो गया।

### उपनयन

यह मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, और इस जन्म में जैनधर्म चिन्तामणि रत्न के समान है। इस चिन्तामणि रत्न को बड़ी हिफाजत से रखना चाहिये, प्रमादवश खो नहीं देना चाहिए। नहीं तो पीछे पछताना पड़ेगा।

### ऊपर के दृष्टान्तों का सार

मनुष्य को विषयो के वश नहीं होना चाहिए। मन को वश में रखना अपना कर्त्तव्य (Duty) समझना चाहिए। उसे दुर्लभ मनुष्य जन्म तथा देव, गुरु, धर्म की योगवाँई का लाभ उठाना चाहिए।

## प्रत्येक इन्द्रियों के दृष्टान्त

पतङ्गमृगैणखगाहिमीनद्विपद्विपारिभ्रमुखाः प्रमादैः ।

शोच्या यथा स्युर्मृतिवन्धुःखैश्चिराय भावी त्वमपीति जन्तो ॥१४॥

अर्थ : पतंगा, भँवरा, हिरण, पत्ती, सर्प, मछली, हाथी, सिंह आदि एक-एक इन्द्रिय के वश होकर जिस प्रकार भ्रमण, बन्धन आदि दुःख पाते हैं उसी प्रकार हे जीव ! तू भी इन्द्रियों के वश होकर लंबे समय तक दुःख पावेगा ॥१४॥

विवेचन : इस श्लोक में बताया है कि प्रमाद त्यागना चाहिए । यदि प्रमाद करोगे तो बहुत दुःख उठाना पड़ेगा । अब यहाँ दृष्टान्त देकर समझाते हैं । विचारे तिर्यञ्च भी एक-एक इन्द्रिय के वश होने के कारण परवश हो बन्धन में आ जाते हैं और अन्त में मृत्यु की प्राप्त होते हैं । जिन मनुष्यों का पाँचों इन्द्रियों पर अंकुश नहीं उनका क्या हाल होगा ?

(१) भ्रमर : कमल की सुगन्ध से मस्त होकर भ्रमर कमल में बैठ जाता है और प्रातःकाल वह कमल सहित हाथी के पेट में पहुँच जाता है । अथवा वह हाथी के सिर के मद की खुशबू से मस्त होकर पास जाता है और कान की चपेट खाकर प्राण दे देता है । यह नासिका इन्द्रिय के वश होने का फल है ।

(२) पतंग : रात्रि में दीपक के प्रकाश से मुग्ध होकर उस पर भँवराता है और गिर कर जान दे देता है । यह चक्षु इन्द्रिय के वश होने का फल है ।

(३) हिरण : वंशी की सुन्दर आवाज से मस्त होकर हिरण शिकारी के जाल में फँस कर जान दे देता है । यह श्रवण इन्द्रिय के आधीन होने से हुआ ।

(४) पत्ती : जमीन पर पड़े हुए दानों के लोभ में पत्ती चिड़ीमार के जाल में फँस कर जान दे देता है, इससे लोभ न करना चाहिये । यह जिह्वा के वश में होने का फल है ।

(५) सर्प : बंसी के मधुर शब्दों के वश में होने से सर्प बम्बी से बाहर आकर सपेरे के हाथ आकर दुःख पाता है। यह श्रवण इन्द्रिय के वश में होने का दूसरा दृष्टांत है।

(६) मछली :—लोहे के काँटे पर लगे हुए मांस के टुकड़े को खाने के लोभ में मछली अपने तालवे में काँटा चुभा लेती है और मर जाती है। यह जीभ के वश होने का दूसरा दृष्टांत है।

(७) हाथी : हाथी को पकड़ने के लिए एक बड़ा खड्डा खोदते हैं उसे घास से ढक देते हैं और दूसरी तरफ हथिनी खड़ी कर देते हैं। हाथी हथिनी को देख काम-वश दौड़ता है, वह खड्डे में पड़ जाता है और पकड़ा जाता है। यह स्पर्श इन्द्रिय के अधीन होने का फल हुआ।

(८) सिंह : एक पिंजरे में बकरा बॉध देते हैं, सिंह बकरे को खाने के लिये पिंजरे में घुसता है और पकड़ा जाता है। यह रसना के वशीभूत होने का फल है।

इस प्रकार जब तिर्यञ्च भी एक-एक इन्द्रिय के वश होकर दुःख पाता है तो मनुष्य ज्ञानवान होकर भी पाँचों इन्द्रियों के वश हो जावे तो उसका क्या हाल होगा यह निचारना चाहिये।

प्रमाद त्याज्य है

पुरापि पापैः पतितोऽसि दुःखराशौ पुनर्मूढ ! करोषि तानि ।  
मज्जन्महापङ्क्तिववारिपूरे, शिला निजे मूर्ध्नि गले च धत्से ॥१५॥

अर्थ : हे मूर्ख ! तू पूर्व जन्म के पापों के कारण यहाँ दुःख पाता है और फिर भी तू पाप करता है। इसलिए तू अपने सिर पर और गले में भारी-भारी पत्थर बॉध कर कीचड़ में गिरता है ॥१५॥

भावार्थ :—तू पिछले भवों के पापों के कारण इस भव में दुःख पाता है। आगे फिर वही पाप करता है तो और भी गहरा डूबेगा, जैसे गले में पत्थर बॉधकर डूबने वाला ऊपर नहीं आता उसी प्रकार तू भी कीचड़ में डूबेगा, जहाँ से वापस निकलना असम्भव हो जावेगा।

सुख प्राप्ति और दुःख नाश का उपाय

पुनः पुनर्जीव तवोपदिश्यते, विभेषि दुःखात्सुखमीहसे च चेत् ।

धुरुष्व तत्किञ्चन येन वाञ्छितं, भवेत्तत्रास्तेऽवसरोऽयमेव यत् ॥१६॥

अर्थ : हे भाई ! हम तो तुम्हें बार-बार कहते हैं कि जो तुम दुःख से डरते हो और सुख की इच्छा करते हो तो हम ऐसा काम करो कि जिससे यह तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो । कारण कि तुम्हो यह अच्छा भौका मिला है ॥१६॥

भावार्थ : ज्ञानी गुरु महाराज कहते हैं कि हे जीव ! जो तू सुख की इच्छा करता है तो अभी जो अच्छा अवसर मिला है उसे भव खो । तुम्हें मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र, जैन धर्म, स्वस्थ इन्द्रियाँ और गुरु महाराज की योगवाड़ी आदि इतने अच्छे साधन प्राप्त हैं तो जब तक तेरी देह काम करती है तब तक धर्म-कार्य करले । जप, तप, संयम, धृति, व्यवहार शुद्धि, विरति इत्यादि करले, जिससे तेरी सब भव पीड़ा मिट जाय । ऐसा अवसर बार-बार नहीं आने का ।

सुख प्राप्ति का उपाय—धर्म सर्वस्व

धनाङ्गसौख्यस्वजनानसूनपि, त्यज त्यजैकं न च धर्ममार्हतम् ।

भवन्ति धर्माद्धि भवे भवेऽर्थितान्यमून्यमीभिः पुनरेषे दुर्लभः ॥१७॥

अर्थ : पैसा, शरीर, सुख, सगा-संबन्धी और अन्त में प्राण भी तज दे परन्तु एक वीतराग भगवन्त का बताया हुआ धर्म मत छोड़ना । धर्म से समस्त भवों में ये सब सुख प्राप्त हो जावेंगे परन्तु इन ( पैसा आदि वस्तुओं ) से धर्म मिलाना सम्भव नहीं ॥१७॥

भावार्थ : - मनुष्य इस संसार में अपने स्वार्थ के लिए क्या पना नहीं करता ? स्वार्थ के लिए धर्म त्याग देता है, झूठ बोलता है, झूठी शपथ खाता है, अभक्ष्य खाता है और अपेय पीता है, ये सब क्यों ? इसलिए कि यह जीव अभी यह नहीं समझता कि पौद्गलिक वस्तु क्या है, आत्मिक वस्तु क्या है और असली स्वार्थ क्या है ? ये सब

अज्ञान है। वह यह नहीं समझता कि जो कुछ ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है वह सब धर्म के कारण है। और उसी ऐश्वर्य से धर्म का नाश करना यह स्वामीद्रोह है जो बहुत बुरा है। शास्त्रकार कहते हैं "धर्म अर्थ इहां प्राणनेजी, छंडे पण नहीं धर्म" सर्ववन्त प्राणी धर्म के लिए सब कुछ त्याग देता है, परन्तु संसारी वस्तुओं के लिये धर्म को नहीं छोड़ता। कारण, धर्म त्याग देने से धन, यौवन और वैभव कुछ भी नहीं मिलता।

सकाम दुःख सहने से लाभ

दुःखं यथा बहुविधं सहसेऽप्यकामः,  
कामं तथा सहसि चैत्करुणादिभावैः ।  
अल्पीयसापि तव तेन भवान्तरे स्या  
दात्यन्तिकी सकलदुःखनिवृत्तिरेव ॥१८॥

अर्थ : यह जीव बिना इच्छा के जिस तरह अनेक प्रकार के दुःख सहन करता है, उसी तरह यदि करुणा आदि भावना से इच्छा पूर्वक थोड़े भी दुःख सहन करे तो भवान्तर में हमेशा के लिए उन सब दुःखों का अंत हो जावेगा ॥१८॥

भावार्थ : संसार में मनुष्य अनेक दुःख सहन करता है जैसे सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, दुष्ट मौलिक से अपमान तथा ताड़ना इत्यादि। ये सब सांसारिक सुख के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध सहन करता है। यदि यही दुःख स्वेच्छा से कर्मक्षय की भावना से सहन करे तो निर्जरा होती है। और यदि ये दुःख मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ्य भावना से सहन करे तो मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे एकेन्द्रिय, वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोरेन्द्रिय इसी तरह तिर्यचपन में यह पचेन्द्रिय जीव बिना ज्ञान के अनेक दुःख सहता है। वह केवल कर्म ही भोगता है और यदि यही दुःख स्वेच्छा से, पौद्गलिक सुख की इच्छा बिना भोगे तो इससे निर्जरा होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। स्वेच्छा से बिना सांसारिक सुख की इच्छा से दुःख भोगना सकाम निर्जरा है।



पाप कर्म को अच्छा मानने वाले के लिए

प्रगल्भसे कर्मसु पापकेपरे, यदाशया शर्म न तद्विनानितम् ।

विभावयंस्तच्च विनश्वरं द्रुतं, विभेषि किं दुर्गतिदुःखतो न हि ॥१६॥

अर्थ : जो सुख की इच्छा से तू पाप कर्मों में भूर्खता से तल्लीन होता है तो वह सुख उभर न होने से किसी काम का नहीं और जिन्दगी भी शीघ्र नाशवन्त है। जब तू यह सब समझता है तो है भाई ! तू दुर्गति के दुःख से क्यों नहीं डरता ॥१६॥

भावार्थ : बहुत से प्राणी पाप कर्मों को अच्छा मानते हैं और उनमें अनेक लाभ बतलाते हैं। जैसे व्यापार में छलकपट से लाभ। इस प्रकार लाभ की इच्छा करने वाले को सोचना चाहिए कि ऐसा सुख बहुत हुआ तो इस भव में पा लेगा। परभव में तो साथ जाने वाला नहीं। ये हवेली, वाग, वगीचे और सब पेश की चीजें यहीं रह जावेंगी। क्योंकि जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं। जब जिन्दगी इतनी अस्थिर है तो यहाँ थोड़े सुख के लिए पाप कर अगले जन्म के लिए बहुत दुःख संचय करना कोई बुद्धिमानी नहीं है।

### दृष्टान्त सेठ और महन्त

एक सेठ ने बहुत सुन्दर बँगला बनवाया, सजावट करवाई, दूर-दूर देशों से सामान मँगवाया, चित्राम के लिए बड़े-बड़े कारीगर बुलाये और जब बन कर तैयार हो गया तब लोगों को बुलाकर दिखाया, और वह सजावट के सामान की प्रशंसा सुनने की तीव्र इच्छा रखता। एक वार उनके गुरु महाराज आए। उनको मकान खूब घूम-घूम कर दिखाया और प्रत्येक सामान की प्रशंसा करता। परन्तु गुरु महाराज मौन रहे। अन्त में सेठ ने पूछा क्या महाराज इस सुन्दर बंगले में कोई कसर रह गई है जिसके कारण आप बोलते नहीं। यह सुन महाराज बोले, "हाँ"। तब सेठ ने चकित होकर पूछा "क्या" ? महाराज ने कहा बगला इत्यादि सब ठीक है पर इस बंगले में दरवाजे नहीं होने चाहिये सेठ ने चकित हो पूछा, 'क्यों' ? तब महाराज ने उत्तर दिया कि एक दिन ऐसा आयगा

कि लोग तुम्हें इन्हीं दरवाजों से बाहर निकालेंगे। यदि ये दरवाजे न होते तो तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकते थे।। सेठ इसका अभिप्राय समझ गया। उसी दिन से उसने सांसारिक वस्तुओं से मोह छोड़ दिया और अन्त में उन्हीं महाराज के पास दीक्षा लेली।

तेरे कार्य और भविष्य का विचार

कर्माणि रे जीव ! करोषि तानि, यैस्ते भविष्यो विपदो ह्यनन्ताः।

ताभ्यो भिया तदधसेऽधुनां किं, संभाविताभ्योऽपि भृशकुलत्वम् ॥२०॥

अर्थः—हे जीव ! जब तू ऐसे कर्म करता है कि जिनसे तुम्हें भविष्य में अनन्त आपत्तियाँ मिलेंगी तो तू सम्भावित आपत्तियों के डर से अभी इतना क्यों घबराता है (अर्थात् घबराता है तो पाप मत कर) ॥२०॥

भावार्थः—जब व्याख्यान सुनते हैं और नारकी के दुःखों का वर्णन सुनते हैं तो कँपकँपी आ जाती है। किस प्रकार परमाधर्मी देव पापी जीव को कष्ट देते हैं तथा नारकी के जीव अगले भव का वैर कैसे बुरी तरह निकालते हैं, यह सुनते हैं तो मनुष्य का हृदय कँपने लगता है। तियेञ्च जीव को कितना दुःख होता है यह तो प्रत्यक्ष देखते हैं। यह सब जान कर भी लोग पाप करते हैं। अतः देखना चाहिये कि पाप करने में और पापजनित दुःख सुनकर कँपकँपी आने में कितना अन्तर है; याने पाप करने में हिचकिचाहट नहीं पर पाप का दुःख सुनकर घबराहट हो जाती है। यदि पाप करते समय हिचकिचाहट हो तो पाप करने से बच सकता है।

अपने साधियों की मृत्यु से ज्ञान

ये पालिता वृद्धिमिताः सहैव, रिग्घा भृशं स्नेहपदं च ये ते।

यमेन तानप्यदयं गृहीतान्, ज्ञात्वापि किं न त्वरसे हिताय ॥२१॥

अर्थः जो तेरे साथ पले-पोसे, मोटे हुए, जिनसे अत्यन्त मोह था और जो तुम्हसे स्नेह रखते थे, उनको भी यमराज ने निर्दयता से उड़ा

लिया। यह जान कर भी तू अपने हिस के लिए क्यों नहीं जल्दी करता ? ॥२१॥

भावार्थ:— जिनके साथ हम बचपन में खेले-कूदे, बड़े हुए और जिनके साथ बड़ा प्रेम था, और उनका भी हम पर बड़ा प्रेम था इसी प्रकार हमारे निकट सम्बन्धी जैसे माता पिता अथवा स्त्री या पति, और प्राणों से भी प्यारा पुत्र भी अचानक छोड़ चले जाते हैं या उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। यह अपना प्रति दिवस का अनुभव है। ऐसी स्थिति में यह सोचना चाहिये कि एक दिन अपने को भी जाना है। इसलिये जो कुछ आत्महित करना है वह कर लेना चाहिये। यह आत्महित क्या है यह समझ कर उसी के अनुसार आचरण करना चाहिये।

अपने पुत्र, स्त्री या सम्बन्धी के लिये पाप करने वालों को उपदेश

यैः क्लिश्यसे त्वं धनबन्ध्वपत्ययशःप्रभुत्वादिमिराशयस्थैः ।

कियानिह प्रेत्य च तैर्गुणस्ते, साध्यः किमायुश्च विचारयैवम् ॥२२॥

अर्थः कल्पना में रहा हुआ धन, सम्बन्धी, पुत्र, यश और प्रभुत्व की इच्छा से तू दुःख उठाता है। पर तू यह विचार कर कि तू इस भव में और परभव में इससे कितना लाभ उठा सकता है और तेरी उम्र कितनी है ? ॥२२॥

भावार्थः मनुष्य धन प्राप्ति के लिये अनेक कष्ट उठाता है तथा अपने पुत्रों के लिए धन छोड़ जाने को अथवा संसार में अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहन कर न्याय-अन्याय से धन इकट्ठा करता है ? ऐसा करने में उसे यह सोचना चाहिये कि इससे उसे आत्मिक लाभ क्या है। इस भव में जो सुख प्राप्त होने की आशा रखता है वह कितने समय के लिये ? क्योंकि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, और परभव में भी मेरे किये हुए कार्य से क्या असर होगा ? कहीं मैं नरक या निर्गोध के पाप तो नहीं षोँध रहा हूँ कि जहाँ से अनन्त काल तक छुटकारा नहीं होगा। मनुष्य संसार में आया है, उसे अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। जैसे पिता-धर्म, पुत्र-धर्म, जाति

अथवा देश-धर्म को वह जरूर निभाये, पर लक्ष्य उसकी न्यायोचित काय की ओर रहना चाहिये जिससे पाप बन्धन नहीं हो और आत्मिक सुख की प्राप्ति हो।

परदेशी पथिक का प्रेम हितवचन

किमु मुद्घसि गत्वरैः पृथक् कृपणैर्वन्धुवपुःपरिग्रहैः ।

विमृशस्व हितोपयोगिनोऽवसरेऽस्मिन् परलोकपान्थ रे ॥२३॥

अर्थः—हे परलोक में जाने वाले पथिक ! अलग-अलग (स्थान की) जाने वाले ऐसे भाई बन्धु, शरीर और पैसे से तू मोह क्या करता है ? तू तो इस समय ऐसा उपाय कर जिससे तेरे सुख में बढ़ोतरी हो ॥२३॥

भावार्थः—स्त्री, पुत्र, धन ये सब शरीर छूटते ही अलग अलग हो जाते हैं। पैसा घर में रह जाता है, स्त्री घर की देहली तक जाती है, पुत्र श्मशान तक जाता है और शरीर चिता तक जायगा, पर अन्त में तू अकेला ही जायगा, इनमें से कोई तेरा साथ देने वाला नहीं। ये सब कुछ जो मिले हैं वे अल्प समय के लिये एक मेले की तरह मिले हैं और अन्त में सब अपने अपने ठिकाने चले जायेंगे।

जेम भेलो तीरथ भले रे, जनवणजनी काज,  
कोई टोटी कोई फायदा रे, लेई लेई निज घर जाय ।

संसार की स्थिति इस प्रकार की है, इसे समझो और सोचो कि हित कहीं है ? यह समझ कर जन-समूह का हित हो ऐसा काम करो, आत्महित साधन करो और संसारी अप्रपंचों से दूर रहो। इससे संसार चटेगा।

आत्म जाग्रति

सुखमारो सुखं शेषे, भुङ्क्षे पिबसि खेळसि ।

न जाने त्वप्रतः पुण्यैर्विना ते किं भविष्यति ॥२४॥

अर्थः—सुख से बैठते हो, सुख से रहते हो, सुख से खाते हो, सुख से पीते हो और सुख से खेलते हो। परन्तु आगे पुण्य विना तेरा क्या हाल होगा सो तू नहीं जानता ॥२४॥

भावार्थ: मनुष्य के पास सत्र सांसारिक सुख हैं, वह अच्छा खाता है अच्छा पीता है, मौज शौक करता है, सब तरह के भोग भोगता है और अपने आपको सुखी मानता है। उसे समझना चाहिये कि ये सब सुख पूर्व पुण्य के प्रभाव से हैं। तूने पूर्व जन्म में पुण्य संचय करके ये सुख प्राप्त किये। पर अब सोच कि तूने अगले जन्म के लिये कितना पुण्य संचय किया। इसलिये तू पुण्य-संचय करने में ध्यान रख और खाने पीने, मौज शौक में समय मत खो।

थोड़े कष्ट से-तो तू डरता है और बहुत दुःख पावे ऐसा कार्य करता है

शीतान्तापान्मक्षिकाकतृणादिस्पर्शाद्युत्थात्कष्टतोऽल्पाद्विभेषि ।

तास्ताश्चैभिः कर्मभिः स्वीकरोषि, श्रम्रादीनां वेदना विग्धियं ते ॥२५॥

अर्थ: सर्दी, गर्मी, मधुमक्खी के डंक, और तीखे तिनके के चुभने से जो थोड़ा कष्ट होता है और थोड़े समय के लिये होता है उसको तू सहन नहीं कर सकता और तू स्वयं ऐसे कर्म करता है जिससे नरक निगोद की महावेदना तुम्हें होगी, तो तेरी बुद्धि को धिक्कार है ॥२५॥

भावार्थ:—ज्ञानी गुरु महाराज को बड़ा आश्चर्य होता है कि यह जीव यहाँ बड़े ऐश आराम से रहता है। सर्दी अथवा गर्मी सहन नहीं कर सकता, मच्छर खा जावे तो वह भी सहन नहीं, एक छोटा तिनका या कौंटा कपड़ों में हो तो बड़ी पीड़ा होती है और एक उपवास भी करे तो सुबह उठना कठिन हो जाता है। जब ऐसे छोटे कष्ट भी सहन नहीं कर सकते तो जो कर्म तुम यहाँ करते हो उससे परभव में अभी के दुःख से कई गुणा अधिक दुःख होगा वह कैसे सहन होगा। अतएव तुमका धर्म-धन का संचय करना चाहिये और गुरु महाराज के उपदेशानुसार वर्तन करना चाहिये ताकि नरक निगोद का दुःख पाने का मौका ही न आवे।

उपसंहार—पाप का डर

कचित्कषायैः कर्षणं प्रमादैः, कदाग्रहैः कापि च मत्सराद्यैः ।

आत्मानमात्मन् कलुषीकरोषि, विभेषि विड्-नो नरकादप्रर्मा ॥२६॥

अर्थ: हे आत्मन् ! किसी समय कषाय करके, किसी समय प्रमाद करके, कभी कदाग्रह करके और कभी मत्सर करके आत्मा को मलिन करता है। अरे तुझे धिक्कार है ! तू ऐसा पापी है कि नरक से भी नहीं डरता ॥२६॥

भावार्थ: यह जीव कभी क्रोध करता है, कभी अहंकार करता है, कभी कपट करता है, कभी पैसे के लिये हाय हाय करता है, कभी अविरतिपने में आनन्द मानता है, कभी मन में अशुद्ध विचार लाता है, कभी अपने कुल, बल, विद्या, धन को गर्व करता है, कभी किसी स्त्री को देख आसक्त होता है, कभी राजकथा, देश कथा या स्त्री कथा करता है। कभी लोभवश जाति, संघ या देश की कुछ हानि भी हो उसकी परवाह नहीं करता और मनमानी करता है, कभी असत्य बोलता है, घोखा देता है, चोरी करता है, इस प्रकार अनेक तरह से अपनी आत्मा को मलिन करता है और संसार भ्रमण का हेतु पाप इकट्ठा करता है। इसलिये हे चेतन ! तू घेत

X                      X                      X                      X

इस सम्पूर्ण अधिकार का सार यह है कि आत्मा को अपने आत्मिक सुख तथा पौद्गलिक सुख में क्या भेद है यह समझना चाहिये। अपनी वस्तु और पराई वस्तु क्या है यह जानना चाहिये। चेतन आत्मा शुद्ध स्वरूप है लेकिन अनादि कर्मों के अभ्यास के कारण अपनी शुद्ध आत्मा पर अनेक आवरण चढ़ गये हैं। इसलिये शुद्ध आत्मा दृष्टिगोचर नहीं होती। आजकल का वातावरण भी आत्मिक शुद्धि को समझने के प्रतिकूल है। इसलिये आत्मिक गुण को समझने के लिये संसार के प्रति वैराग्य पैदा करना आवश्यक है। यह भी समझना चाहिये कि जो कुछ दुःख अथवा संसार भ्रमण होता है वह सब विषय वासना तथा कषाय के कारण होता है। यदि विषय-कषाय वश में हो जावे तो संसार-भ्रमण मिट जावे।

वैराग्य तीन कारणों से होता है, एक इच्छित वस्तु के न मिलने से और अनिच्छित वस्तु के प्राप्त होने से, इसे शास्त्र का दुःख-गर्भित वैराग्य कहते हैं। दूसरा आत्मा को खोटी रीति से वैराग्य हो

उसे मोहगर्भित वैराग्य कहते हैं। तीसरा आत्मा के शुद्ध स्वरूप को समझने से संसार की तरफ से उदासीन होना, वह ज्ञानगर्भित वैराग्य कहलाता है। यह अन्तिम वैराग्य, जिससे वस्तु स्वरूप का बोध होता है, यही भवभ्रमण मिटाकर मोक्ष देता है।

मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। ८४ लाख जीव योनियों में भटकने के बाद यह मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, इस बात को बार बार विचार करना चाहिये। मनुष्य तात्कालिक सुख के पीछे असली सुख भूल जाता है। वह नहीं समझता कि यह संसार स्वार्थ का है और दो दिन के मेले के समान है। कोई किसी के काम नहीं आ सकता। मनुष्य को अपना कार्य करते हुए जो समय मिले उसे अपने स्वरूप के विचार में लगा देना चाहिये। आत्मा में अनन्त शक्ति है, वह कर्म के पुद्गलों से ढकी है। इन कर्म पुद्गलों को हटाने को आत्मदर्शन की आवश्यकता है। आत्मदर्शन के लिये वैराग्य आवश्यक है। यह बात जाननी चाहिये कि संसार और वैराग्य में मेल नहीं है। जहाँ संसार है वहाँ कर्म है और जहाँ कर्म है वहाँ वैराग्य अथवा आत्मदर्शन नहीं। संसार के प्रति वैराग्य भावना अपनाने के लिये शुद्ध विचारों की आवश्यकता है और अपने प्रत्येक कार्य पर निगरानी रखना आवश्यक है।

# एकादश अधिकार

## धर्म शुद्धि

मनोनिग्रह और वैराग्यभाव तभी फल देते हैं जब शुद्ध देव, गुरु और धर्म का ज्ञान हो।

धर्म शुद्धि का उपदेश

भवेद्भवापायविनाशनाय यः तमज्ञ धर्मं कलुषीकरोषि किम् ।

प्रमादमानोपधिमत्सरादिभिर्न मिश्रितं द्यौषधमामयापहम् ॥१॥

अर्थ : हे मूर्ख ! जो धर्म तेरी सब सांसारिक विडम्बनाओं का नाश करने वाला है उसे ही तू प्रमाद, मान, माया, मत्सर आदि से क्यों मलिन करता है ? इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि मिश्रित औषधि के सेवन से व्याधि नष्ट नहीं होती ॥१॥

भावार्थ : धर्म का अर्थ यहाँ वीतराग भगवान् के उपदेश के अनुसार मन, वचन तथा काया का शुद्ध व्यापार है। धर्म का शब्दार्थ तो धारयति इति धर्मः गरकादि अधोगति में पड़ते जीव को उच्च स्थान ले जाने वाला धर्म है। स्वरूप में विद्यमान आत्मा हलकी होती है, पर कर्म-पुद्गलों से लिप्त होने पर भारी हो जाती है। जैसे भारी वस्तु नीचे जाती है उसी प्रकार कर्मों से लिप्त आत्मा भी नीचे जाती है। यहाँ हलकी आत्मा अर्थात् कर्म पुद्गलों से रहित होने पर ऊपर जाती है, अर्थात् मोक्ष की ओर जाती है। आत्मा को कर्म रहित करने के उपाय सामायिक, पूजा, प्रतिष्ठा, देश सेवा, जन-समूह-सेवा और प्राणी-सेवा आदि है। यही धर्म है। यहाँ कवीश्वर कहते हैं कि धर्म-शुद्धि से जन्म, जरा, मृत्यु का भय नष्ट होता है। परन्तु यह जीव प्रमाद, मान, माया, कपट आदि से अपने आपको तथा धर्म को मलिन कर देता है। जीव कषाय विषयादि में फँस कर धर्म को मलिन करता है। इस प्रकार दुःख टालने की शक्ति का नाश करता है।



शुद्ध पुण्य को नाश करने वाला वस्तुएँ

शैथिल्यमात्सर्यकदाग्रहकुधोऽनुतापदम्भाविधिगौरवाणि च ।

प्रमादमानौ कुगुरुः कुसंगतिः श्लाघार्थिता वा सुकृते मत्ता इमे ॥२॥

अर्थ : शिथिलता, मत्सर, कदाग्रह, क्रोध, अनुताप, दम्भ, अविधि, गौरव की भूल, प्रमाद, मान, कुगुरु, कुसंग, आत्म-प्रशंसा के श्रवण की इच्छा, ये सब सुकृत्य या पुण्य राशि में मैल रूप हैं ॥२॥

भावार्थ : नीचे बताए हुए पदार्थ पुण्य रूपी सोने में मैल के समान अथवा चन्द्रमा में कलंक स्वरूप हैं, इनको अच्छी तरह समझना चाहिए ।

१. धर्म क्रिया आवश्यक क्रिया चैत्यवन्दन आदि में मन नहीं लगना शिथिलता
२. दूसरे के गुणों को नहीं देख सकना तथा उनसे जलना ईर्ष्या
३. झूठी बात को पकड़ कर बैठना और कहना कि यह सही है कदाग्रह
४. क्रोध करना क्रोध
५. शुभ काम में पैसा लगाकर पश्चात्ताप करना अनुताप
६. कहना कुछ और करना कुछ माया कपट
७. शास्त्र में बताई मर्यादा के अनुसार नहीं करना अविधि
८. कोई अच्छा काम कर घमण्ड करना मान
९. समकित और प्रव रहित गुरु कुगुरु की सेवा
१०. नीच की संगति कुसंगति
११. अपनी प्रतिष्ठा को दूसरे के मुख से सुनने की इच्छा- श्लाघा, ये वस्तुएँ पुण्य रूपी सोने में मैल स्वरूप हैं। ये संसार में भ्रमण कराने वाली हैं।

पर गुण प्रशंसा

यथा तवेष्टा स्वगुणप्रशंसा, तथा परेषामिति मत्सरोऽम्भी ।

तेषामिमां संतनु यत्त्वमेथास्तां नेष्टदानाद्धि विनेष्ट्वामः ॥३॥

अर्थ : जिस तरह तुम्हें अपने गुणों की प्रशंसा अच्छी लगती है उसी प्रकार दूसरे को भी अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। इसलिए ईर्ष्या छोड़ कर उसके गुणों की प्रशंसा अच्छी तरह करो। जिससे तुममें भी वे गुण आ सकें, क्योंकि प्यारी वस्तु दिये बिना प्यारी वस्तु नहीं मिलती ॥३॥

भावार्थ : यदि अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा है तो तुमको दूसरे की प्रशंसा सुनकर द्वेष नहीं करना चाहिए। बल्कि तुम खुद भी उसकी प्रशंसा करो। ऐसा करने से वह तुम्हारी प्रशंसा करेगा। मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है कि तुम अच्छी चीज दोगे तो वह बदले में अच्छी वस्तु देगा। प्रशंसा करना और बदले में प्रशंसा प्राप्त करना यह तो व्यावहारिक बात हुई। परन्तु निष्काम वृत्ति से दूसरे के गुणों की प्रशंसा करने से वही गुण अपने में पैदा होते हैं।

अपने गुणों की प्रशंसा और दोषों की निन्दा

जनेषु गृह्यसु गुणान् प्रमोदसे,

ततो भवित्री गुणरिक्ता तव ।

गृह्यसु दोषान् परितप्यसे च चेद्,

भवन्तु दोषास्त्वयि सुस्थिरास्ततः ॥४॥

अर्थ : दूसरों से अपने गुणों की स्तुति सुन प्रसन्न होता है तो तू अपने गुणों का नाश करता है। यदि तू दूसरों से अपने दोष सुनकर दुखी होता हो तो तेरे दोष दृढ़ होते हैं ॥४॥

भावार्थ : यदि भाषण देने की चतुरता, तप, मान आदि में कोई गुण तुम्हमें है और तू अपने स्नेही जनों से उनकी चर्चा सुन प्रसन्न होता है या धमका करता है तो तेरे गुणों का अन्त हो रहा है ऐसा निश्चय से जान। परन्तु जो लोग गुण के लिए गुण से प्रेम करते हैं और जो लोग उनकी प्रशंसा करते हैं उन पर ध्यान नहीं करते वे पुरुष धन्य हैं। इसी प्रकार यदि कोई तुम्हारे अवगुण देख तुम्हारी निन्दा करे और तुम उन पर क्रोध करते हो तो तुम अपने अवगुणों

को नहीं हटा सकोगे। वे दोष बढ़ते ही जावेंगे और अन्त में धोखा होगा।

### शत्रु गुण प्रशंसा

प्रमोदसे स्वस्य यथान्यनिर्मितैः, स्तवैरतथा चेत्प्रतिपान्थिनामपि ।

विगर्हणैः स्वस्य यथोपतप्यसे, तथा रिपूणामपि चेततोऽसि वित् ॥५॥

अर्थ : दूसरों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर जिस प्रकार तुम्हें आनन्द होता है उसी प्रकार अपने शत्रु की प्रशंसा सुनकर यदि तुम्हें प्रसन्नता होती है और अपने दोष सुनकर जैसे तुम्हें दुःख होता है वैसे ही अपने वैरी के दोष सुनकर यदि तुम्हें दुःख होता है तो तू वास्तव में समझदार है। क्योंकि गुणी मनुष्य गुणी की प्रशंसा करता है। गुणी मनुष्य बिना संकोच के सब जगह से गुणों को ग्रहण करता है।

### परगुण प्रशंसा

स्ववैर्यथा स्वस्य विगर्हणैश्च, प्रमोदतापौ मजसे तथा चेत् ।

इमौ परेषामपि तैश्चतुर्ष्वप्युदासतां वासि ततोऽर्थवेदी ॥६॥

अर्थ : जिस प्रकार अपनी प्रशंसा अथवा निन्दा सुनकर आनन्द अथवा दुःख होता है उसी प्रकार दूसरे की प्रशंसा या निन्दा सुनकर तुम्हें आनन्द या दुःख होता है अथवा इन चारों स्थितियों में तुम्हें न खेद होता न आनन्द होता है, अर्थात् तू उदासीन वृत्ति रखता है तो तू वास्तव में ज्ञानी है ॥६॥

गुणों की प्रशंसा की इच्छा हानिकारक है

भवेन्न कोऽपि स्तुतिमात्रतो गुणी,

ख्यात्या न वह्यापि हितं परत्र च ।

तदिच्छुरीष्यादिभिरायति ततो,

मुधामिमानग्रहिलो निहंसि किम् ॥७॥

अर्थ :—लोग किसी के गुण का बखान करें तो इससे उसे कोई लाभ होने वाला नहीं और बहुत ख्याति से भी अगले भव में हित होने की संभावना। नहीं इसलिए आने वाले भव में यदि मनुष्य अपना हित करना चाहता है तो निकम्मे अभिमान के बशीभूत हो ईर्ष्या करके वह अगले भव को क्यों बिगाड़ता है ? ॥७॥

विवेचन : कोई मनुष्य यह समझे कि लोग मेरी स्तुति करते हैं इससे मुझे कुछ लाभ होता है अथवा मेरा परलोक सुधरता है ऐसा सोचना हितकर नहीं है। यथार्थ स्तुति सुन धमराक के बशीभूत हो वह अपना पर-भव बिगाड़ लेता है। इसलिए स्तुति सुनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। पर-स्तुति के योग्य बनना श्रेष्ठ कार्य है। कोई अपनी स्तुति करे या न करे इसमें अपनी कोई हानि नहीं। पर-स्तुति कराने के लिए आडम्बर करना बुरा है, मनुष्य को अपनी वास्तविकता के अनुसार ही बर्ताव करना चाहिए। लोग परभव में अपना हित चाहते हैं, पर काम वे ऐसा करते हैं कि जिससे परभव बिगाड़ता है। वे इस भव में दूसरों के गुण या स्तुति देखकर ईर्ष्या करते हैं। पराये गुणों की पूरी प्रशंसा नहीं करते अथवा गुणों की उपेक्षा कर उसकी निन्दा करते हैं। ऐसा करने वाले पुरुष अपना परभव बिगाड़ते हैं। इसलिए लोगों के मुख से स्तुति सुनने की इच्छा से कोई काम नहीं आरम्भ करना चाहिये। क्योंकि गुण तो प्रकाश में अवश्य ही आ जायेंगे। जैसे कस्तूरी डिब्बी में बन्द रहने पर भी उसकी सुगन्ध चारों तरफ फैल जाती है। इसी तरह गुण भी स्वयंमेव सबको प्रकट हो जावेंगे। इस प्रकार उसका परभव बिगाड़ने से बच जायगा।

शुद्ध धर्म करना चाहिए चाहे थोड़ा ही हो

सृजन्ति के के न बहिर्मुखा जनाः प्रमादमात्सर्यकुबोधविप्लुताः ।

दानादिधर्माणि मलीमसान्यमून्पुपेक्ष्य शुद्धम् सुकृतं चराणवपि ॥८॥

अर्थ : प्रमाद, मात्सर्य और मिथ्यात्व से घिरे हुए कितने ही सामान्य लोग दान इत्यादि धर्म करते हैं पर ये धर्म मलिन हैं। इनकी उपेक्षा करके एक अणु के बराबर भी शुद्ध सुकृत्य कर सके तो तू अवश्य कर ॥८॥

भावार्थ : मनुष्य प्रमाद वश अर्थात् मद्य, विषय-कषाय, विक्रिया आदि के कारण अथवा मात्सर्य अर्थात् पराई ऋद्धि से, ईर्ष्या से तथा मिथ्यात्व आदि से धिरा हुआ जो कुछ दान, शील, तप तथा मिथ्यात्व मान्यता, दृष्टिराग के कारण अयोग्य व्यक्तियों के लिये लाखों रुपया खर्च कर देता है अथवा अज्ञान से लंघन ( उपवास ) आदि करता है वह सब निरर्थक है । अथवा नाम कमाने के लिये जो लाखों रुपये खर्च करता है वह भी निरर्थक है । वह धर्म कार्य को कर्त्तव्य करने वाला है । यह सब सोने की थाली में तौबे की मेख के समान है, इष्ट फल को रोकने वाला है और संसार को बढ़ाने वाला है । यदि तुमको अपना इष्ट साधन करना है तो उपरोक्त दोषों का त्याग कर शुद्ध धर्म करो । इस प्रकार तुमको बहुत आनन्द प्राप्त होगा ।

प्रशंसा विना किया हुआ सुकृत्य श्रेष्ठ है

प्राञ्छादितानि सुकृतानि यथा दधन्ते,  
सौभाग्यमत्र न तथा प्रकटीकृतानि ।

प्रीडानताननसरोजसरोजनेत्रा

वक्षःस्थलानि कलितानि यथा दुकूलैः ॥६॥

अर्थ : इस दुनिया में अप्रगट पुण्य और सुकृत्य ( गुप्तदानादि ) जितना फल देते हैं उतना फल प्रगट में किया हुआ सुकृत नहीं देता । जैसे लज्जा से मुख कमल को फुका लेने वाली कमलनयनी स्त्री का मुख तथा वस्त्र से ढका हुआ स्तन मण्डल जितना शोभा देता है उतनी शोभा मुख या स्तन निर्वस्त्र हो तो नहीं होती ॥ ९ ॥

भावार्थ :—गुप्त धर्म कार्य करने वाला पुरुष वास्त्व में अपने साथ लाभ बाँध कर परलोक ले जाता है और दुनिया चाहे उसका गुण गावे या नहीं उसे उसकी परवाह नहीं । जिस प्रकार कंचुकी पहने ऊपर से साड़ी पहने हुए स्त्री के स्तनों को जो शोभा है वैसी शोभा विना वस्त्र धारण किए स्तनों की नहीं । इसी तरह गुप्त सुकृत्य अधिक सौभाग्य देते हैं । गुप्त सुकृत्य करने वाले को बहुत शान्ति होती है । उस सुकृत्य का ध्यान ( विचार ) भी आत्म-संतोष देता है । यह

भाव ध्यान में रखनी चाहिये कि जो कार्य किया जावे वह आत्मिक संतोष के लिये हो।

एवगुण प्रशंसा में कोई लाभ नहीं

रुतैः श्रुतैर्वाप्यपरैर्निरीक्षितैर्गुणैस्तवात्मन् सुकृतैर्न कश्चन् ।

फणन्ति नैव प्रकटोक्तैर्भुवो, द्रुमा हि मूलैर्निपतत्यपि त्वधः ॥१०॥

अर्थ :—तेरे गुणों अथवा सुकृत्यों की दूसरे लोग स्तुति करें अथवा सुनें या तेरे अच्छे कामों को दूसरे मनुष्य देखें, इससे हे चेतन ! तुझे कुछ भी लाभ नहीं। जिस प्रकार वृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया जाय तो उस वृक्ष में फल नहीं आते, वह तो जमीन पर गिर जाता है। उसी प्रकार ये अच्छे काम भी नष्ट हो जाते हैं।

भावार्थ :—जिस वृक्ष की जड़ की मिट्टी हटादी जाती है वह वृक्ष तो भूमि पर गिर जाता है। उस पर फलों को देखना वृथा है। उसी प्रकार दूसरों को दिखा कर किया गया सुकृत नष्ट हो जाता है, उस सुकृत के फल नहीं मिल सकते।

वास्तव में अपने गुणों की दूसरा व्यक्ति प्रशंसा करे इस भावना से कोई लाभ नहीं। मनुष्य को कीर्ति व मान की इच्छा करना भी अज्ञानता है। बुद्धिमान् मनुष्य कीर्ति की अभिलाषा कभी नहीं करता। कीर्ति तो उसे स्वयं ही मिल जाती है।

गुण के विषय में मात्सर्य करने की गति

तपः क्रियावश्यकदानपूजनैः, शिवं न गन्ता गुणमात्सरी जनः ।

अपथ्यभोजी न निरामयो भवेद्रसायनैरप्यतुल्यैर्यदातुरः ॥११॥

अर्थ :—गुणों के विषय में ईर्ष्या करने वाला पुरुष यदि तपश्चर्या, आवश्यक क्रिया, दान और पूजा भी करे तो मोक्ष नहीं पाता। जिस प्रकार बीमार आदमी यदि अपथ्य भोजन करे तो कितनी ही दवा लेने पर भी वह कभी ठीक नहीं होता ॥ ११ ॥

भावार्थ :—जिस प्रकार अपने किये सुकृत्य की स्तुति सुनना धर्म-

शुद्धि में मल स्वरूप है। इसी प्रकार पराये गुणों पर ईर्ष्या करना या छुपाना भी मल स्वरूप है। इसलिये ईर्ष्या करने वाला कितना भी धर्मकृत्य करे सब निष्फल है। जिस प्रकार यदि वीमार आदमी कुपथ्य खावे तो अर्च्छा रसायन भी उसे कुछ गुण नहीं करता। भात्सर्य धारण करने वाला पुरुष कर्मों भोक्त नहीं पा सकता।

शुद्ध पुण्य अल्प हो तो भी अर्च्छा

मन्त्रप्रभारत्नरसायनादिनिदर्शनादल्पमपीह शुद्धम् ।

दानार्चनावश्यकपौषवादि, महाफलं पुण्यमितोऽन्यथान्यत् ॥१२॥

अर्थ :—मन्त्र, प्रभा, रत्न, रसायन आदि दृष्टान्तों से (ज्ञात होता है) दान, पूजा, आवश्यक, पौषध आदि (धर्म क्रिया) बहुत थोड़ी भी क्यों न हो परन्तु यदि शुद्ध हो तो महान् फल देती है। इसके विपरीत यदि ये अशुद्ध हों तो मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति नहीं होती ॥१२॥

भावार्थ :—उच्चारण की दृष्टि में मन्त्र छोटा होता है, पर उससे देव प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य आकार में छोटा दिखाई देता है, पर उसकी प्रभा संसार का अंधकार दूर कर देती है। रत्न छोटा होता है, पर बहुत कीमती होता है। रसायन थोड़ा होने पर भी बहुत गुण करता है। इसी प्रकार दान, पूजा, पौषध आदि धर्म अनुष्ठान चाहे थोड़े ही क्यों न हों पर यदि शुद्ध हों तो अत्यन्त लाभदायक होते हैं। अतः मनुष्य को कार्य की शुद्धता, सुन्दरता और तात्त्विकता की ओर ध्यान देना चाहिये।

Never look to the quantity of your action but pay particular attention to the quality thereof. अर्थात् यह देखना चाहिये कि कार्य कैसा किया, यह नहीं कि कितना किया। आवश्यक क्रिया करते समय बराबर अपने किये दुष्कृत्य पर परचात्ताप करना चाहिये और पौषध में भाव-शुद्धि करके समता लाना चाहिये तभी अपना वैज्ञा पार होगा।

ऊपर की बात दृष्टान्त से समझाते हैं

दीपो यथात्पोऽपि तंभासि हन्ति, लवोऽपि रोगान् हरते सुधायाः ।  
तृण्यां दहत्याशु कणोऽपि चाग्नेर्धर्मस्य लेशोऽप्यमलस्तथाहः ॥१३॥

अर्थ :—एक छोटा सा दीपक अंधकार को हटा देता है। अमृत की एक बूँद अनेक रोगों को मिटा देती है। अग्नि की एक चिनगारी भी खेड़ों में भरी घास को भस्म कर देती है। इसी तरह धर्म का एक अंश भी यदि निर्मल हो तो पाप का नाश कर देता है ॥१३॥

भाव और उपयोग से रहित क्रिया—केवल काया क्लेश

भावोपयोगशून्याः, कुर्वन्नावश्यकीः क्रियाः सर्वाः ।

देहक्लेशं लभसे, फलभाष्यसि नैव पुनरासाम् ॥१४॥

अर्थ : भाव और उपयोग बिना की गई सब आवश्यक क्रियाएँ केवल काया-क्लेश मात्र हैं। उनका फल तुम्हें मिलेगा नहीं ॥१४॥

विवेचन :—जिस प्रकार धर्म क्रिया करने में शुद्ध भाव की आवश्यकता है उसी प्रकार उपयोग अर्थात् विवेक की भी आवश्यकता है। इन दोनों के बिना सब क्रियाएँ केवल काया-क्लेश मात्र हैं अर्थात् फल देने वाली नहीं हैं कहा भी है

भाव बिना दानादि का, जाणो अल्लणो धान ।

भाव रसांग मल्ये थके दूटे कर्म निदान ॥

बिना भाव की क्रिया बिना नमक के भोजन समान है। बिना भाव से की गई क्रियाएँ कुछ फल नहीं देती—यह इस दृष्टान्त से समझाते हैं—वीर शालवीजी तथा श्रीकृष्णजी दोनों ने अट्टारह हजार साधुओं की एक साथ वन्दना की। श्रीकृष्णजी ने भावयुक्त वन्दना की तो उनका सावर्षी नारकी का बंध बटकर तीसरी नारकी का रह गया, परन्तु वीरशालवीजी ने बिना भाव के वन्दना की तो कोई लाभ नहीं हुआ। इनको केवल काया-क्लेश हुआ। एक श्रावक पुत्र लोक दिखावे के



लिये मन्दिर में जाकर देव-दर्शन करता है और दूसरा बड़ी भाव भक्ति से भगवान् के दर्शन या भक्ति करता है इन दोनों में बहुत अन्तर है। दूसरा पुस्तक देव-दर्शन कर कर्म निर्जरा करता है और आगे का रास्ता साफ करता है।

धर्म से कीर्ति, विद्या, लक्ष्मी, यश और पूर्ण शान्ति मिलती है। पर उसे इनकी इच्छा से नहीं करना चाहिये। धर्म-क्रिया जो भी की जावे शुद्ध भाव से युक्त होनी चाहिये न कि यश कीर्ति की इच्छा से। इससे सब प्रकार के सांसारिक सुख तथा मोक्ष सुख प्राप्त होते हैं।

धर्म प्राप्ति के अनेक साधन हैं। मेवार्य मुनि को सुनार ने मार डाला तो उसे राजा का भय हुआ इससे उसे तत्काल धर्म प्राप्त हुआ। सिद्धगुफा-निवासी साधु ने स्थूलभद्रजी से मात्सर्य किया तो उसे धर्म प्राप्त हुआ। सुहृत्स्थि महाराज के प्रतिबोध किये हुए शिष्य दमनक को लोभ से धर्म प्राप्त हुआ। बाहुबलिजी को हट से धर्म प्राप्त हुआ। गौतम स्वामी व सिद्धसेन दिवाकर को अहंकार करने से धर्म प्राप्त हुआ। प्रह्लाद चक्रवर्ती को शृंगार से धर्म प्राप्त हुआ। गौतम स्वामी के प्रतिबोधित १५०३ शिष्यों को कौतुक से धर्म लाभ हुआ। इलापुत्र को विस्मय से, अमयकुमार और आर्द्रकुमार को व्यवहार से धर्म प्राप्त हुआ। जम्बूस्वामी, घनगिरि, वज्रस्वामी, प्रसन्नचन्द्र तथा चिलावीपुत्र को वैराग्य से धर्म की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार गजसुकुमाल, वीरभ्रमु, पार्श्वभ्रमु, स्कंधमुनि आदि को क्षमा से धर्म प्राप्त हुआ, सुदर्शन सेठ, मल्लभ्रमु, नैमनाथजी, स्थूलभद्रजी, सीवा, द्रौपदी, राजिमति को शील से धर्म प्राप्त हुआ। इस प्रकार अनेक जीवों को किसी भी कारण से धर्म प्राप्त हो सकता है। धर्म-प्राप्ति के लिये किसी विशेष हेतु की जरूरत नहीं।

इस समस्त अधिकार में तीन बातें बताई हैं—

१. धर्म शुद्धि की आवश्यकता—प्रमाद, मात्सर्य आदि (श्लोक नं २) में बताये हुए मूल से बचना; यदि किसी कारण से भल आ जावे तो उसे हटाना।

२. स्वगुण प्रशंसा और मात्सर्य धर्म को अशुद्ध करने के कारणों में ये दो मुख्य हैं। जिनमें ये दोष हैं वे धर्म प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी प्रशंसा सुन मनुष्य बेभान हो जाता है और स्तुति करने वाले के बशीमूत हो जाता है। परन्तु स्तुति में कोई लाभ नहीं। स्तुति लायक आचरण करना तो अपना कर्ण्य है। इसलिये स्तुति सुनने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। पराया धन, वैभव, सुख और कीर्ति देख ईर्ष्या करना हानिकारक है। ये सब वस्तुएँ तो पुण्याधीन हैं। दूसरे से द्वेष करना पुण्य का नाश करना है।
३. भावशुद्धि और उपयोग प्रत्येक धर्म-कार्य में शुद्ध भाव और विवेक की जरूरत है। शुद्ध भाव और उपयोग से किया हुआ थोड़ा भी तप, जप और ध्यान बहुत फल देता है। बिना भाव के किया हुआ धर्म केवल काया-क्लेश है।

# छांदश आधिकार

## देव, गुरु, धर्म-शुद्धि

शुद्ध धर्म को बतलाने वाले तथा समझाने वाले गुरु महाराज हैं और धर्म की प्ररूपणा करने वाले श्री तीर्थङ्कर महाराज हैं। उनकी आज्ञा को चढ़ता से धारण कर उसके अनुसार व्यवहार करता हुआ या भावना को भावित करता हुआ मनुष्य तीर्थङ्कर के समान बन सकता है। इस काल में श्री तीर्थङ्कर-प्ररूपित धर्म को समझाने वाले गुरु महाराज हैं। अब गुरु महाराज कैसे होने चाहिये यहाँ उनके स्वरूप, तत्त्व, गुण आदि का वर्णन करते हैं।

गुरु तत्त्व की मुख्यता

तत्त्वेषु सर्वेषु गुरुः प्रधानं, हितार्थधर्मा हि तदुक्तिसाध्याः ।  
अयंस्तमेवेत्यपीक्ष्य मूढ, धर्मप्रयासान् कुरुषे वृथैव ॥१॥

अर्थ: सब तत्वों में गुरु तत्व मुख्य है। क्योंकि आत्महित के लिये जो जो धर्म करना है वह सब उनके बताने पर साधे जा सकते हैं। हे मूर्ख ! उनकी परीक्षा किये बिना यदि तू उनका आश्रय लेगा तो तेरे धर्म और सब प्रयास निष्फल हो जावेंगे ॥१॥

भावार्थ: देव और धर्म का सच्चा ज्ञान कराने वाले गुरु महाराज हैं। अमुक कार्य करना या नहीं करना अमुक रास्ते जाना या नहीं जाना तथा पेयापेय, भक्ष्या-भक्ष्य का ज्ञान गुरु महाराज ही बतवाते हैं। इसीलिये गुरु-तत्त्व मुख्य है। इसी कारण गुरु-तत्त्व सब तत्वों में मुख्य है। इसी कारण विशेष गुणी होने पर भी सिद्ध भगवान् ने नमस्कार मन्त्र में पहले अरिहन्त भगवान् को नमस्कार किया है।

अब प्रश्न यह है कि ऐसे गुरु महाराज को कैसे पहचाना जाय।

यदि अयोग्य मनुष्य गुरु का स्थान ले ले तो आश्रय लेने वालों संसार-समुद्र में डूब जावेगा। इसलिये गुरु की योग्यता जानना आवश्यक है। यदि परीक्षा नहीं की जा सके तो कम से कम यह देख लेना चाहिये कि वे कौंचन और कामिनी के त्यागी तो हैं। तपस्या, ज्ञान, ध्यान, वचन-गुणित और सात्विक वृत्ति भी यदि गुरु में हों तो सद्गुरु मिल गया ऐसा समझना चाहिए। इसलिये कांचन और कामिनी के त्यागी गुरु को होना तो अत्यावश्यक है।

सदोष गुरु का बताया धर्म भी सदोष

भवी न धर्मैरविधिप्रयुक्तैर्गमी शिवं येषु गुरुर्न शुद्धः।

रोगी हि कल्यो न रसायनैस्तैर्देषां प्रयोक्ता भिषगेव मूढः ॥२॥

अर्थ: जहाँ धर्म बताने वाले गुरु ही शुद्ध नहीं वहाँ अविधि से किया हुआ धर्म प्राणी को मोक्ष तक नहीं ले जा सकता। यदि रसायन खिलाने वाला वैद्य ही मूर्ख हो तो औषधि खाने वाला प्राणी नीरोग नहीं हो सकता ॥२॥

भावार्थ — जैसे रास्ता न जानने वाला गाड़ीवान अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुँच सकता उसी प्रकार शुद्ध धर्म को न जानने वाले गुरु के पीछे चलने वाले मनुष्य संसार-समुद्र को पार नहीं कर सकते। यह साधारण मनुष्यों के भी अनुभव से सिद्ध है कि जो वैद्य रसायन की जानकारी नहीं रखते यदि वे रोगी को उलटी सुलटी मनमानी दवा दे देते हैं तो वे रोगी को बड़ी हानि पहुँचाते हैं। यदि रसायन योग्य रीति से दी जाती है तो रोगी स्वस्थ होने के बाद हृष्ट पुष्ट होकर सुखी हो जाता है। इसी प्रकार अज्ञानी गुरु की बताई धर्म क्रिया भी मुक्ति दिलाने के स्थान पर संसार-वृद्धि का कारण हो जाती है।

कुगुरु स्वयं डूबते है और दूसरों को भी डुवाते है

समाश्रितस्तारकबुद्धितो यो, यस्यास्त्यहो भज्जयिता स एव।

आद्यं तरीता विषमं कथं स, तथैव जन्तुः कुगुरोर्भवाब्धिम् ॥३॥

अर्थ:—यह पुरुष तारने में समर्थ है ऐसी बुद्धि से जिसका आश्रय  
२०

लिया जावे और वही आश्रय देने वाला आश्रय लेने वाले को डुबावे तो वह प्राणी प्रवाह में डूबने से कैसे बच सकता है ? इसी तरह संसार समुद्र में डूबते प्राणी को कुगुरु कैसे बचा सकता है ? ॥३॥

भावार्थ: जिस जहाज के कप्तान के भरोसे लोग जहाज में बैठते हैं यदि वही कप्तान असावधान रहे तो वह स्वयं भी डूबता है और आश्रय लेने वालों को भी डुबा देता है। संसार भी एक समुद्र है जिसमें गुरु एक कप्तान है, उसके आश्रय से धर्म रूपी नौका में प्रजाजन बैठते हैं। यदि कप्तान अयोग्य या अनुचित आचरण करे तो जहाज के डूबने पर वह स्वयं तो डूबेगा ही पर सवारों को भी ले डूबेगा। इसीलिये गुरु की परीक्षा करना आवश्यक है।

शुद्ध देव, गुरु और धर्म आराधन का उपदेश

गजाश्वपोतोक्षरथान् यथेष्टपदास्थे' मद्र निजान् परान् वा ।  
भजन्ति विशाः सुगुणान् मजैवं, शिवाय शुद्धान् गुरुदेवधर्मान् ॥४॥

अर्थ:—हे मद्र ! जिस प्रकार समझदार आदमी अपने इच्छित स्थान पर पहुँचने के लिये अपने अथवा दूसरे के हाथी, घोड़ा, गाड़ी, जहाज, बैल, रथ आदि साधनों की अच्छाई को मली भौँति परख लेता है। इसी तरह मोक्ष जाने के लिये शुद्ध देव, गुरु और धर्म को परख लेना चाहिये ॥४॥

भावार्थ: मोक्ष नगर जाने के लिये देव, गुरु और धर्म वाहन स्वरूप हैं। मनुष्य परगाँव जाने के लिये अच्छे से अच्छा वाहन अपनाते हैं। मोक्ष पहुँचने के लिये भी अठारह दोष रहित देव, पाँच महाव्रत धारण करने वाले गुरु और केवली भगवान्-भाषित धर्म का आश्रय लेने वाले व्यक्ति को अपनाना चाहिये। यदि इस धर्मरथ के हॉकने वाले पच महाव्रतधारी गुरु महाराज मिल जाते हैं तो मोक्ष जल्दी प्राप्त हो जायगा इसमें सन्देह नहीं। इसलिये गुरु की परीक्षा लेकर उसकी आज्ञा के अनुसार बतना चाहिये। गुरु, देव और धर्म में शुद्धि का होना परमावश्यक है।

कुगुरु के उपदेश से किया धर्म भी निष्फल है

फलाद् वृथाः स्युः कुगुरुपदेशतः कृता हि धर्मार्थमपीह सूधमाः ।

तद्दृष्टिरागं परिमुच्य मद्र हे, गुरुं विशुद्धं भज चेद्धितार्थ्यसि ॥५॥

अर्थ: संसार यात्रा में कुगुरु के उपदेश से धर्म अर्जन के लिये किये गये बड़े प्रयास भी फल की दृष्टि से वृथा हैं। इसलिये हे भाई! यदि तू अपना हित चाहता है तो राग दृष्टि छोड़कर अत्यन्त शुद्ध गुरु की सेवा कर ॥५॥

विवेचन: सारा संसार दृष्टिराग से प्रसित है। मनुष्य जहाँ जन्म लेता है वहाँ का धर्म अथवा गुरु उसे मान्य होता है। वह धर्म अथवा गुरु जो चाहे पापमय हो, व्यभिचारयुक्त हो या अहिंसा धर्म विरोधी हो तब भी संसार उसे सबसे अच्छा मानता है। इसी को दृष्टिराग कहते हैं। ऐसे गुरु के उपदेश से जो पुरुष धर्म-आचरण करता है वह सब निष्फल है। इसलिये दृष्टिराग को छोड़कर शुद्ध देव, गुरु और धर्म को अंगीकार करना चाहिये। दृष्टिराग मिथ्यात्वजन्य है। राग तो किसी से नहीं करना चाहिये। भगवान् महावीर में गौतम स्वामी का राग था इसलिये उनका ज्ञान रूका रहा। अतः राग सदा त्याग्य है। यदि राग किये बिना नहीं रहा जाय तो गीतार्थ गुरु पर राग करना चाहिये। मनुष्य का यदि त्यागी गुरु पर राग हो तो गुरु उसे धीरे-२ मार्ग पर ले आता है। राग तो गुणों पर करना चाहिये। गुण पर राग करने से अनुकरण करने वाले पुरुष के गुण स्वयं में आ जाते हैं।

जैन धर्म दृष्टिराग को बुरा समझता है और अंधश्रद्धा का उपदेश कभी नहीं देता। वह कहता है कि धर्म को सुनो, समझो और विचार करो, खोज करो, मनन करो और न्यायशास्त्र के सामान्य ज्ञान से तुलना करो। फिर यदि इसमें कोई विरोधभाव दिखाई दे तो उसका आदर करो। उत्तमता तर्क बुद्धि पर अवलम्बित है। “अतीन्द्रियास्तु ये भावा, न तांस्तर्केण योजयेत्” अर्थात् अतीन्द्रिय विषयों में तर्क नहीं चलता, इस सिद्धांत को नहीं मानना चाहिये। इसलिये आँख बंद कर मान लेना चाहिये, ऐसा नहीं

कहा। यहाँ तो प्रत्येक बात तर्क पर अवलम्बित है और इन तर्कों पर आधारित विषयो के समझने के लिये ज्ञानी गुरु महाराज की आवश्यकता है।

वीर भगवान् को विनति-शासन में लुटेरो का जोर  
 न्यस्ता मुक्तिपथस्य वाहकतया श्रीवीर ये प्राक् त्वया  
 लुंटाकास्त्वद्वतेऽभवन् बहुतरास्त्वच्छासने ते कलौ ।  
 विभ्राणा यतिनाम तत्तनुधियां मुष्णन्ति पुण्यश्रियः  
 पुत्कुर्मः किमराजके ह्यपि तलारक्षा न किं दस्यवः ॥६॥

अर्थ:—हे वीर परमात्मा ! आपने जिनको मोक्ष मार्ग चलाने के लिये सार्थवाह के रूप में स्थापित किया था, वे ही इस कलिकाल में आपकी अनुपस्थिति में आपके शासन के मोटे लुटेरे हो गये। वे यति नाम धारण करके अल्प बुद्धि प्राणियों की पुण्य लक्ष्मी लूटते हैं अब हम किसको पुकारें। विना राजा के राज्य में कोतवाल भी क्या चोर नहीं होता ॥६॥

भावार्थ:—आज से पाँच सौ वर्ष पहले कहे हुए मुनि श्री मुनि-सुन्दरजी महाराज के वचन आज भी सत्य सिद्ध हो रहे हैं। इस दृष्टिराग से बहुत से जीवों का पवन हुआ है। यह विगाड़ महा कर्म-बंध से हुआ है। बेचारे यति, गुराजी आदि शिथिलाचारी शासन का विगाड़ करते ही हैं, परन्तु जहाँ साधु समाज से शान्ति की आशा है वहाँ भी खराबी बढ़ती जाती है। भगवान् ने सुधर्मा स्वामी को जिन-शासन की वागडोर सौंपी थी परन्तु उनके पाट परंपरा के साधु उस सुन्दर शासन को चला नहीं सके। वे ही लोग अब लुटेरे बन गये हैं। लोगों की पुण्य लक्ष्मी को लूट कर उन्हें संसार-समुद्र में डुवोते हैं। ऐसी शोचनीय अवस्था से अब हम किसकी पुकार करें ?

अशुद्ध देव, गुरु, घर्म से भविष्य में हानि

माघस्यशुद्धैर्गुं सदेवधर्मैर्धिग् दृष्टिरागेण गुणानपेक्षः

अमुत्र शोचिष्यसि तत्फले तु, कुपथ्यभोजीव महामयार्तिः ॥७॥

अर्थ:—दृष्टि राग के कारण तू गुरु की जाँच किये बिना अशुद्ध देव, गुरु, धर्म की ओर प्रेम रत रहता है इसलिये तुझे धिक्कार है। जिस प्रकार कुपथ्य भोजन करने वाला बहुत दुःख पाता है और परेशान होता है, उसी तरह आगामी भव में तू उस (कुगुरु, कुदेव, कुधर्म) का फल प्राप्त कर दुखी होगा ॥७॥

भावार्थ:—गुणवान् गुरु के आश्रय की आवश्यकता पहले बता ही दी है। ऐसे गुणवान् गुरु को नमस्कार करना चाहिये और उनके बताए हुए देव और धर्म का आदर करना चाहिये। परन्तु जो मनुष्य गुरु के गुणों की जाँच नहीं करता और पौद्गलिक पदार्थों जैसे [पुत्र, धन अथवा रोग-नाश] की इच्छा से मिथ्यात्व जन्य दृष्टिराग से विषयी गुरु की सेवा करता है और संसार बढ़ाने वाला अधर्माचरण करता है वह प्राणी भविष्य में अवश्य पछतायगा। जीव प्रथम तो संसार-रोग से दुःखी है फिर कुगुरु के प्रसंग से अयोग्य आचरण रूप कुपथ्य करके और कुगुरु के अयोग्य आचरण की पुष्टि करके रोग को और भी अधिक बढ़ाता है। वह संसार को बढ़ाने के बदले उसे बढ़ाता है। इसलिये गुरु की परीक्षा कर उसका मान करना चाहिये। यदि भाग्यवश सुगुरु मिल गया तो सुदेव और सुधर्म तो मिला हुआ ही है।

अशुद्ध गुरु मोक्ष नहीं दे सकता

नाम्रं सुसिक्तोऽपि ददाति निम्बकः पुष्टा रसैर्वन्ध्यगवी पयो न च दुःस्थो नृपो नैव सुसेवितः श्रियं, धर्मं शिवं वा कुगुरुर्न संश्रितः ॥८॥

अर्थ:—अच्छी तरह सींचने पर भी नीम का वृक्ष आम के सीठे फल नहीं दे सकता। गुड़, घी, तेल आदि खिला कर पुष्ट की हुई वन्ध्या गाय दूध नहीं दे सकती। मर्यादा-आचरणहीन राजा की सेवा करने पर भी पुरुष किसी को लक्ष्मी देकर निहाल नहीं कर सकता। इसी प्रकार कुगुरु का आश्रय लेने से शुद्ध धर्म और मोक्ष नहीं मिल सकता ॥८॥



तास्त्विक हित करने वाली वस्तु

कुलं न जातिः पितरौ गणो वा, विद्या च बन्धुः स्वगुरुर्धनं वा ।  
हिताय जन्तोर्न परं च किञ्चित्, किन्त्वाहताः सद्गुरुदेवधर्माः ॥६

अर्थः कुल, जाति, माता-पिता, महाजन, विद्या, सगा-सम्बन्धी कुलगुरु अथवा धन या अन्य कोई वस्तु प्राणी का हित नहीं कर सकती। परन्तु शुद्ध भावना से आराधन किया हुआ शुद्ध देव, गुरु और धर्म ही मनुष्य का कल्याण करता है ॥९॥

भावार्थः—उच्च कुल, जाति, विद्या, धन आदि प्राप्त कर लेने पर भी कोई पुरुष अन्य जीवों का हित नहीं कर सकता। पुत्र कलत्र आदि संसारी चीजें ज्यों ज्यों बढ़ती हैं त्यों त्यों यह जीव संसार के जाल में फँसता जाता है, यह भव-चक्र किसी भी तरह कम नहीं होता। जीव अनादि काल से इन संसारी वस्तुओं में मस्त होकर दुःख परंपरा प्राप्त करता आया है। शास्त्रकार कहते हैं कि यदि कोई पुरुष इस दुःख परम्परा से बचना चाहता है तो उसे शुद्ध देव, गुरु तथा धर्म की आराधना करनी चाहिये। इससे पूर्व किए हुए पाप क्षीण होंगे और अन्त में मोक्ष प्राप्त होगा।

जो धर्म में लगावे वे ही वास्तविक माता पिता

माता पिता स्वः सुगुरुश्च तत्त्वात्प्रबोध्य यो योजति शुद्धधर्मे ।  
न तत्समौऽरिः क्षिपते भवाब्धौ, यो धर्मविघ्नादिकृतेश्च जीवम् ॥१०

अर्थः—जो धर्म का ज्ञान दे और शुद्ध धर्म में लगावे वे ही यथार्थ में सच्चे माता-पिता हैं, वही वास्तव में अपना हितैषी है और उन्हीं को सुगुरु समझना चाहिये। पर जो इस जीव को धर्म में अन्तराय देकर संसार-समुद्र में ढकेलता है उसके बराबर कोई शत्रु नहीं ॥१०॥

भावार्थः जो जीवों को दुःख से बचावे और उन्हें पाल पोस कर बड़ा करे वे ही माता-पिता हैं। जो अपने अनुयायी जनो को नरक-निगोद की दुर्गति के दुःखों से बचावे और शुद्ध धर्म बतावे वे ही गुरु महाराज हैं, वे ही माता-पिता तुल्य हैं। जो इससे उलटा

श्री-चरण करें अर्थात् धर्म में अन्तराय देवे वह दुश्मन के समान है। जब मनुष्य को वैराग्य होता है तो वह आत्मोन्नति के लिये अनेक उपाय करता है। इसके लिये वह सब सांसारिक नाते तोड़ता है। यदि ऐसे समय उसके माता पिता स्नेहवश उसे रोकें तो सूरि महाराज कहते हैं कि वे दुश्मन का काम करते हैं।

सम्पत्ति का कारण

दाक्षिण्यलज्जे गुरुदेवपूजा, पित्रादिभक्तिः सुकृताभिलाषः ।

परोपकारव्यवहारशुद्धी, नृणाभिहासुन च सम्पदे स्युः ॥११॥

अर्थः दाक्षिण्य, लज्जालुपन, गुरु और देव की पूजा, माँ-बाप आदि पुण्यात्माओं की भक्ति, अच्छे काम करने की अभिलाषा, परोप-कार और व्यवहार शुद्धि मनुष्य को इस भव में और परभव में सम्पत्ति देती है ॥११॥

भावार्थः

- (१) दाक्षिण्य विशाल हृदय धारण करना और मन की सरलता ( निष्कपटता )
- (२) लज्जालुपन निकामी स्वतन्त्रता का नाश और विनय गुण की प्राप्ति (यह गुण स्त्रियों का भूषण है) पाप कर्म रोकने वाला, यह श्री पुरुष दोनों के लिये अतिशय लाभदायक गुण है।
- (३) गुरुदेव पूजा द्रव्य और भाव से सब जीवों को अवलम्बन की आवश्यकता होती है। गुरु के वचनानुसार वर्तन करना द्रव्य व द्रव्य-पूजा है। और हृदय अथवा चक्षु के सामने साकार वृत्ति की छाया में निराकार वृत्ति को प्राप्त भगवान् का ध्यान करना यह दोनों भावनाएँ जीवों को अवलम्बन के अतिरिक्त और भी महालाभ देने वाली हैं।
- (४) पित्रादिभक्ति माता, पिता तथा वृद्धों की सेवा करना उनको सुख पहुँचाना पितृ-भक्ति।
- (५) सुकृताभिलाषी : अच्छे कार्य करने का पहले विचार होता है

और फिर कार्य होता है। इसलिये सदा अच्छे विचार करना चाहिये। यदि अच्छे विचार करने पर कार्य करने का अवसर न भी आवे तब भी सुविचार करना नहीं छोड़ना चाहिये। कारण इस जन्म में अवसर नहीं आया तो इस शुभ भावना से अगले जन्म में आ सकता है।

- (६) परोपकार मनुष्य को केवल अपना भला नहीं सोचना चाहिये। यदि पुण्य-संयोग से शरीर, पुत्र, धन, स्त्री आदि का सुख मिला है तो इतने में संतोष नहीं मानना चाहिये। उसे अपनी लक्ष्मी, ज्ञान, और शक्ति का उपयोग देश, जाति या धर्म के उत्थान में करना चाहिये।
- (७) व्यवहार शुद्धि—श्रावक के लिए इन सब में यह गुण सर्वप्रथम अथवा अनिवार्य है।

ये उपरोक्त बातें बहुत आवश्यक हैं और ध्यान देने योग्य हैं। शुभ विचार और शुभ वर्तन से ही शुभ कर्म बँधते हैं। जैसा बंध होता है वैसा ही उदय होता है और वैसा ही सुख-दुःख इस भव मे या परभव में प्राप्त होता है। उपरोक्त गुणों में से एक भी गुण हो तो बहुत लाभदायक है और यदि सभी गुण हो तो बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। इन गुणों में एक बड़ा लाभ यह भी है कि इन गुणों का आदर करने से मन प्रसन्न होता है।

### विपत्ति के कारण

जिनेश्वरभक्तिर्यमिनाभवज्ञा, कर्मस्वनौचित्यमधर्मसङ्गः ।

पित्राद्युपेक्षा परवञ्चनं च, सृजन्ति पुंसां विपदः समन्तात् ॥१२॥

अर्थः—जिनेश्वर भगवान् की अभक्ति (आशातना), साधुओं का अविनय, व्यापारादि में अनुचित प्रवृत्ति, अधर्मी की संगति, माँ बाप की सेवा करने में असावधानी और दूसरो को ठगना ये सब भ्राणों के लिये चारों ओर से आपत्ति उत्पन्न करते हैं ॥१२॥

भावार्थः—

(१) जिनेश्वर की अभक्ति: राग-द्वेष रहित सब कर्मों का नाश

करने वाले जिनेश्वर भगवान् की तरफ अभक्ति—उनके वचन नहीं मानना—उनके साकार रूप का अनादर अथवा किसी भी तरह अनादर करना यह आशातना है ।

- (२) गुरु महाराज की अवज्ञा:—गुरु महाराज शुद्ध धर्म का मार्ग बताने वाले हैं । उनका विनय करना चाहिये । उनके वचन का आदर करना चाहिये । उनका अनादर नहीं करना चाहिये ।
- (३) कर्म में अनौचित्य:—कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना, जैसे व्यापार में झूठ बोलना, अशुद्ध व्यवहार करना, अप्रामाणिक भाषण व आचरण नहीं करना ।
- (४) अधर्म संग: धर्म की जाँच कर उसके अनुसार वर्तना और इसके विरुद्ध कार्य करना अधर्म संग ।
- (५) पिता आदि का अनादर: पिता-माता का अविनय तथा सेवा नहीं करना ।
- (६) परवचन: दूसरो को धोखा देना

ये उपरोक्त सभी बातें इस भव और पर भव में विपत्ति का कारण हैं ।

परश्व में सुख के लिये पुण्य धन  
 भक्त्यैव नार्चसि जिनं सुगुरोश्च धर्मं,  
 नाकर्ण्यस्यविरतं विरतीर्न धत्से ।  
 सार्थं निरर्थमपि च प्रचिनोष्यवानि,  
 मूढ्येन केन तदमुत्र समीहसे शम् ॥१३॥

अर्थ: हे भाई । तू भक्ति से श्री जिनेश्वर भगवान् की पूजा नहीं करता उसी प्रकार सद्गुरु महाराज की सेवा नहीं करता, निरन्तर धर्म श्रवण भी नहीं करता, विरति ( पाप से पीछा हटना ) पचक्खान ( त्याग के प्रत ) नहीं करता और प्रयोजन से अथवा बिना प्रयोजन पाप की पुष्टि करता है तो बता कि तूने अगले भव में सुख प्राप्ति के लिये क्या क्या पुण्य प्राप्त किया है ? ॥१३॥

भावार्थ :—यह जीव शुद्ध गुरु, देव और धर्म की आराधना नहीं करता, इन्द्रिय-दमन नहीं करता, बिना कारण पाप-संचय करता है, फिर भी सुख की इच्छा करता है। तू हे जीव ! बता कि तूने कौनसा पुण्य-संचय किया है जिसके बदले तुझे अगले भव में सुख मिलेगा ?

मोक्ष प्राप्ति की इच्छा वालों को इन नियमों का ध्यान रखना चाहिये।

१. जिनेश्वर भगवान् का भक्तिपूर्वक पूजन करना।
२. सद्गुरु की सेवा करना, धर्म-श्रवण करना।
३. स्थूल विषयो से दूर रहना; जितना हों सके उतना उनका त्याग करना।
४. पाप कार्यों से सदा दूर रहना।

सुगुरु सिंह और कुगुरु श्याल (गीदड़)

चतुष्पदैः सिंह इव स्वजात्यैर्मिलन्निर्मांस्तारयतीह कश्चित्।

सहैव तैर्मज्जति कोऽपि दुर्गे, शृगालवच्चेत्यमिलन् वरं सः ॥१४॥

अर्थ :—जिस प्रकार सिंह ने अपनी जाति के प्राणियों को एक साथ तार दिया इसी रीति से सुगुरु भी जाति भाइयों (भव्य पंचेन्द्रियों) को एक साथ भव-समुद्र से तार देते हैं। जिस प्रकार गीदड़ अपने जाति भाइयों को अपने साथ ले डूब कर नष्ट हो जाता है उसी प्रकार कुगुरु भी अपने साथ सब जीवों को लेकर अनन्त भव-सागर में लेकर डूब जाता है। इसलिये किसी भक्त को गीदड़ के समान कुगुरु नहीं मिले तो उसका सौभाग्य है ॥१४॥

विवेचन : जो सुगुरु जीव को सदुपदेश द्वारा संसार से विरक्त कर संसार से मुक्त करा देता है वह गुरु सिंह के समान है। इसकी कथा इस प्रकार है: जंगल के प्राणियों ने एक सिंह को अपना राजा बनाया। एक समय उस जंगल में आग लग गई जिससे जंगल के जीवों को बचने का कोई उपाय नहीं सूझा। सब पशुओं ने मिलकर अपने राजा सिंह के पास जाकर बचाने की प्रार्थना की। सिंह सब पशुओं को साथ ले नदी के किनारे गया और सब पशुओं को समझाया कि वे सब एक दूसरे की पूँछ पकड़ कर उसकी (सिंह की)

पूँछ पकड़ लें। सिंह एक छल्लोंग में नदी पार करेगा तो सब पशु भी एक दूसरे के सहारे उसके साथ नदी पार पहुँच सकेंगे और बच जावेंगे। निदान सब पशुओं ने ऐसा ही किया और सब नदी पार कर बच गये। इसी तरह सुगुरु महाराज भी अपनी चिन्ता न करके संसारी जीव को तार देते हैं। परन्तु कुगुरु ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो शृगाल की तरह है। शृगाल ने भी ऐसे संकट के समय सब जीवों को अपनी पूँछ का सहारा देकर तारने के हेतु नदी पार करने को छल्लोंग मारी पर वह नदी की बीच धार में गिर गया और डूब गया। साथ में अपना सहारा लेने वाले अन्य जीवों को भी ले डूबा। जब कुगुरु में इतनी शक्ति नहीं होती कि वह अपने को तारे तो वह दूसरों को कैसे तार सकता है? अतः कुगुरु से तो दूर ही रहना हितकर है।

जो सुगुरु का योग होने पर भी प्रमाद करे वह निर्भागी है

पूर्णे तटाके तृषितः सदैव, भृतेऽपि गेहे क्षुधितः स मूढः।

कल्पद्रुमे सत्यपि ही दरिद्रो, गुर्वादियोगेऽपि हि यः प्रमादी ॥१५॥

अर्थ :—गुरु महाराज की योगवाड़ी होते हुए भी जो प्राणी प्रमाद करे वह पानी से भरे तालाब के पास पहुँच कर भी प्यासा रहता है। धन धान्य से भरपूर घर होने पर भी वह मूर्ख भूखा है, और अपने पास कल्पवृक्ष होने पर भी दरिद्री है।

भावार्थ :—सुन्दर मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र, शरीर की अनुकूलता, गुरु महाराज का संयोग, सुदेव, सुधर्म का उपदेश, मन की स्थिरता आदि अनेक सामग्री के प्राप्त होने पर भी यदि कोई पुरुष प्रमादवश सब समय वृथा बिता देता है तो ऐसा सुअवसर फिर न मिल सकने के कारण इस जन्म को वृथा खो देता है वह महा मूर्ख है। ग्रन्थकार कहते हैं कि प्राप्त सामग्री को खो देने वाला व्यक्ति उस मनुष्य के समान है जो पानी से भरे तालाब पर जाकर भी प्यासा रह जाता है। अतः ऐसा सुन्दर अवसर [मानवभव] प्रमादवश मत जाने दो।

देव गुरु धर्म ऊपर अंतरंग प्रीति विना जन्म व्यर्थ है  
 न धर्मचिन्ता गुरुदेवभक्तियेषां न वैराग्यत्वोऽपि चित्ते ।  
 तेषां प्रसूक्तेशफलः पशुनामिवोद्भवः स्यादुदस्मरीणाम् ॥१६॥

अर्थ : जिस प्राणी को धर्म की चिन्ता नहीं, जिसके चित्त में गुरुदेव की ओर भक्ति और वैराग्य का अंग मात्र भी नहीं ऐसे मनुष्य का जन्म पेट भराऊ पशु की तरह केवल माता को दुःख देने वाला ही हुआ ॥१६॥

भावार्थ : मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मैंने अपना कर्तव्य निवाहने के लिये दिन में क्या किया, मैं कहाँ तक सफल हुआ और भविष्य में मुझे अपना कर्तव्य किस तरह निवाहना चाहिये, इस प्रकार की चिन्ता करना धर्म चिन्ता है और अच्छी तरह परीक्षा करके माने हुए गुरु महाराज के बताये देव, तथा धर्म पर पूर्ण श्रद्धा रख कर विना आहम्बर के अन्तःकरण से सेवा करना देव या गुरु भक्ति है। इस संसार के सब पदार्थ अनित्य हैं—पौद्गलिक हैं केवल यह जीव ही निरंजन और निर्लेप है। अनन्त ज्ञान और दर्शन चरित्र रूप हैं। यह जो रूप हम देखते हैं वह विकार रूप है, कर्म जन्य है, यह अपनी शुद्ध दशा से विलकुल विपरीत है, ऐसा समझकर पौद्गलिक भाव को त्याग कर आत्मिक भाव को आदर देना वैराग्य भाव है। ऐसा वैराग्यभाव जिसके हृदय में नहीं समा सका वह माता-पिता को अपने जन्म से कष्ट ही देता है।

प्रत्येक प्राणी में धर्म-चिन्ता, गुरु-भक्ति, और वैराग्य भाव अवश्य होना चाहिये। जब ये तीनों भाव मनुष्य के हृदय में वासित हो जाते हैं तो समझना चाहिये कि संसार-चक्र का अन्त निकट ही है। यदि ये भाव केवल दिखावे के लिये हों तो उसका यह जन्म केवल उदर-पूर्ति के लिये है और माता को प्रसव-पीड़ा देने के लिए ही हुआ है।

देव तथा संघ के कार्य में द्रव्य व्यय

न देवकार्ये न च संघकार्ये, येषां धनं नश्वरमाशु तेषाम् ।  
 तदर्जनाद्यैर्ष्वजिनैर्भवान्धौ, पतिष्यतां किं त्ववसाम्भनं स्यात् ॥१७॥

अर्थ : धन एक दम नाशवन्त है। यह पैसा जिनके पास हो वे इसे देव-कार्य अथवा संघ के कार्य में नहीं लगाते हैं तो उनको उस धन के संचय करने में जो पाप हुआ है इस कारण संसार-समुद्र में डूबते हुए उनकी रक्षा करने वाला कौन है ? ॥१७॥

भावार्थ :—धन प्राप्ति के लिये मनुष्य क्या क्या पाप करता है यह सर्वविदित है। इसका विचार धन-ममत्व-मोचन अधिकार में हो चुका है। यह धन अस्थिर है, लाखों रुपया क्षण में नष्ट हो जाता है। यह प्रत्यक्ष है कि जिस पैसे की प्राप्ति में अनेक आश्रय करने पड़ते हैं। झूठ-सच बोलना पड़ता है समय बिताना या अन्याय भी करना पड़ता है। ऐसे प्राप्त धन को यदि धर्म में नहीं लगाया जावे तो संसार-समुद्र में डूबते को कौन बचा सकता है ? इसलिये धन को शुभ कार्य [ जीर्णोद्धार, ज्ञानप्रचार, शासनोद्धार, देवपूजा, प्रतिष्ठा, तीर्थयात्रा आदि ] में लगाना चाहिये। इसी तरह धर्माभाई की सेवा तथा धार्मिक पढ़ाई में लगाया जावे तो बहुत लाभ हो।

इस प्रकार देव-गुरु-धर्म का अधिकार समाप्त हुआ। इसमें गुरुत्व की महत्ता बताई और सद्गुरु के सत्संग से अनेक लाभ होते हैं यह बताया। गुरु चार प्रकार के होते हैं (१) आप तारे और आश्रय लेने वाले को तारे (२) आप तारे और आश्रित को डूबोवे ऐसे गुरु कम होते हैं (३) स्वयं डूबे परन्तु आश्रय लेने वाले को तिरावे इस श्रेणी में अमव्यादि का समावेश होता है। इनके मन में श्रद्धा नहीं होती, केवल लोकदिखाऊ व्यवहार होता है। मन में विषय-कषाय होता है ऐसे गुरुओं का उपदेश शुद्ध अन्तःकरण से न निकला हुआ होने के कारण उत्तम फलदायक नहीं होता। कपटी-मायावी गुरु भी इसी श्रेणी में है। (४) आप डूबे और आश्रय लेने वाले को भी ले डूबे, ऐसे गुरु पत्थर समान हैं। ये शिथिल-आरी और भ्रष्टाचारी होते हैं। शास्त्रों से गुरु की बड़ी महिमा है और कपटी निर्गुणी कपायी गुरु को तो दूर से ही नमस्कार करने का विधान है। महाकवि कवीर ने भी ऐसा ही कहा है :—

गुरु गोविन्द दोनों खडे काके लागूँ पाँय ।

बलिहारी गुरु देव की गोविन्द दियो वताय ॥



# तृतीयोद्देश आधिकार

## यति शिक्षा -

यति शब्द में संसार से विरक्त रहने की प्रतिज्ञा करने वाले साधु, यति, महात्मा, श्री पूज्य द्रव्यलिंगी और भट्टारक आदि का समावेश होता है ।

मुनिराज का आदर्श स्वरूप

ते तीर्णा भववारिधिं मुनिवरोस्तेभ्यो नमस्कुर्महे,  
येषां नो विषयेषु गृह्यति मनो नो वा कषायैः प्लुतम् ।  
रागद्वेषविमुक् प्रशान्तकलुषं साभ्यासशर्माद्वयं,  
नित्यं खेलति चाससंयमगुणाक्रीडे मज-झावनाः ॥१॥

अर्थ : जिन महात्माओं का मन इन्द्रियो के विषयो में आसक्त नहीं होता, कषायों से व्याप्त नहीं होता और जिनका मन राग-द्वेष से मुक्त रहता है, जिन्होंने पाप कार्यों को शान्त कर दिया है, और जिनको समता से अकथनीय सुख प्राप्त है, जो भावना भाते-भाते संयम रूपी वगीचे में आनन्द करते हैं, ऐसे मुनीश्वर इस संसार-समुद्र से तिर गए हैं उनको हम नमस्कार करते हैं ॥१॥

विवेचन : अत्यन्त शुद्ध दशा में वर्तने वाले श्रेष्ठ मुनिवरो में निम्न लिखित गुण स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं ।

१. शुद्ध मुनिराज पाँच इन्द्रियों के तेईस विषयों में आसक्त नहीं होते ।
२. क्रोध, मान, माया तथा लोभ का इन मुनियों पर कुछ प्रभाव नहीं होता ।
३. संसार बढ़ाने वाले राग-द्वेष के स्वरूप को वे अच्छी तरह समझते हैं और उन्होंने इस पर विजय प्राप्त कर ली है ।

४. क्रोध, मान, माया, लोभ और द्वेष रहित होने से इनको अशुभ कर्म नहीं बँधते ।
५. समताधारी होने से आध्यात्मिक सुख का आनन्द लेते हैं ।
६. ये मुनिवर संयम-गुण में मस्त रहते हैं ।
७. अनित्य भावना आदि बारह भावनाओं को और मैत्री, प्रमोद, काश्य और माध्यस्थ्य इन चार भावनाओं को सदा भाते रहते हैं ।

उल्लिखित सुचरित्र वाले श्रेष्ठ मुनिराज संसार से तिर जाते हैं और भव्य प्राणियों के अनुकरणार्थ अनेक आदर्श छोड़ जाते हैं ।

साधु के वेशमात्र से मोक्ष नहीं मिलता

स्वाध्यायमाधित्ससि नो प्रमादैः,  
शुद्धा न गुप्तीः समितीश्च घत्से ।  
तपो द्विधा नार्जसि देह  
मोहादल्पेहि हेतौ दधसे कषायान् ॥२॥

परिषहान्नो सहसे न चोपसर्गान्न  
शीलाङ्गधरोऽपि चासि ।  
तन्मोक्षयमाणोऽपि भवान्धिपारं,  
मुने ! कथं यास्यसि वेशमात्रात् ॥३॥ युग्मम् ।

अर्थ :—हे मुनि ! तू विकथादि प्रमाद के कारण स्वाध्याय नहीं करना चाहता, विषयादि प्रमाद के कारण समिति और गुप्ति धारण नहीं करता और शरीर में ममता के कारण तप नहीं करता, कषाय करता है, परीषह तथा उपसर्ग सहन नहीं करता और शीलांग धारण नहीं करता तब भी मोक्ष की इच्छा करता है । हे मुनि ! केवल वेश से ही संसार-सागर से कैसे पार उतरेगा ? ॥२—३॥

विवेचन : ऊपर भावनामय मुनि का स्वरूप बताया है । अब व्यवहार में उसे क्या करना चाहिये यह बताते हैं ।

१. मुनि को पाँच प्रकार का स्वाध्याय नित्य करना चाहिए वाँचना, पृच्छना, परावतीना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा ।
२. पाँच समिति और तीन गुप्ति ये प्रवचनभाता कहलाती हैं, यह मुनिपने का विशेष चिन्ह है ।

पाँच समिति :

- (१) ईर्ष्या समिति जीव रहित मार्ग देख कर चलना ।
- (२) भाषा समिति निरवद्य, सत्य, हितकारी वचन बोलना ।
- (३) ऐषणा समिति वत्तीस दोष रहित अन्न-जल लेना ।
- (४) आदान भंडमत्त निक्षेपणा समिति किसी भी वस्तु को निर्जीव स्थान देखकर डालना ।
- (५) परिष्ठापनिका समिति गल-मूत्र को जीव-रहित स्थान पर डालना ।

तीन गुप्ति :

- (१) मनोगुप्ति मन में अशुभ विचार नहीं आने देना ।
- (२) वचनगुप्ति निरवद्य वचन बोलना ।
- (३) कायगुप्ति शरीर को जयणा से वर्तना

३. साधु को दो प्रकार का तप करना कहा है

- (१) बाह्य-तप—उपवास, व्रत आदि कर्म ज्य करने के लिए शारीरिक कष्ट सहना ।
- (२) आभ्यन्तर तप—क्रिये हुए पापों का प्रायश्चित्त लेना ।
  - (क) -पाँच-प्रकार का स्वाध्याय, ध्यान, बाह्य आभ्यन्तर उपाधि का त्याग, वैयावच्च करना ।
  - (ख) क्रोध, मान, माया और लोभ का त्याग ।
  - (ग) भूखे प्यास आदि परीषह तथा ।
  - (घ) मनुष्य या देवो या तिर्यञ्च का क्रिया हुआ सोलह प्रकार का उपसर्गे समता से सहना ।-
  - (ङ) अष्टारह हजार शीलांग धारण करना

साधु व्यवहार बहुत ही संक्षेप में बताया गया है। विशेष जानकारी अन्य पुस्तकों से प्राप्त करें।

केवल वेश से कोई लाभ नहीं

आजीविकार्थमिह यदतिवेषमेव,

धत्से चरित्रममलं न तु कष्टभीरुः ।

तद्वत्सि किं न न विभेति जगज्जिघृक्षु-

मृत्युः कुतोऽपि नरकश्च न वैषमात्रात् ॥४॥

अर्थ: तू आजीविका के लिये ही इस संसार में यति का वेश धारण करता है और कष्ट से डर कर शुद्ध चरित्र नहीं पालता पर क्या तू नहीं जानता कि सारे जगत् को स्वाहा करने की इच्छा वाला मृत्यु और नरक किसी प्राणी के दिखावटी वेश को देख कर नहीं डरते ॥४॥

भावार्थ:—कोई जीव संसार के दुःख से पीड़ित होकर यति का वेश धारण कर लेता है और श्रावकों से उत्तम गोचरी का लोभ मन में रखता है, परन्तु जो क्रिया यति को करनी चाहिये वह नहीं करता। यहाँ तक कि कोई यति तो यति धर्म का प्राण चतुर्थ व्रत अर्थात् ब्रह्मचर्य व्रत भी नहीं रखता ऐसे वेशधारी शिथिलाचारी साधु अथवा यतियों को जानना चाहिये कि मृत्यु ने किसी को नहीं छोड़ा वह प्राणियों के खाने के लिये तैयार खड़ी है। वे तुमको पकड़ कर ऐसे भयंकर नरक में डाल देंगे जिसका वर्णन सुन रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जहाँ से निकलना अनन्तकाल तक नहीं होगा।

केवल वेश धारण करने वाले को उलटा दोष होता है

वेषेण माधसि यतश्चरणं विनात्मन् :

पूजां च वाञ्छसि जनान्दहुधोषि च ।

मुग्ध प्रतारणमवे नरकेऽसि गन्ता ।

न्यायं विभषि तदजगलकर्तरीयम् ॥५॥

अर्थ: हे आत्मन् ! तू शुद्ध चारित्र्य बिना यति का वेश धारण कर अहंकार करता है और भक्त लोगों से पूजे जाने की इच्छा रखता है। इससे भोले विश्वास रखने वाले लोगों को ठगने के कारण तू नरक में अवश्य जायगा ऐसा ज्ञात होता है। इस कारण तू 'अजागल-कर्तारी न्याय' अपने ऊपर लागू करता है ॥५॥

भावार्थ: साधु के सब उपकरण प्राप्त कर बिना चारित्र्य पाले तू यति-वेश का घमण्ड करता है और लोगों से पूजे जाने की इच्छा करता है। इस प्रकार तू लोगों को धोखा देता है अतः तू स्वयं ही नरक में जाने की तैयारी करता है। जिस प्रकार एक खटीक ने बकरी को मारने की तैयारी की पर उसे छुरी नहीं मिली। बकरी अपनी आदत के अनुसार अपने पैरों से पृथ्वी खोदने लगी। वहीं भिट्टी के हटने से खटीक को छुरी दिखाई पड़ गई और उसीसे उसका गला काट डाला। इसी प्रकार तू वेश धारण कर लोगों का धोखा देने के कारण स्वयं ही अपने को नरक में डालता है।

वाह्य वेश धारण करने का फल  
जानेऽस्ति संयमतपोभिरभीभिरात्म-  
त्रस्य प्रतिग्रहमरस्य न निष्क्रयोऽपि ।  
किं दुर्गतौ निपततः शरणं तवास्ते,  
सौख्यं च दास्यति परत्र किमित्यवेहि ॥६॥

अर्थ: मेरे विचार से हे आत्मन् ! इस प्रकार के संयम और तप से तो (गृहस्थ के पास से लिये पात्र, भोजन आदि) वस्तुओं का किराया भी पूरा नहीं होता। तब दुर्गति में पड़ते हुए तुम्हें शरण किसकी ? और परलोक में सुख कौन देगा ? इसका तू विचार कर ॥६॥

भावार्थ: ऊपर बताया हुआ ढंग से केवल बाह्याङ्ग रख कर लोक दिखाऊ तप-संयम रखा जावे तो उसका फल कुछ नहीं होता। जो कुछ गृहस्थ से भोजन, पात्र, वस्त्र आदि मिले हैं उनका ऐसे तप-संयम से भाड़ा (किराया) भी नहीं निकलता। इसलिये अपना ऋण उधारने के लिये तेरा संयम उच्च प्रकार का होना चाहिये। दुनिया को उपदेश देने वालों का चरित्र बहुत उच्च और आदर्श होना चाहिये

उनकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिये । उनके विषय में लोग क्या विचार करते हैं इस बात का भी विचार नहीं होता । सुसाधु तो उनका क्या कर्त्तव्य है इस बात का ध्यान रखते हैं और परभव में सुख प्राप्ति के लिये वेश और आचरण में कोई अन्तर नहीं करते ।

शुद्ध आचरण विना लोकरंजन बोधिवृक्ष के लिये कुल्हाड़ा है  
और संसार-समुद्र में पड़ना है ।

किं लोकसत्कृतिनमरकरणार्चनाद्यै,  
रे मुग्ध तुष्यसि विनापि विशुद्धयोगान् ।  
कृन्तम् भवान्धुपतने तव यत्प्रमादो,  
बोधिद्रुमाश्रयमिमानि करोति पशुम् ॥७॥

अर्थ:—तेरे त्रिकरण योग विशुद्ध नहीं, तब भी लोग तेरा आदर करते हैं, तुझे नमस्कार करते और पूजा करते हैं । अतः हे मूर्ख ! तू क्यों सन्तोष मानता है ? इस संसार-समुद्र में पड़ते हुए का आधार केवल यह बोधिवृक्ष है । और इस वृक्ष को काटने में नमस्कार आदि से सन्तोष मानना आदि प्रमाद कुल्हाड़े का काम करता है ॥७॥

भावार्थ:—हे मूर्ख ! तेरे मन, वचन और काया वश में नहीं हैं, फिर भी लोग तेरा मान, वन्दन और पूजा करते हैं और तू प्रसन्न होता है, यह कहाँ तक ठीक है ? यह संसार एक समुद्र है, इसमें सन्त्यक्त्वरूप बोधि वृक्ष है । यदि यह बोधि वृक्ष हाथ आ जावे तो मनुष्य तिर जावे । लेकिन इस बोधिवृक्ष को अपने शिथिलाचार तथा प्रमाद के होते हुए भी लोगों की वन्दना स्वीकार कर सन्तोष मानता है तो तू इस बोधिवृक्ष को कुल्हाड़े से काटता है । ऐसी दशा में तुझे संसार-समुद्र से तिरने का कोई आलम्बन नहीं ।

विना गुणं लोक-सत्कार प्राप्त करने वाले को गति  
गुणांस्तत्राश्रित्य नमन्त्यमी जना, ददत्युपध्यालयभैक्ष्यशिष्यकान् ।  
विना गुणान् वेपथुर्धर्मिभर्षिं चेत्, ततश्चकानां तव भाविनी गतिः ॥८॥

अर्थ : "लोग तुझमें गुण मान कर उपकरण, उपाश्रय, आहार

और शिष्य-देते हैं। यदि तुम्हें गुण नहीं और तूने वेश मात्र धारण कर रखा है तो तेरी ङग के समान गति होगी ॥८॥

भावार्थ :—सच्चा मुनि तो मन में कभी बुरे विचार नहीं लावा और उसका चरित्र भी बहुत शुद्ध होता है। ऐसे मुनि की कल्पना कर भावक लोग अति भावभक्ति पूर्वक मुनि महाराज की सेवा करते हैं। पर यदि वह मुनि पाखण्डी सिद्ध हो जावे तो उसकी गति बुरी होती है।

यतिपना में सुख और कर्तव्य

नाजीविकाप्रणयिनीतनयादिचिन्ता,  
नो राजभीश्च भगवत्समयं च वेत्सि ।  
शुद्धे तथापि चरणे यतसे न भिक्षो,  
तरो परिग्रहमरो नरकार्थमेव ॥९॥

अर्थ : तुम्हें आजीविका, स्त्री, पुत्र आदि की चिन्ता नहीं। राज्य का भय भी नहीं। तू भगवान् के सिद्धान्तों का जानकार है अथवा सिद्धान्त की पुस्तकें तेरे पास हैं तब भी हे यति ! तू शुद्ध चरित्र के लिए यत्न नहीं करता। अतः तेरे पास की वस्तुओं का बोझ (परिग्रह) नरक के वास्ते ही है ॥९॥

भावार्थ : संसारी मनुष्य को आजीविका, स्त्री, पुत्र, धन, यश आदि अनेक बातों की चिन्ता होती है, परन्तु साधु इन सब बातों से मुक्त है। इसके सिवाय वह धर्म के रहस्य को भी जानता है। इतना होते हुए भी यदि वह अपने चरित्र में ढीला है तो साधु के उपकरण आदि सब भार स्वरूप हैं और वे उसे नरक में ले जाने वाले हैं।

ज्ञानी भी प्रमादवश हो जाते हैं—उसके दो कारण

शास्त्रज्ञोऽपि धृतप्रतोऽपि गृह्णीषुत्रादिवन्वोज्झितो—  
ऽप्यह्नी यद्यतते प्रमादवशगो न प्रेत्यसौख्यश्रिये ।

तन्मोहद्विषतस्त्रिलोकजयिनः काचित्परा दुष्टता,

पद्मासुक्तया स वा नरपशुर्नूनं गभी दुर्गतौ ॥१०॥

अर्थ :—शास्त्र का जानकार हो, प्रवृत्त लिया हुआ हो, और स्त्री, पुत्र आदि बन्धनों में मुक्त हो, तब भी प्रमादवश होने के कारण वह आर्या पारलौकिक सुख रूप लक्ष्मी (रक्षा) के वास्ते कोई यत्न नहीं करता। इसमें तीन लोकों की जीवने वाले मोह नाम के शत्रु की अप्रकट दुष्टता ही कारण होना चाहिए। अथवा उसकी प्रथम भव से संबद्ध आयुष्य बंधन ही कारण है जो उसे दुर्गति में लाने वाला होना चाहिए ॥१०॥

यति सावध त्याग उच्चारण करे उसमें भी भूठ का दोष

उच्चारयस्यनुदिनं न करोमि सर्वं,

सावधमित्यसकृतदेतदथो करोषि ।

नित्यं मृषोपिताजिनवंचनमारितात्तत्,

सावधतो नरकमेव विभावये ते ॥११॥

अर्थ : तू प्रत्येक दिवस और रात में नौ बार 'करेमि भंते' का पाठ बोलता है और कहता है कि मैं सर्वथा सावध कार्य का त्याग करता हूँ फिर भी वही कार्य बारबार करता है। तू इन सावध कर्मों के करने से भूठ बोल कर प्रभु की भी घोखा देने वाला हुआ और इस पाप के भार से तू नरकगामी होगा, ऐसा मैं विचार करता हूँ ॥११॥

भावार्थ : करेमि भंते समाश्चं सर्वं सावज्जं जोगं पञ्चखामि जावज्जीवाएं तिविहं तिविहेणं इत्यादि। इस प्रकार प्रतिक्रमण तथा पोरिसी करते समय बोल कर सारे जीवन में मन, वचन तथा काया से सावध कार्यों का त्याग स्वयं करने का, दूसरे से कराने का और दूसरे करने वाले को अच्छा मानने का त्याग करता है, पर तू उसके विपरीत वैसा ही कार्य करता है। यह तो एकदम अनुचित है। इस प्रकार तू दो पाप करता है; एक तो सावध क्रिया का पाप और दूसरा असत्य वचन का पाप। अतएव बोलना, उपदेश देना और करना एकसा होना चाहिये। जिन पुरुषों के व्यवहार में इन तीनों में अन्तर है उनको परभव में महा-भयंकर मानसिक, शारीरिक पीड़ाएँ सहनी पड़ती हैं।



विद्वानों ने कहा:—

यथा चित्तं तथा वाचो, यथा वाचस्तथा क्रियाः ।  
चित्ते वाचि क्रियायां च, साधूनामेकरूपता ॥

अर्थात् साधु जैसा विचार करें वैसा ही बोलें और जैसा बोलें वैसा ही आचरण करें। अन्यथा वे महान् पाप के भागी होते हैं।

यति सावध आचरे इस परवचन का दोष

वेधोपदेशाद्युपविप्रतारिता, ददत्यमीष्टानृजवोऽधुना जनाः ।

मुंक्षे च शेषे च सुखं विचेष्टसे, भवान्तरे ज्ञास्यसि तत्फलं पुनः ॥१२॥

अर्थ : वेश, उपदेश और कपट से मोहित हुए मरीक लोग तुम्हें को समी इच्छित वस्तुएँ देते हैं, तू सुख से उन्हें खाता है, सोता है और फिरता है, पर अगले भव में इसका क्या फल होगा, तू यह भी जानता है ? ॥१२॥

भावार्थ : ऊपर बताया जा चुका है कि श्रावक लोग तुम्हें गुणवान् समझ कर अच्छी से अच्छी वस्तु खाने को देते हैं और रहने को स्थान देते हैं। यदि तू साधु का चारित्र ठीक तरह नहीं पालता तो तुम्हें इन उत्तमोत्तम वस्तुओं की ग्रहण करने का क्या अधिकार है ? विना अधिकार के कोई वस्तु प्राप्त करने से महा दुर्गति में जाना पड़ता है। दंभ करने वाले को दंभ छिपाने के लिए अनेक झूठे उपाय तथा झूठ बोलना पड़ता है तथा हरदम झूठ प्रगट होने का डर रहता है। अतः वह इस लोक में और परलोक में कहीं भी सुखी नहीं रह सकता।

संयम में यत्न नहीं करने वाले को उपदेश

आजीविकादिविविधार्त्तिभृशानिशार्ताः,

कृच्छ्रेण केऽपि महतैव सृजन्ति घर्मान् ।

तेभ्योऽपि निर्दय जिह्वधृसि सर्वमिष्टं,

नो संयमे च यतसे मविता कथं ही ॥१३॥

अर्थ :—महान् कष्ट उठाकर गृहस्थ लोग आजीविका कमाते हैं और रात दिन दुःख उठाकर और हैरान होकर भी धर्म कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से तू अपनी सब इच्छित वस्तुएँ प्राप्त करने की इच्छा करता है, पर संयम नहीं रखता तो हे निर्दयी यति ! बता तेरा क्या हाल होगा ? ॥१३॥

निर्गुण मुनि की भक्ति से भक्तों को कोई फल नहीं होता

आराधितो वा गुणवान् स्वयं तरन्  
मवाब्धिमस्मानपि तारयिष्यति ।  
श्रयन्ति ये त्वामिति भूरिभक्तिभिः  
फलं तवैषां च किमस्ति निर्गुण ! ॥१४॥

अर्थ : ये (साधु) गुणवान् हैं, ये भव-समुद्र से तरेंगे, अपने को भी तार देंगे ऐसा मानकर बहुत से मनुष्य भक्ति से तेरा आश्रय लेते हैं। इससे निर्गुण ! तुम्हें और इनको क्या लाभ ?

भावार्थ :—हे साधु ! तू गुणवान् है यह समझ कर बहुत से श्रावक भक्ति से तुम्हें सब वस्तु बहराते हैं। इससे उनको पुण्य होगा और इस पुण्य का कारणभूत तू है यह समझ कर तुम्हें भी पुण्य बंध होगा यह समझना तेरी भूल है। कारण तुम्हें कोई ऐसा गुण नहीं जिससे तू तिरें और तेरे अवलम्बन से वे भी तिर जावें। परन्तु तुम्हें गुण न होने से तू तो अवश्य पाप-बंध करता है।

निर्गुण मुनि को उलटा पाप बंध होता है

स्वयं प्रमादैर्निपतन् मवाम्बुधौ, कथं स्वभक्तानपि तारयिष्यसि ।  
प्रतारयन् स्वार्थमृजून शिवार्थिनः स्वतोऽन्यतश्चैव विलुप्यसेऽहसा ॥१५॥

अर्थ : जब तू स्वयं प्रमादवश संसार-समुद्र में गिरता है तो अपने भक्तों को कैसे तारेंगा ? बेचारे मोक्ष के इच्छुक सरल प्राणियों

को तू अपने स्वार्थ के लिये धोखा देकर अपने किये पापों तथा अन्य (भक्तों) द्वारा किये पापों के कारण छूटा है।

मोक्ष की इच्छा करने वाले भद्रीक पुरुष संसार-समुद्र से पार होने के लिये तेरा आश्रय लेते हैं और तेरे उपदेश के अनुसार कार्य करते हैं, परन्तु तू उनको अनुचित उपदेश देकर जो उनसे कार्य कराता है अतः उनके पाप का भागी तू है। यह "अन्य द्वारा पाप हुआ" और तू पञ्चखोला (महाप्रव) लेकर विषय-कषायादि प्रमाद सेवन कर महाप्रव का भंग करता है इस पाप का भी तू भागी हुआ। इस प्रकार दोहरे पाप का भागी तू है। इस प्रकार हे मुनि! तू निर्गुणी होने से तुझे लाभ तो कोई होता नहीं, इसमें संदेह नहीं। तू यह समझता हो कि तुझे लोग अन्न-वस्त्र वहराकर पुण्य उपाजन करते हैं उसका जो लाभ उनको मिलता है उसका निमित्त तू है इस प्रकार तुझे भी लाभ मिलता है यह धारणा भी अनुचित है, क्योंकि तू निर्गुणी और दंभी है। तुझे तो इन कारणों से चला पाप ही प्राप्त होगा, और तू गले में पत्थर बाँध कर भव-समुद्र में छूट जायगा।

निर्गुणी का ऋण और उसका परिणाम

गृह्णासि शय्याहृतिपुस्तकोपधीन्, सदा परेम्यस्तपसरित्वयं स्थितिः।  
तत्ते प्रमादाद्भ्रिताभ्रतिग्रहेर्ऋणार्णमन्नस्य परत्र का गतिः ॥१६॥

अर्थ: तू दूसरों से उपाश्रय, आहार, पुस्तक और उपाधि (उपकरण) लेता है यह स्थिति तपस्वियों (शुद्ध चारित्र वालों) की है, परन्तु तू तो इन वस्तुओं को लेकर प्रमाद में पड़ जाता है। अतः जिस तरह बड़ा कर्जदार छूटा है उसी तरह परमव में तेरी गति होगी ॥१६॥

भावार्थ: ग्रन्थकार कहते हैं कि हे मुनि! तू प्रमाद करता है तो दोहरे कर्ज से छूटा है। एक तो चारित्र ग्रहण कर प्रमाद करता है और दूसरा शुद्ध चारित्र पाले बिना आहार आदि ग्रहण करता है। इस प्रकार दो कर्जों में छूटा है और जिस तरह ऋणी मनुष्य का सिर ऊँचा नहीं होता उसी प्रकार तेरी भी गति होगी अर्थात् कभी ऊँचा नहीं उठेगा।

तुझमें ऐसा क्या गुण है कि तू ख्याति की इच्छा रखता है ?  
 न कापि सिद्धिर्न च तेऽतिशायि, मुने क्रियायोगतपःश्रुतादि ।  
 तथाप्यहङ्कारकदर्थितस्त्वं, ख्यातीच्छया ताम्यसि धिङ् मुधा किम् ॥१७

अर्थ :—हे मुनि ! तुझमें न कोई विशेष सिद्धि न उच्च प्रकार की क्रिया न योग न तपस्या और न किसी प्रकार का ज्ञान है । फिर भी तू अहंकार से कदर्थना पाया हुआ प्रसिद्धि पाने की इच्छा करता है । हे अधम ! तू वृथा दुःख क्यों पाता है ? ॥१७॥

भावार्थ :—तुझमें आठ सिद्धियों में से एक भी नहीं उच्च क्रिया भी नहीं, जिसमें ऊँचे प्रकार की आतापना या घोर परिश्रम हो अथवा तूने उपसर्ग सहा हो । तूने न योगवहन प्राप्त किया, न घोर तपस्या की । सूत्रसिद्धान्त को समझ सकने की शक्ति रखने वाला ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया । अतः तू मान की आशा क्यों करता है, कुछ समझ में नहीं आता । महापुरुष मान की इच्छा नहीं करते । लेकिन तुझमें उक्त गुणों में से एक भी गुण नहीं है फिर भी मान की इच्छा करता है और मान न मिलने से तू दुःखी होता है । इसलिये हे मुनि ! यह बात अच्छी तरह समझले कि यदि गुण है तो तेरी प्रसिद्धि आप ही हो जायगी । इसलिये प्रसिद्धि की इच्छा छोड़ अपना कर्तव्य पालन कर और योग्यता प्राप्त कर ।

निर्गुणी होने पर भी स्तुति की इच्छा करने का फल  
 हीनोऽप्यरे भाग्यगुणैर्मुधात्मन्, वाञ्छंस्तवार्चाघनवाप्नुवंश्च ।  
 ईर्ष्यन् परेभ्यो लभसेऽतितापमिहापि याता कुगतिं परत्र ॥१८॥

अर्थ :—हे आत्मा ! तू पुण्यहीन है फिर भी तू पूजा आदि की इच्छा करता है । जब वह तुझे नहीं मिलती तो दूसरों से द्वेष करता है । ऐसा करने से इस भव में तू बहुत दुःख पाता है और पर भव में भी कुगति में जायगा ॥१८॥

भावार्थ : हे आत्मा ! तू प्रसिद्धि चाहता है, जब वह नहीं मिलती तो दूसरों से द्वेष करता है और मन में दुःखी होता है ।

परन्तु तुम्हको यह सोचना चाहिये कि प्रसिद्धि बिना पुण्य के नहीं प्राप्त होती। यदि तूने पिछले भव में पुण्य नहीं किया है तो इस भव में प्रसिद्धि कैसी? यदि इस भव में प्रसिद्धि प्राप्त करनी है तो गुणवान् बन, अभ्यास कर और अपना कर्तव्य पूरा कर। जब तुम्हमें गुण होंगे तो तेरी प्रसिद्धि अनायास हो जायगी। प्रसिद्धि के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिये। प्रसिद्धि ऐसी वस्तु है कि ज्यो-ज्यों मनुष्य उसके पीछे दौड़ता है वह त्यों-त्यों दूर भागती है। अतः प्रसिद्धि की इच्छा ही न करनी चाहिये। इससे इस भव में शान्ति मिलेगी और पर भव में दुर्गति से बचेगा।

गुण बिना स्तुति की इच्छा ऋण है

गुणैर्विहीनोऽपि जनानतिरपुतिप्रतिग्रहान् यन्मुदितः प्रतीच्छसि ।

लुलायगोऽश्वोष्ट्रखरादिजग्भिर्विना ततस्ते भविता न निष्कयः ॥१६॥

अर्थ : तुम्हमें गुण नहीं है फिर भी लोगों से तू वन्दना, स्तुति, आहार, पानी आदि लेता है और बड़ी खुशी से उन्हें रखता है। पर याद रखना ये सब तुम्ह पर कर्ज है, जो भैंसा, गाय, घोड़ा, ऊँट या गधे का जन्म लिये बिना नहीं छूटेगा।

भावार्थ : लोग तेरी पूजा करते हैं, बड़े मान से आहार, पानी बहराते हैं और सेवा करते हैं परन्तु ये सब तुम्हें बिना योग्यता के पचेंगे नहीं। यदि तू अपना कर्तव्य पालन करता है तो इन पर तेरा हक है अन्यथा ये सब तुम्ह पर कर्ज ही हैं, जो भैंसा, गाय, घोड़ा, गधे की गति में जन्म लेकर उतारना पड़ेगा।

गुण बिना वन्दन पूजन का फल

गुणेषु नोद्यच्छसि चेन्मुने ततः, प्रगीयसे यैरपि वन्धसेऽर्घ्यसे ।

जुगुप्सिता प्रेत्य गतिं गतोऽपि तैर्हसिष्यसे चाभिभविष्यसेऽपि वा ॥२०॥

अर्थ : हे मुनि ! जो तू गुण प्राप्त करने का यत्न नहीं करता तो तेरी गुणस्तुति करने वाले भक्तजन ही तेरे कुगति में जाने पर हँसी या अपमान करेंगे ॥२०॥

भावार्थ : विना गुणों के केवल बाह्य आडम्बर से धोखा देकर तुम मान कराते हो यह उचित नहीं। किये का फल परभव में भोगना पड़ेगा फिर तुम्हें बहुत दुःख अनुभव होगा।

गुण विना वन्दन पूजन से हितनाश  
दानमाननुतिवन्दनापरैर्मोदसे निकृतिरक्षितैर्जनैः ।  
न त्ववैषि सुकृतस्य चेष्टवः, कोऽपि सोऽपि तव लुप्यते हि तैः ॥२१॥

अर्थ : तेरे कपट-जाल से मुग्ध हुए लोग तुम्हें दान देते हैं, तुम्हें नमस्कार करते हैं, वन्दना करते हैं तो तू प्रसन्न होता है। तू जानता नहीं कि तेरे पास जो कुछ लेशमात्र सुकृत बचा है वह भी इस प्रकार छुटता जाता है ॥२१॥

भावार्थ : कपट-जाल द्वारा जो तू मान, दान, नमस्कार प्राप्त करता है उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं, बल्कि जो कुछ थोड़ा बहुत पुण्य तेरे पास है वह भी ऐसा करने से नष्ट हो जायगा और परभव में तू दुःख पायगा।

स्तवन का रहस्य गुण प्राप्ति

भवेद्गुणी मुग्धकृतैर्न हि स्तवैर्न ख्यातिदानार्चनवन्दनादिभिः ।  
विना गुणात्रो भवदुःखसंक्षयस्ततो गुणानर्जय किं स्तवादिभिः ॥२२॥

अर्थ : भोले आदमियों के द्वारा स्तुति होने से कोई गुणवान् नहीं होता। इसी प्रकार प्रख्याति प्राप्त करने से या दान, अर्चना और पूजा करवाने से कोई गुणवान् नहीं होता। गुणों के बिना संसार के दुःखों का नाश नहीं होता। इसलिए हे भाई ! तू गुण प्राप्त कर। इन स्तुति आदि से कुछ लाभ नहीं ॥२२॥

भावार्थ : संसार के सभी प्राणी दुःखों का नाश और सुख की प्राप्ति चाहते हैं। पर वास्तविक सुख वही है जिसके अन्त में दुःख न हो। अव्याबाध सुख तो मोक्ष में ही है। इसको प्राप्त करने के लिए असाधारण गुणों की आवश्यकता है। ये गुण न भोले प्राणियों की

स्तुति से प्राप्त होते हैं और न वन्दन, पूजन, नमस्कार आदि से, बल्कि इनसे अर्जित गुणों का नाश अवश्य हो जाता है। वास्तविक गुण तो क्रोध पर जय, ब्रह्मचर्य, मान, माया, त्याग, निःस्पृहता, न्यायवृत्ति और शुद्ध व्यवहार से ही प्राप्त होते हैं। जब ये गुण प्राप्त हो जाते हैं तो मुनि अक्षय आनन्द में विचरता है, चारों ओर उसका यश फैलता है और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है।

लोक रंजन भाषणों का भवान्तर में परिणाम

अध्येषि शास्त्रं सदसद्विचित्रालापादिभिस्ताभ्यसि वा समार्यैः ।

येषां जनानामिह रंजनाय, भवान्तरे ते क मुने क्व च त्वम् ॥२३॥

अर्थ : जो मनुष्यों के मनोरंजन के लिये अच्छे तथा बुरे अनेक शास्त्रों को पढ़ते हैं, माया पूर्वक विचित्र ढंग से भाषण देने का कष्ट उठाते हैं और श्रोता बड़ी वनमयता से उनको सुनते हैं। ऐसे पुरुष भवान्तर में कहाँ जावेंगे और तू भी कहाँ जायगा ? ॥२३॥

भावार्थ : जो लोग यह कहते हैं कि हम तो सब कार्य लोकरंजन तथा वाहवाही लूटने के लिए करते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि इस प्रकार की वाहवाही कितने आदमी करेंगे और कितने समय तक ? क्योंकि ऐसी वाहवाही सदा रहने वाली नहीं। न तो श्रोता और न भाषण देने वाले सदा रहने वाले हैं। इसलिए तू इन सब बाह्य व्यापारों को छोड़ दे, और वास्तविक लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर तथा मन, वचन, काया और व्यवहार शुद्ध रख, जिससे तेरा परभव सुधरे।

परिग्रह त्याग

परिग्रहं चेद्व्यजहा गृहादेस्तत्किं नु धर्मोपकृतिच्छलात्तम् ।

करोषि शय्योपधिपुस्तकादेर्गरोऽपि नामान्तरतोऽपि हन्ता ॥२४॥

अर्थ : जब घर इत्यादि सब परिग्रह का त्याग कर दिया है तो धर्म के उपकरणों के बहाने से शय्या, उपाधि, उपकरण, पुस्तक आदि परिग्रह किसलिए रखता है ? विप का नाम दूसरा रख देने से भी वह मार ही डालता है ॥२४॥

भावार्थ: हे मुने! जब तुमने घर, संवंधी-सब परिग्रह का त्याग कर दिया है तो धर्म के उपकरण रूप शय्या, सुन्दर पुस्तक आदि उपकरणों में क्यों मोह रखता है? धार्मिक क्रिया से साधना के निमित्त समझकर यदि इनमें मोह रखता है तो ये ही वस्तुएँ परिग्रह हैं। परिग्रह को शास्त्रों ने सदा त्याज्य कहा है। परिग्रह को किसी नाम से पुकारा जाय है वह त्याज्य ही है। विप को अमृत कहने पर भी विप ही रहता है। इस प्रकार परिग्रह भी चाहें धर्म का उपकरण हो वह परिग्रह ही है।

धर्म-निमित्त रखा हुआ परिग्रह

परिग्रहात्स्वीकृतधर्मसाधनाभिधानमात्रात्किमु मूढ ! तुष्यसि ।

न वेत्सि हेम्नाप्यतिभारिता तरी, निमज्जयत्यङ्घ्रिनमम्बुधौ द्रुतम् ॥२५॥

अर्थ:—हे मूढ ! धर्म के साधन को उपकरण आदि नाम देकर स्वीकार किये हुए परिग्रह से तू क्यों असन्न होता है? क्या तू नहीं जानता कि जहाज में सोने का अति भार हो तो उस जहाज में बैठने वाला आखी समुद्र में तुरंत डूब जाता है ॥२५॥

भावार्थ:—सोना सबको प्रिय है, पर यदि सोने का बहुत बोझ जहाज में भर दिया जावे तो जहाज डूब जाता है और साथ में बैठने वाले भी डूब जाते हैं। इसी प्रकार यति-जीवन रूपी जहाज में परिग्रह रूपी सुवर्ण का अति भार भर दें तो चारित्र्य रूपी नौका अवरय डूबती है। धर्म उपकरण चारित्र्य पालने में साधन स्वरूप है, परन्तु इन पर यति का मोह नहीं होता। यदि उसका उपकरणों में मोह है तो वह परिग्रह है और सोने के भार के समान चारित्र्य रूपी नौका को डुबा देता है जो मुनि को संसार में अनन्त समय तक घुमाता है।

धर्मोपकरण पर मूर्छा—ये भी परिग्रह है

येऽहःकषायकलिकर्मनिवन्धभाजनं,

स्युः पुस्तकादिभिरपीहितधर्मसाधनैः

तेषां रसायनवरैरपि सर्पदामयै—

रातात्मनां गदहतेः सुखकृत्तु किं भवेत् ॥२६॥



अर्थ: जिसके द्वारा धर्म-साधना की हो ऐसी पुस्तकादि के विषय में भी प्राणी पाप, कषाय, ऋगड़ा और कर्मबंधन करे तो फिर सुख का साधन क्या ? उत्तम प्रकार के रसायन से भी जिन प्राणियों की व्याधि अधिक बढ़े तो फिर व्याधि की शान्ति के लिये दूसरा क्या उपाय हो सकता है ?

भावार्थ: इस पुस्तक में भगवान् के वचनों का संग्रह है जो संसार से पार होने के मुख्य साधन स्वरूप हैं। अतएव भेरी है ऐसा समझ कर ममता के कारण कर्मबंधन करता है। इसी प्रकार अन्य उपकरणों पर भी मोहवश ऋगड़ा करता है तो ये सब परिग्रह ही हैं और संसार बढ़ाने का कारण हो जाते हैं। जो साधन संसार-नाश के परम साधन है वे ही संसार-वृद्धि का कारण हो जाते हैं तो फिर संसार का अन्त कैसे हो ? यह ममत्व भाव ही संसार बँधाता है।

धर्मोपकरण पर मूर्छा-दोष है

रक्षार्थं खलु संयमस्य गदिता येऽर्था यतीनां जिनै,

वासः पुस्तकपात्रकभृतयो धर्मोपकृत्यात्मकाः ।

मूर्छन्मोहवशात् एव कुषियां संसारपाताय धिक्,

स्वं स्वस्त्यैव वधाय शस्त्रमधियां यद्दुष्प्रयुक्तं भवेत् ॥२७॥

अर्थ: यद्यपि वस्त्र, पुस्तक, और पात्र आदि धर्मोपकरणों को श्री तीर्थङ्कर भगवान् ने संयम की रक्षा के लिये बताया है। तो भी मन्द-बुद्धि वाले पुरुष उनमें अधिक मोह रखने से उनको संसार में पड़ने का साधन बना लेते हैं, उन्हें धिक्कार है। मूर्ख मनुष्य उपयोगी शस्त्र को मूर्खता के कारण अपने ही नाश का कारण बना लेता है ॥२७॥

धर्मोपकरण वहाना से दूसरे पर बोझ

संयमोपकरणच्छलात्परान्मारयन् यदसि पुस्तकादिभिः ।

गोखरोष्ट्रमहिषादिरूपमृतच्चिरं त्वमपि भारयिष्यसे ॥२८॥

अर्थ:— संयम उपकरण के वहाने से पुस्तक आदि वस्तुओं का भार तू दूसरों पर डालता है। तो वह तुझसे बैल, गधा, ऊँट या भैंस आदि रूप द्वारा बहुत समय तक भारे खिंचवाएँगे ॥२८॥

भावार्थः—साधु लोग उपकरण के बहाने अनेक खर्च कराकर अपने भक्तों पर बोझ डालते हैं। अनावश्यक पुस्तकें तथा दूसरी अनावश्यक वस्तुओं को अपने आराम के लिये ले लेते हैं। जब चतुर्मास समाप्त हो जाता है तो वे लौटाते नहीं। इस तरह उनके पास बोझ बढ़ जाता है तो बिहार के समय सामान ढोने को गाड़ी की आवश्यकता होती है। कई साधु अपने साथ लेखक रखते हैं, अपने काम को सुव्यवस्थित चलाने के लिये नौकर भी रखते हैं और इनको संयम साधन के लिये आवश्यक बताते हैं। इन सबका भार श्रावक समाज पर पड़ता है। जहाँ संयम के उपकरणों में अति होती है तो ममत्व भाव हो ही जाता है और इन उपकरणों का रूप परिग्रह में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार जो भार उपकरणों के बहाने से लिया वह जन्मजन्मान्तर में दुःख और भव-भ्रमण करायेगा। इसलिये साधु को केवल अति आवश्यक वस्तु ही रखनी चाहिये और उस पर भी ममता नहीं होनी चाहिये।

संयम और उपकरण के शोभा में होड़

वस्त्रपात्रतनुपुस्तकादिनः शोभया न खलु संयमस्य सा ।

आदिमा च ददते भवं प्ररा, मुक्तिमाश्रय तदिच्छयैकिकाम् ॥२६॥

अर्थः— वस्त्र, पात्र, शरीर तथा पुस्तक आदि की शोभा करने से संयम की शोभा नहीं बढ़ती। प्रथम प्रकार की शोभा भववृद्धि करती है और दूसरी प्रकार की शोभा मोक्ष देती है। इसलिये इन दोनों शोभा में से एक को स्वीकार करो। अथवा इसी कारण वस्त्र, पुस्तक आदि की शोभा त्याग कर हे मुनि! मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाले तू संयम की शोभा प्राप्त करने का यत्न क्यों नहीं करता-? ॥२६॥

भावार्थः—शोभा दो प्रकार की होती है, एक बाह्य शोभा और दूसरी अन्तरंग शोभा। संसार बँधाने वाली बाह्य शोभा—परिग्रह और ममता—छोड़कर अन्तरंग शोभा के लिये प्रयत्न कर। सत्तर प्रकार का संयम अथवा चरणसित्तरी और करणसित्तरी की शोभा करना ये तेरा कर्तव्य है, पर इतनी बात याद रखनी चाहिये कि जहाँ बाह्य शोभा हो वहाँ अन्तरंग शोभा नहीं हो सकती, इसलिये इन दोनों में से एक को तू मान्यता दे।

लोगों की ऐसी मान्यता है कि ज्ञान, दर्शन और चरित्र के साधनों को परिग्रह नहीं कह सकते। सूरि महाराज कहते हैं कि ये धार्मिक ठीक हैं, परन्तु अन्य कारणों से भी परिग्रह हो सकते हैं। जब संयम के उपकरणों पर "मेरी है" ऐसी बुद्धि हो तथा उनके त्याग से दुःख हों और ये चीजें किसको मिलनी चाहिये यह निश्चय करने की अपनी सत्ता हो तो ये सब वस्तुएँ परिग्रह हैं। किसी वस्तु पर किसी प्रकार का स्वामित्व अथवा सत्ता जमाना परिग्रह है। जो वस्तुएँ साधुत्व अथवा संयम स्थिर रखने में सहायक हो अथवा संयम रक्षण के लिये आवश्यक हों और मोह राजा पर विजय प्राप्त करने के निमित्त यह सबका उपयोग करने के लिए भगवान् की आज्ञा हो, उनका दुरुपयोग करने से संसार-भ्रमण कराने वाली वस्तु बन जाती है। इससे कितना बड़ा नुकसान होता है। तुमने जब धर-दार, स्त्री, धन सब कुछ त्याग दिया तो इनका त्यागना अधिक कठिन नहीं है। इनसे ममत्व-त्याग की साधना अपनाने से तेरा कार्य सिद्ध हो जायेगा।

परिग्रह सहन रावर

शीतातपाधान्न मनागपीह, परीषहांश्चेत्क्षमसे विसोढुम् ।

कथं ततो नारकगर्भावासदुःखानि सोढासि भवान्तरे त्वम् ॥३०॥

अर्थ: इस भव में जब तू थोड़ी सर्दी, गर्मी आदि परिग्रह नहीं सहन कर सकता तो अगले भव में नारकी का तथा गर्भावास के दुःख को किस तरह सहन करेगा ? ॥३०॥

भावार्थ: अपनी विभाव दशा है जो मनोवृत्ति विनाश की तरफ जाती है, कारण कि अपनी मनोवृत्ति पर राग-द्वेष का आधिपत्य है। यदि यह जीव राग-द्वेष आदि को जीत ले, परिग्रह सहन कर नवीन कर्म-बन्धन रोक दे और पहले के कर्मों का फल भोग ले तो बहुत लाभ हो। हे मुनि ! तेरा जीवन तो परिग्रह सहन करने के लिये ही है। इसलिये याद रख जिन कर्मों का फल तू यहाँ खुशी-खुशी भोग लेगा तो भवान्तर में नारकी तथा गर्भ के दुःखों से बच जायगा।

ये देह विनाशो-अप-तप करले

मुने ! न किं नश्वरमस्वदेहमृत्पिण्डमेन सुतपोव्रताधैः ।

निपीड्य भीतिर्भवदुःखराशेहित्वात्मसाञ्छैवसुखं करोषि ॥३१॥

अर्थ: हे मुनि ! यह शरीर मिट्टी का पिण्ड है, नाशवान् है और अपना नहीं है, इसलिए इसे उत्तम प्रकार के तप और व्रत द्वारा कष्ट देकर अनन्त भवों में होने वाले दुःखों को यहीं नष्ट कर मोक्ष-सुख का साक्षात्कार क्यों नहीं करता ? ॥३१॥

भावार्थ: जो कुछ धर्म-साधना हो सकती है वह इसी मनुष्य-भाव में हो सकती है। यह भी वे मुनि जानते हैं यह शरीर मिट्टी का पिण्ड है और अपना नहीं। थोड़े समय बाद यह जीव इसे यहीं छोड़कर चला जायगा तो तप, जप, व्रत, ध्यान आदि करके इस पराई वस्तु का उपयोग क्यों नहीं किया जावे। इससे तेरा संसार धटेगा और मोक्षरूपी लक्ष्मी प्राप्त होगी।

चारित्र का कण्ट और नारकी, तिर्यञ्च का कण्ट

यदत्र कण्टं चरणस्य पालने, परत्र तिर्यङ्नरकेषु यत्युनः ।

तयोर्मिथः सप्रतिपक्षता स्थिता, विशेषदृष्ट्या न्यतरं जहीहि तत् ॥३२॥

अर्थ: चारित्र पालने समय जो इस भव में कण्ट होते हैं और पर भव में नारकी और तिर्यञ्च गति में जो कष्ट होते हैं ये दोनों एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं। इसलिये विवेक द्वारा दोनों में से एक को तज दे ॥३२॥

भावार्थ:—चारित्र पालने में तथा रमण्यत्वरूप आत्मगुण प्राप्त करने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है। केश लोचने पड़ते हैं तथा कई दूसरे तात्कालिक लाभ त्यागने पड़ते हैं। सभी सांसारिक सुख भी त्यागने पड़ते हैं। नारकी और तिर्यञ्च के दुःखों को भी सहना पड़ता है। ये दोनों दुःख एक दूसरे से भिन्न तथा परस्पर विरोधी होते हैं। जो चारित्र पालने के दुःख को सहन करता है उसे मनुष्य-या देव गति प्राप्त होती है तथा जिसने अधिक स्थिरता से कष्ट सहन किया हो वह मोक्ष भी प्राप्त

करता है तथा जिसने यहां व्यसन, विषय-सेवन तथा कपट व्यवहार किया है उसे दुर्गति मिलती है। अतएव हे मुनि ! तुम सोच समझ कर दोनों में से एक को ग्रहण करो, इन दोनों कष्टों में कौनसा दुःखद तथा अधिक समय तक कष्ट देने वाला है इसका निर्णय कर लो।

प्रमाद जन्य सुख तथा भुक्ति का सुख

शमत्र-यन्दिन्दुरिव प्रमादजं, परत्र यन्चाण्विरिव धुमुक्तिजम् ।

तयोर्मिथः सप्रतिप्रक्षता स्थिता, विशेषदृष्ट्यान्यतरद्ग्रहाण तत् ॥३३॥

अर्थः इस भव में प्रमाद से जो सुख प्राप्त होता है वह विन्दु के समान है और पर भव में देवलोक और मोक्ष का सुख है वह समुद्र के तुल्य है। इन दोनों सुखों में पारस्परिक विरोध है। इसलिये विवेक से इन दोनों में से एक को ग्रहण कर।

चारित्र नियन्त्रण का दुःख और गर्भवास का दुःख

नियन्त्रणा या चरणोऽत्र तिर्यकस्त्रीगर्भकुम्भीनरकेषु या च ।

तयोर्मिथः सप्रतिप्रक्षभावाद्द्विशेषदृष्ट्यान्यतरां ग्रहाण ॥३४॥

अर्थः चारित्रपालने में इस भव में तुम्ह पर-नियन्त्रण होता है, और पर भव में तिर्यच गति में, स्त्री के गर्भ में अथवा नारकी के कुम्भीपाक में भी नियन्त्रण (कष्ट पराधीनता) होता है। ये दोनों नियन्त्रण परस्पर विरोधी हैं, इसलिये विवेक के द्वारा दोनों में से एक को ग्रहण कर ॥३४॥

परिपह सहन करने का उपदेश

सह तपोयमसंयमयन्त्रणां, स्ववशतासहने हि गुणो महान् ।

परवशस्त्वति भूरि सहिष्यसे, न च गुणं बहुमाप्स्यसि कञ्चन ॥३५॥

अर्थः तू तप, यम, और संयम का नियन्त्रण सहन कर। अपने वश में रहकर परिपहादि दुःख सहने में बड़ा गुण है। परवश स्थिति में रहेगा तो बहुत दुःख सहन करना पड़ेगा और उसका फल भी कुछ नहीं होगा ॥३५॥

भावार्थ: तप—वाह्यतप जैसे उपवास आदि, अंतरंग तप जैसे प्रायश्चित्त आदि। यम—पाँच अपुत्रव अथवा गृहप्रव। संयम—चार कषायों का त्याग; मन, वचन, काया के योगों पर अकुश और पाँचों इन्द्रियों का दमन। इन तप, यम और संयम की नियंत्रणा में कष्ट सहन करना पड़ता है। जब कोई मुनि अपनी इच्छा से कष्ट सहन करते हैं तो मन में शान्ति रहती है और इसका परिणाम भी शुभ होता है। उनके संचित कर्मों का क्षय होता है। विषय-वासना से मनुष्य को क्षणिक ही सुख होता है, परन्तु जब वह समाप्त हो जाता है तो मनुष्य को दुःख होता है। इससे परभव भी बिगड़ जाता है। यदि इन्हीं विषयों को अपनी इच्छा से त्याग दिया जावे तो दुःख के स्थान पर आनन्द हो जावे, चित्त को शान्ति मिले, पहले के संचित कर्म क्षीण हो जावें तथा नये शुभ कर्म बँध जावें और देवलोक तथा मोक्ष भी निकट आ जावे। यदि पुरुष विषयों को नहीं छोड़ते तो ये विषय तो पुरुष को एक दिन छोड़कर चले ही जावेंगे—फलस्वरूप पाप-बन्धन होगा और परभव में दुःख ही दुःख होगा। अतः यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि अपनी इच्छा से दुःख सहने में बहुत लाभ है और विवश होकर दुःख सहने में अनेक हानियाँ हैं।

परिषह सहन करने का शुभ फल

अपीयसा साम्यनियंत्रणाभुवा, मुनेऽत्र कष्टेन चरित्रजेन च ।

यदि क्षयो दुर्गतिगर्भवासगाऽसुखावलेस्तत्किमवापि नार्थितम् ॥३६

अर्थ—समता और नियंत्रण के द्वारा थोड़ा सा कष्ट पाने तथा चारित्र्य पालने में थोड़ा कष्ट उठाने से यदि दुर्गति में जाने की अथवा गर्भवास की दुःख परम्परा मिट जावे तो फिर पीछे कौनसी इच्छा पाना बाकी रह गई (अर्थात् कुछ नहीं बाकी रहा) ? ॥३६॥

भावार्थ:—समता तो आत्मिक धर्म है। इसमें कष्ट नहीं होता बल्कि शान्ति मिलती है। इसी प्रकार सहज स्वरूप में रमने से इन्द्रियों की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है जिससे आत्मिक शान्ति में अधिक तीव्रता आ जाती है। इस प्रकार समता, नियंत्रण और चारित्र्य पालने में कोई कष्ट नहीं। यदि ऐसे आचरण में थोड़ा कष्ट मान

भी लिया जाय तो, चूँकि उस कष्ट से पर भव में गर्भावास और नारकीय निर्यञ्च गति की अनन्त यातना से तो पुरुष बच जाता है, अतः इससे अधिक फल और क्या चाहिये ?

परिषह से दूर भागने का बुरा फल

त्यज स्पृहां स्वः शिवशर्मलाभे, स्वीकृत्य तिर्यङ्तरकादिदुःखम् ।  
सुखाणुमिश्रोद्धिषयादिजातैः, संतोष्यसे संयमकष्टमीरुः ॥३७॥

अर्थः—संयम पालने के कष्ट से डर कर विषय-कषाय से प्राप्त अल्प सुख में यदि पुरुष संतोष का अनुभव करता है तो वह तिर्यञ्च-नारकी का भावी दुःख स्वीकार कर ले और स्वर्ग तथा मोक्ष पाने की इच्छा का त्याग कर दे ॥३७॥

भावार्थः—संयम पालने में वस्तुतः दुःख नहीं होता है। यदि तुम्हें वहाँ दुःख प्रतीत होता है तो तू देवलोक अथवा मोक्ष पाने की इच्छा छोड़ दे।

परिषह सहन करने से अधिक शुभ फल

समग्रचिन्तार्तिहृतेरिहापि, यस्मिन्सुखं स्यात्परमं रतानाम् ।  
परत्र चेन्द्रादिमहोदयश्रीः, प्रमाद्यसीहापि कथं चरित्रे ॥३८॥

अर्थः—चारित्र्य से इस जन्म में सब प्रकार की चिन्ता और मन का दुःख नष्ट हो जाता है। इसलिये जिनकी चारित्र्य में लय लग गई है उनको इस भव में बहुत सुख होता है और परभव में इन्द्रासन अथवा मोक्ष-रूपी महालक्ष्मी मिलती है। इस तत्त्व को जानने पर तू चरित्र पालने में क्यों प्रमाद करता है ? ॥३८॥

भावार्थः—साधु-जीवन में आत्म-सन्तोष और प्राप्त वस्तु के इच्छा-पूर्वक त्याग से चित्त में बहुत आनन्द होता है। इसके अतिरिक्त राज-भय, चोर-भय, आजीविका से निश्चिन्तता और इस भव में सुख और पर भव में भी सुख उत्पन्न होता है। इसलिये साधुपते में तो सुख ही सुख है। अतः हे आत्मन् ! तू ऐसे लामकारी जीवन प्राप्त करने के निवाहने में क्यों बर्बाद होता है ?

मुख्य साध्य धर्म कर्तव्य का दूसरा उपाय

महातपोध्यानपरीषहादि, न सत्त्वसाध्यं यदि धत्तुमीशः ।

तद्भावनाः किं समितीश्च, गुप्तार्थत्से शिवार्थिन्न मनःप्रसाध्याः ॥३६॥

अर्थः—उप तपस्या, ध्यान, परिषह आदि साधना तो शक्ति द्वारा ही सम्पन्न होती है। यदि साधना करने के लिए तू शक्तिमान् नहीं है तो हे मोक्षार्थी ! तू मन से साधी जाने वाली भावना, पाँच समिति और तीन गुप्तियों को धारण क्यों नहीं करता ? ॥३९॥

भावार्थः—इस युग के पुरुषों में इतनी शक्ति नहीं कि छह भासी तपः महा प्राणायामादिके ध्यान तथा उपसर्ग, परिषह आदि सहन कर सके। तब यहाँ असामर्थ्य के कारण उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए क्या प्रयास छोड़ देना चाहिये यह शंका होती है। उसके लिए शास्त्र समाधान बताते हैं कि आत्म-कल्याण के मार्ग बंद नहीं हो गये हैं। मन पर अंकुश रखने से, इन्द्रिय दमन से, आत्म संयम से, मन, ध्यान और काय के योगों पर अंकुश रखने से, बिना शारीरिक कष्ट उठाये ही आत्म-कल्याण हो सकता है।

भावना—संयम स्थान उसका सहारा

अनित्यताया भज भावनाः सदा, यतस्व दुःसाध्यगुणोऽपि संयमे ।

जिघत्सया ते त्वरते ह्ययं यमः, श्रयन् प्रमादान्न मवाब्दिभेषि किम् ॥४०॥

अर्थः—अनित्य भावना आदि बारह भावनाओं का निरन्तर भजन करता रह। बड़ी कठिनाई से साधे जाने वाले संयम के गुणों को (मूलगुण और उपरगुण) साधने का यत्न कर। यमराज तुझे उठा ले जाने की जल्दी कर रहा है, ऐसी दशा में तू प्रमाद क्यों करता है ? तू भव-भ्रमण से क्यों नहीं भय खाता ? ॥४०॥

विवेचनः अनित्यादि १२ भावनाएँ हैं। इनको निरन्तर भजना चाहिये। ये इस प्रकार हैंः—

१. अनित्य भावना—संसार में सब वस्तुएँ नाशवान् हैं केवल आत्मा नित्य है।



२. अशरणा-भावना—जिनवाणी के सिवाय इस जीव को कोई धरने वाला नहीं।

३. संसार भावना—यह जीव अनेक परिस्थितियों में कर्मानुसार संसार में भ्रमण करता है।

४. एकत्व भावना—यह जीव इस संसार में अकेला आया और अकेला ही जायगा।

५. अन्यत्व भावना—इस संसार में कोई किसी का नहीं? पौद्गलिक वस्तुएँ हैं पर वे विनाशवान् हैं। इस प्रकार पुत्र, पति, पत्नी भी अपने-से भिन्न हैं।

६. अशुचि भावना—अपना शरीर अशुचि वस्तुओं से भरा है, अवः प्रीति करने योग्य नहीं, इससे शरीर पर ममता नहीं रखनी चाहिए।

७. आश्रित्व भावना—मिथ्यात्व, अविरति, कषाय तथा मन, वचन, काया के योग से कर्मबंध होते हैं।

८. संवर भावना—पाँच समिति, तीन गुप्ति, यति-धर्म, चारित्र, परिषह-सहन आदि से कर्म बंधन एकता है।

९. निर्जरा भावना—वाह्य तथा आभ्यन्तर तप द्वारा पुराने कर्मों का नाश करना, अपने प्रबल पुरुषार्थ से कर्मों का विपाकोदेय न होने देना और उनका क्षय करना।

१०. लोक स्वरूप—मण्डल की रचना, नरक, मृत्यु लोक, वारह देव लोक, प्रवेयक अनुष्णर विमान और मोक्ष स्थान, उनमें रहने वाले जीवों के साथ अपने सम्बन्ध का विचार करना।

११. बोधि भावना—धर्म जीव को दुर्गति में पड़ने से बचाता है। शास्त्र-प्रतिपादित धर्म, दान, शील, तप और भाव तथा दश यतिधर्म, श्रावक के वारह प्रव आदि अनेक बातें समझने वाले पुरुष अति दुर्लभ हैं।

१२. धर्म भावना—शुद्ध देव, गुरु और धर्म को पहचानना बहुत कठिन है और पहचान कर उन्हें पूजना, वन्दना करना और आराधना करना तो बहुत ही कठिन है, पर इनकी साधना करना ही अपना कर्तव्य है।

इन् बाराह भावनाओं के सिवाय, भैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ्य भावना ये चार भावनाएँ भी निरंतर ध्यान में रखने योग्य हैं।

हे साधु ! तुम्हें चरणसिचरी और करुणसिचरी भी बहुत अच्छी तरह पालनी चाहिए। इनका सन्निभ स्वरूप नीचे दिया है :

चरण-सिचरी के ७० भेद : ५ महाप्रवृत्त; १० व्यतिकर्म, १७ प्रकार का संयम, १० प्रकार का वैयावच, बड़ों की सेवा सुश्रूषा; ९ प्रकार का महत्कार्य; ३ ज्ञानादित्रय ( शुद्ध अवबोध, शुद्ध श्रद्धा और निरतिचार वर्तन ) १२ तपस्या ( ६ बाह्य और ६ आभ्यन्तर ), ४ कथाव्यत्याग इस प्रकार ७० भेद हुए।

करुण सिचरी के ७० भेद : ४ पिण्ड ( शय्या, वस्त्र और पात्र जरूरत से ज्यादा नहीं लेना ), ५ समिति ( १ ) इर्या समिति ( २ ) भाषा समिति ( ३ ) ऐषणा समिति ( ४ ) आदान भंडमत्त निक्षेपणा समिति ( ५ ) परिष्ठा पत्रिका समिति ।

१२ भावना ( इनका स्वरूप ऊपर आ गया ), १२ साधु की प्रतिभा, ५ इन्द्रिय-निरोध, २५ प्रतिलेखना, ३ गुप्ति, ४ अभिग्रह इस प्रकार ७० चरण-सिचरी के भेद हुए।

उपरोक्त सब साधु योग्य कर्तव्य हैं। उनको इनमें प्रवृत्ति करनी चाहिए। प्रमाद से बचना चाहिए, कारण मृत्यु निकट आती जाती है। गया समय फिर हाथ नहीं आवेगा और न यह मनुष्य देह तथा जन धर्म बार-बार मिलने वाला है।

भक्त, वचन, कथा के योगो पर नियन्त्रण की आवश्यकता

हत्तं मनस्ते कुविकल्पजात्पूर्वचोप्यवधैश्च त्रपुः प्रमादैः ।  
लब्धीश्च सिद्धीश्च तथापि वाञ्छन्, मनोरथैरेव हहा हतोऽसि ॥४१॥

अर्थ : तेरा मन तुरे संकल्प विकल्पों से विकृत हो गया है; तेरे वचन असत्य और कठोर भाषण से अशुद्ध हो गए हैं, तथा तेरा शरीर

प्रमाद से विगाड़ गया है, फिर भी तू लब्धि और सिद्धियों की इच्छा करता है। निःसन्देह तू भूठे मनोरथों में फँसा हुआ है ॥४१॥

भावार्थ : मन, वचन और काया इन तीनों को वश में रखना बहुत आवश्यक है यह सब हम पहले समझ चुके हैं। यदि इन तीनों को अपनी इच्छा पर छोड़ दिया जावे तो लब्धि तथा सिद्धियों की आशा रखना वृथा तो है ही अपने मन के लिये दुःख की सामग्री जुटाना और भविष्य को विगाड़ लेना भी है। गौतम स्वामीजी महाराज को लब्धियों प्राप्त थीं और तीनों योगों पर भी बहुत कुछ अधिकार था केवल महावीर प्रभु पर राग था। इतना होने पर भी उनको केवलज्ञान प्राप्ति में बड़ा समय लगा, वरना केवलज्ञान कभी का हो जाता। इसलिये हे साधुओं ! योग की सम्यक् साधना करना अत्यन्त आवश्यक है। इसे सविधि करने पर सांसारिक दुःखों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है।

मनोयोग पर अंकुश—मनोगुप्ति

मनोवशस्ते सुखदुःखसंगमो, मनो मिलेद्यैस्तु तदात्मकं भवेत् ।

प्रमादचोरैरिति वार्यतां मिलच्छीलाङ्गमित्रैरनुषङ्गयानिशम् ॥४२॥

अर्थ:—सुख दुःख पाना तेरे मन के आधीन है। मन जिसका साथ करता है वैसा ही वह हो जाता है। इसलिये प्रमाद रूपी चोर की संगति करने से तू अपने मन को हटाले और शीलांगना रूप मित्रों के साथ सदा मिला कर ॥४२॥

भावार्थ:—जैसे कर्म बँधे होते हैं वैसे ही सुख दुःख प्राप्त होते हैं। अच्छे या बुरे कर्म का कारण केवल मन है। इसलिये मन ही सब सुख दुःख का कारण है, मन को जैसा साथ मिलता है वैसा ही वह हो जाता है जैसे तेल को पानी पर डाल दिया जावे तो वह सर्वत्र फैल जाता है और उसी तेल को सुगन्धित पुष्पों में डाल दिया जाए तो वह सुगन्धित हो जाता है। इसी प्रकार यदि मन को सांसारिक कामों में लगा दिया जावे तो वह वैसा ही हो जाता है और यदि इसे शीलांग के साथ लगा दिया जाय तो वह शुद्ध शीलांग रूप हो जाता है। इसलिये

हे यति ! जो जैसी संगति करेगा वह वैसा ही हो जायगा । इसलिये मन को प्रमाद का साथी नहीं होने देना चाहिये । उसे तो समता, दया, उदारता, सत्य, क्षमा, धीरज, शीलान्ग आदि सद्गुणों के साथ जोड़ देना चाहिये । अ-य किसी प्रकार का नीच सम्बन्ध इससे न हो जाय इसका सदा ध्यान रखना चाहिये ।

मत्सर त्याग

ध्रुवः प्रमादैर्भववारिवौ मुने, तव प्रपातः परमत्सरः पुनः ।  
गले निवद्धोरुशिलोपमोऽस्ति चैत्कथं तदोन्मज्जनमप्यवाप्स्यसि ॥४३॥

अर्थ : हे मुनि ! तू प्रमाद करता है इसलिए संसार-समुद्र में तू अत्रश्य गिरेगा यह तो निश्चय है और दूसरों को मात्सर्य भावना से देखता है तो तेरा यह कार्य गले में शिला बाँधने के समान है । ऐसी दशा में तू भव-समुद्र में डूबता हुआ ऊपर किस तरह तिर सकेगा ॥४३॥

भावार्थ :- साधु धर्म में आत्म जागृति मुख्य है । बिना जागृति के साधु प्रमादवश हो जाता है, और उसका व्यवहार निंद्य हो जाने से उसका अधःपतन होता है । इसलिए साधु को ज-प्रमत्त रहने के लिए भगवान् का आदेश है । यहाँ प्रमाद का अर्थ मद्य, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा का सेवन है । इनसे समस्त साधुओं को बचना चाहिए । कारण इससे जीव का अधःपतन होता है और फिर इस प्रमाद के साथ वह मत्सर अर्थात् ईर्ष्या करता है तो गले में भारी पत्थर बाँध कर डूबने के समान है । उस दशा में उसको संसार-समुद्र से निकलना बहुत कठिन हो जाता है यह उपदेश क्या साधु-क्या गृहस्थी दोनों के लिए उपयोगी है ।

निर्जरा के लिए परिवह सहना

महर्षयः केऽपि सहन्त्युदीर्याप्युत्रातपादीन्यदि निर्जरार्थम् ।  
कथं प्रसज्जागतमप्यणीयोऽपीच्छन् शिवं किं सहसे न भिक्षो ! ॥४४॥

अर्थ :—जब बड़े ऋषि मुनि कर्म की निजरा के लिए उदीरणा कर कष्ट सहते हैं तो तू मोक्ष की इच्छा रखता है और तू आये हुए साधारण अल्प कष्टों को क्यों नहीं सहन करता ॥४४॥

भावार्थ :—जब बड़े ऋषि मुनि कर्म की निजरा करने के लिये उदीरणा (अर्थात् कर्म जल्दी दाय करने के लिए कर्मों को उदय में लाने के लिए अपनी इच्छा से कष्ट भोगना) करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसे कष्ट दो जिससे जल्दी कर्म-क्षय हो। वे कड़ी धूप तथा वालू रेत में आतापना लेते हैं। भर सदी में रात के समय नदी के किनारे नग्न शरीर का उत्सर्ग करते हैं आदि कितने ही कष्ट सहते हैं। तो हे मुनि ! तू थोड़े से कष्ट से घबड़ा जाता है यह तुझे शोभा नहीं देता है। कर्म-क्षय कर उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए कष्ट सहन करना अनिवार्य है, इससे तू पीछे क्यों हटता है।

यति स्वरूप—भाव दर्शन

यो दानमानस्तुतिवन्दनाभिर्न मोदतेऽन्यैर्न तु दुर्मनायते ।  
श्रलामलामादि परीषहान् सहन् , यतिः स तत्त्वादपरो विडम्बकः ॥४५॥

अर्थ :—जो प्राणी दान, मान, स्तुति और नमस्कार से प्रसन्न नहीं होता और यदि इसके विपरीत (असत्कार या निन्दा) हो तो अप्रसन्न नहीं होता और नुकसान आदि परीषह सहन करता है, वह यथार्थ में यति है अन्य सब तो वेश की विडम्बना मात्र हैं ॥४५॥

यति को गृहस्थ की चिन्ता नहीं करना चाहिए

दधद् गृहस्थेषु ममत्वबुद्धिं, तदीयतप्या परितप्यमानः ।  
अनिवृतान्तःकरणः सदा स्वैस्तेषां च पापैर्भ्रमिता मवेऽसि ॥४६॥

अर्थ : गृहस्थी पुरुषों पर ममत्व बुद्धि रखने और उनके सुख दुःख की चिन्ता करने से तेरा अन्तःकरण सदा दुःखी रहेगा और तू अपने तथा गृहस्थी के पापों से तू संसार भ्रमण करता रहेगा ॥४६॥

भावार्थ : ये मेरे श्रावक हैं, ये मेरे भक्त हैं ऐसी बुद्धि भ्रमता है। यह राग का कारण है और मोह उत्पन्न करता है। यह भी एक प्रकार

का ध्यापार है जो बढ़ता रहता है। यदि यति का मन भी भक्त श्रावक के सुख दुःख के अनुसार सुखी दुःखी होने लगता है, तो उसके मन की निवृत्ति नष्ट हो जाती है, समता का अन्त हो जाता है और साधु का साधुत्व नष्ट हो जाता है। हे साधु ! तुम्हें ऐसी राग-बुद्धि नहीं रखनी चाहिये और यदि राग-बुद्धि रखनी ही पड़े तो उच्चकोटि के साधु से रख, जो किसी जटिल समय में तुम्हें सही रास्ते पर ले आवे।

साधु का तो श्रावक से जितना कम परिचय रहे उतना ही अच्छा है, इससे वह अनावश्यक चर्चाओं से बचेगा जिससे उसके अभ्यास में बाधा नहीं आवेगी। इसीलिये साधु को विशेष कारणों के सिवाय एक स्थान पर अधिक ठहरना मना है।

### गृहस्थ चिन्ता का परिणाम

त्यक्त्वा गृहं स्वं परगेहचिन्ता तप्तस्य को नाम गुणस्तवर्षे ।  
 आजीविकास्ते यतिवेषतोऽत्र, सुदुर्गतिः प्रेत्य तु दुर्निवारा ॥४७॥

अर्थः अपना घर त्याग कर पराये घर की चिन्ता से दुःखित होने पर, हे मुनि ! तुम्हें क्या लाभ होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा इस वेप से इस भव में तेरी आजीविका चल जायगी परन्तु परभव में जो दुर्गति होगी, उसको तो तू रोक नहीं सकेगा ॥४७॥

भावार्थः—जब तक दीक्षा नहीं ली तब तक तुम्हें एक अपने ही घर की चिन्ता थी, परन्तु दीक्षा लेने के बाद भक्त गृहस्थों से सम्पर्क बढ़ाकर अनेक घरों की चिन्ता करने मोल ले ली इसमें तेरा क्या लाभ ? दीक्षा तो ली थी चिन्ता मिटाने के लिए पर अब वह अधिक बढ़ गई। यह तो ऐसी बात हुई कि कोई स्त्री गई थी पूत मॉगने को पर पति खो बैठी। अतएव साधु को गृहस्थ सम्पर्क नहीं बढ़ाना चाहिये जिससे राग पैदा न हो सके। राग से साधु धर्म का नाश होता है और भव-अमण बढ़ता है।

### तेरी प्रतिज्ञा और वर्तन

कुर्वे न सावधमिति प्रतिज्ञां, वदन्नकुर्वन्नपि देहमात्रात् ।  
 शय्यादिकृत्येषु नुदन् गृहस्थान्, हृदा गिरा वासि कथं मुमुक्षुः ॥४८॥

अर्थ:—मैं सावध (कार्य) नहीं करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा तू प्रति दिवस उच्चारण करता है वो भी तू केवल शरीर मात्र से ही सावध नहीं करता है। परन्तु शैथ्या आदि कामों में मन और वचन से गृहस्थों की प्रेरणा करता रहता है। ऐसी स्थिति में तू मुझसे कैसा ? ॥४८॥

भावार्थ:—सर्व सावज्जं जोगं पच्यक्खामि जावज्जीवाए तिविहं तिविहेयां इत्यादि, अर्थात् हे प्रभु ! मैं सर्व प्रकार के सावध कार्यों को थावत् जीवन त्यागता हूँ। मैं मन से, वचन से तथा काया से न करूँगा, न कराऊँगा तथा सावध कार्य करने वालों को भी अच्छा नहीं समझूँगा, इस प्रकार की कठोर प्रतिज्ञा चारित्र्य ग्रहण करते समय तू नौ नौ बार लेता है। पर इसका पूरी तरह पालन तू नहीं करता। तू वो केवल काया से ही सावध टालता है। लेकिन मन तथा वचन से अनेक प्रकार के उपदेश-आदेश द्वारा ( Direct or indirect ) टेडी वॉकी रीति से तू सावध कार्य कराता है और उनको अनुमोदता है। इस प्रकार प्रतिज्ञा का पालन नहीं करने से तू सृष्टिवाद का दोषी होता है। जिसको निवृत्ति का ध्यान है वह पूरी तरह से सावध त्याग करता है और दिन प्रतिदिन संसार से विरक्ति-भाव में वृद्धि करता है।

प्रत्यक्ष प्रशस्त सावध कर्मों का फल

कथं महत्त्वाय समत्वतो वा, सावधमिच्छस्यपि सङ्गलोके ।  
न हेममव्यप्युदरे हिंशस्त्री, क्षिप्ता क्षिणोति क्षणतोऽव्यसून् किम् ॥४९॥

अर्थ —कभी संघ में महत्व की प्राप्ति के लिये, अथवा समत्व के कारण भी सावध का उपदेश हो जाता है। पर सोने की छुरी यदि पेट में घुसादी जावे तो क्या एक क्षण में ही प्राण का नाश नहीं हो जाता-है ? ॥४९॥

कई बार अपने नाम के हेतु अथवा प्रसिद्धि, यश या कीर्ति के लिये अथवा मोह के कारण भी सावध कर्मों का उपदेश दे दिया जाता है। यह अनुचित है। कार्य कितना ही उत्तम क्यों न हो यदि उसके करने में पौद्गलिक आशा है अथवा अभिमान या कपट है तो उससे कर्म बन्धन जरूर होता है और उसका भयंकर परिणाम अवश्य सहने करना

पड़ता है। सोने की छुरी अगर पेट में मारी जावे तो उसका परिणाम मृत्यु ही होगा। इस प्रकार सावध कार्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों न समझा जावे संयम के लिये हानिकारक समझा जाता है।

निष्पुण्यक की चेष्टा-उद्धत वर्ताव का नीच फल

रङ्गः कोऽपि जनाभिभूतिपदवीं त्यक्त्वा प्रसादाद्गुरो-

र्वेषं प्राप्य यतेः कथंचन कियञ्चास्त्रं पदं कोऽपि च ।

मौखर्यादिवशीकृतर्जुनतादानार्चनैर्गर्वभाग-

आत्मानं गणयन्नरेन्द्रमिव धिगन्ता द्रुते दुर्गतौ ॥५०॥

अर्थः—कोई गरीब पुरुष मनुष्यों के अपमान कारक वर्ताव से बचने के लिये गुरु महाराज की शरण में मुनिवेश प्राप्त करता है। कोई शास्त्र अभ्यास से ऊँची पदवी प्राप्त करता है कोई अपनी वाचाल आदत से लोगों को वश में कर भक्तों से दान पूजा कराता है और गव करता हुआ अपने आपको राजा के समान मानता है। ऐसे (साधुओं) को धिक्कार है ॥५०॥

भावार्थः—गरीब मनुष्य को अनेक प्रकार के दुःख और अपमान सहने पड़ते हैं। वह इनसे पीछा छुड़ाने के लिये दीक्षा लेता है। वह गुरु-कृपा से शास्त्र का अच्छा जानकार हो जाता है और ऊँची पदवी भी प्राप्त कर लेता है। वह मधुर उपदेश से भद्रक-भक्तों को वश में भी कर लेता है। वह उपदेश द्वारा दान, शील, तप, पूजा आदि धार्मिक क्रिया भी खूब कराता है। परन्तु यदि वह इन सब क्रियाओं के कराने में लिप्त रहता है और सांसारिक भावों का त्याग नहीं कर सकता तो वह अहंकार से अपना संसार ही बढ़ाता है।

चारित्र प्राप्त-प्रमाद त्याग

प्राप्यापि चारित्रमिदं दुरापं, स्वदोषजैर्यद्विषयप्रमादैः ।

मवाभ्युधौ धिक् पतितोऽसि भिक्षो ! हतोऽसि दुःखैस्तदनंतकालम् ॥५१॥

अर्थः—यह चारित्र बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है और उसे प्राप्त कर अपने ही दोषों से उत्पन्न किये हुए विषय प्रमाद के कारण हे भिक्षु !



तू संसार-समुद्र में पड़ता जाता है, जिसके कारण अनन्तकाल तक तू दुःख पायेगा ॥५१॥

बोधिवीज प्राप्ति-आत्महित साधन

कथमपि समवाप्य बोधिरत्नं, युगसमिष्ठादिनिदर्शनाद्दुरापम् ।

कुरे कुरे रिपुवश्यतामगच्छन्, किमपि हितं त्वमसे यतोऽर्थितं शम् ॥५२॥

अर्थः युग (जुआ जो वैलों के कन्धों पर रखा जाता है) समिष्ठा (अर्थात् कीली जो जुआ में डाली जाती है) के दृष्टान्त से मालूम होता है कि बोधि रत्न बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। इस रत्न को पाकर शत्रुओं के वशीभूत न होकर अपना कुछ तो आत्महित कर ले। जिससे तुम्हें मनोवांछित फल प्राप्त हो ॥५२॥

विवेचनः—यदि बड़े भारी वालाव के एक किनारे की ओर पानी में वैलों का जुआ डाल दिया जावे और सामने दूसरे किनारे पर पानी में कीली डाल दी जावे तब जुए के सुराख में कीली का जाना असम्भव है और यदि कीली का आना सम्भव हो जावे तब भी यह मनुष्य भव प्राप्त करना अति दुर्लभ है। फिर मनुष्य भव प्राप्त कर सम्यक्त्व प्राप्त करना तो बहुत कठिन है। ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म और वहाँ भी सम्यक्त्व प्राप्त कर जो मनुष्य विषय, प्रमाद आदि शत्रु के वशीभूत हो अपना जन्म नष्ट कर देता है वह निर्भागी है। मनुष्य को सावधान रहना चाहिये और सम्यक्त्व प्राप्त कर आत्महित साधना चाहिये। तभी यह मनुष्य जन्म सफल है।

शत्रुओं के नामों की सूची

द्विपस्त्वमे ते विषयप्रमादा, असंप्रृता मानसदेहवाचः ।

असंयमाः सप्तदशापि हास्यादयश्च विभ्यञ्चर नित्यमेभ्यः ॥५३॥

अर्थः तेरे शत्रु विषय, प्रमाद, विना अंकुश का मन, शरीर और वचन, सत्रह असंयम के स्थानक और-हास्यादि हैं। इनसे तू सदा पचते रहना ॥५३॥

भावार्थ : मनुष्य के निम्न लिखित शत्रु हैं इनसे बचते रहना चाहिये ।

- (१) पाँचों इन्द्रियों के तेईस विषय ।
- (२) पाँच प्रकार का प्रमाद : मद्य, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा ।
- (३) मन, वचन तथा काया के असंयत व्यापार ।
- (४) सत्रह प्रकार का संयम : पंचमहाव्रत, पाँच इन्द्रियों का दमन, चार कषायों का त्याग, तीन योगों को रोकना इन सत्रह प्रकार के संयम का अभाव ।
- (५) नौ कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, दुर्गिच्छा ये कषाय उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार स्त्री-वेद, पुरुष-वेद और नपुंसक-वेद ये तीन भी नौ कषाय हैं जो संसार को खूब बढ़ाने वाले हैं ।

ये सब यहाँ शत्रु हैं और इनमें से कुछ मित्र भाव दिखाकर शत्रुता के कार्य करते हैं और लाखों को आकुल-व्याकुल करते हैं। इनसे सावधान रहना जरूरी है।

सामग्री और उसका उपयोग

गुरुनवाप्याप्यपहाय गेहमधीत्यं शास्त्राण्यपि तत्त्ववाञ्छि ।  
निर्वाहचिन्तादिमराधभावेऽप्यृषे ! न किं प्रेत्य हिताय यत्नः ॥५४॥

अर्थ:—हे यति ! तुमको महान् गुरु की प्राप्ति हुई, तुमने घरबार छोड़ा तत्त्व प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थों का अभ्यास किया और तुम्हारे अपने निर्वाह करने की चिन्ता मिटी, इतना होने पर भी तुम परमव के हित के लिये क्यों नहीं यत्न करते ? ॥५४॥

भावार्थ:—हे साधु ! तुम्हें न भरण-पोषण की चिन्ता, न तुम्हें घर-बार अथवा पुत्र-पौत्र या स्त्री की किसी किस्म की चिन्ता है। तुम्हें उत्तम सद्गुरु मिले हैं तथा शास्त्रों का अच्छा ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। ये सब उत्तम साधन होने पर भी तू संसार में विषय-कषाय में क्यों फँसता है? जिन वस्तुओं को तूने त्याग दिया है उन्हीं में तू क्यों फँस

कर संसार-सागर में डूबने के साधन करता है। अब जरा चेत और अपनी कार्य-सिद्धि के रास्ते पर आ।

संयम की विराधना नहीं करना

विराधितैः संयमसर्वयोगैः, पतिष्यतरतो भवदुःख राशौ ।  
शास्त्राणि शिष्योपधिपुस्तकाद्या, भक्ताश्च लोकाः शरणाय नालम् ॥५३॥

अर्थः—संयम के सर्व योगों की विराधना करने से तू जब भव-दुःख की कीचड़ में पड़ेगा तब तेरे शास्त्र, शिष्य, उपाधि, पुस्तक और भक्त लोग आदि कोई भी तुझे शरण देने में समर्थ नहीं होगा ॥५३॥

भावार्थ : सत्रह प्रकार के संयम की विराधना करने से दुर्गति प्राप्त होती है और अनन्त भव भ्रमण करना पड़ता है। संयम विराधना होने पर तेरे शास्त्रों का पढ़ना, शिष्य, पुस्तक और भक्त कोई भी काम नहीं आवेगा। तेरी दुर्गति को कोई नहीं रोक सकेगा, इसलिये संयम की विराधना नहीं करना, पर-वस्तु की आशा नहीं करना, यह जीव तो अकेला आया है और अकेला ही जायगा। इसलिये संयम का भली प्रकार आराधना कर अनन्त दुःख राशि में पड़ने से बच।

संयम से सुख तथा प्रमाद से सुख का नाश

यस्य क्षणोऽपि सुखामसुखानि पश्य-

कोटीनृणां द्विनवती ह्यधिकां ददाति ।

किं हारयस्यम ! संयमजीवितं तत्,

हाहा प्रमत्त ! पुनरस्य कुतस्तवाप्तिः ॥५६॥

अर्थः—जिस संयम के एक क्षणमात्र पालने से पाँचवे करोड़ पल्योपम से भी अधिक समय का देवलोक का सुख प्राप्त होता है। ऐसे संयम जीवन को हे नीच ! तू क्यों नष्ट करता है, हे प्रमादी ! तुझे इस संयम की प्राप्ति फिर कहां से मिलेगी ? ॥५६॥

भावार्थ : ऋषु दीक्षा लेकर शेष जीवन संयम में बिताता है। संयम तथा सामायिक एक ही वस्तु है। अतएव साधु हर समय सामा-

यिक में लीन रहता है। वह खाता-पीता प्रत्येक क्रिया करता हुआ सामायिक में रत रहना है, क्योंकि वह सर्वकाल आत्मिक उन्नति तथा संयम पालने में उद्यमशील रहता है। ऐसा संयम-रत रहना बाणवे करोड़ पल्लोपम से भी अधिक देवलोक का सुख देता है। यदि एक दिवस का शुद्ध संयम जीवन पाले तो अनन्त सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे अनेक दृष्टान्त शास्त्रों में आये हैं। हे साधु! ऐसे उत्तम प्रकार का साधु जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ है। उसे तू प्रमाद में खोवेगा अथवा विषय कषाय में खोवेगा तो अनन्त काल तक संसार बड़ेगा और ऊपर वंताए हुए लाभ से तू वंचित हो जायगा, पुनः संयम की प्राप्ति होना मुश्किल होगी।

संयम का फल ऐहिक-आमुष्मिक-उपसंहार

नाम्नापि यस्येति जनेऽसि पूज्यः, शुद्धात्ततो नेष्टसुखानि कानि ।

तत्संयमेऽस्मिन् यतसे मुमुक्षोऽनुभूयमानोऽरुफलेऽपि किं न ॥५७॥

अर्थः—संयम के नाममात्र से तू लोकों में पूजा जाता है। यदि वे वास्तव में शुद्ध होवें तो तुम्हें कितना उत्तम फल प्राप्त हो। जिस संयम के महान् फलों का प्रत्यक्ष में अनुभव हुआ है उस संयम को हे साधु! यत्न से क्यों नहीं रखता ? ॥५७॥

भावार्थ साफ हैः—

उपसंहार

इस प्रकार यति-शिक्षा का अधिकार पूरा हुआ। यह अधिकार बहुत ही मनन करने योग्य है। यह साधु-धर्म की उपयोगिता बताता है। साधु-वृत्ति-केवल वेश धारण कर मनुष्यों से वाहवाही छूटने के लिये नहीं है, प्रत्युत आत्मिक उन्नति करने के लिये है। आत्मिक उन्नति के लिये हृदय में दृढ भावना होनी चाहिये। मन, वचन, क्राया से शुभ प्रवृत्ति रखनी चाहिये। लोक-संगान से आत्मिक शुष्णों पर कुप्रभाव, प्रमाद से अधःपतन होना बताया है। वस्तु पर मूर्छा न रखने तथा परिग्रह त्याग, यहां तक कि संयम पालने में उपयोगी उपकरणों पर भी मूर्छा रखने का निषेध किया है। विषय और प्रमाद का त्याग, भावना

भाने का फल, संयम का स्वरूप तथा उसे अच्छी तरह पालने का उपदेश दिया है, पाँच समिति, तीन गुणियों का स्वरूप, साधुपन तथा स्वर्ग के सुख में भेद को अच्छी तरह समझाया है। संयम से प्राप्त स्थूल सुख और नाम मात्र से भी लोगों में पूज्यभाव और पूर्णरूप से एक क्षण पालने का लाभ देवलोक की वाणवें करोड़ वर्षों का सुख तथा पूर्णरूप से पालने से अनन्त सुख की प्राप्ति होती है। इसके सिवाय शुद्ध गुण की पहचान भी बताई है जिससे मनुष्य धोखा नहीं खावे। इस अधिकार में यति-वर्ग को भी उपदेश दिया है। यति-वर्ग प्रायः विद्वान् होते हैं पर उनमें से कितने ही अपने सही रास्ते से च्युत हो गये हैं, उनके लिये भी ग्रन्थ कर्त्ता ने कुछ कटु शब्द लिखे हैं तथा उनको संयम से प्राप्त होने वाले सुख की अक्षय प्राप्ति समझाई है, जिससे वह सत्पथ से न भटके।

इस जीव को मुनि-मार्ग अति कठिन लगता है। इसका कारण यह जीव अनादि अभ्यास के कारण इन्द्रिय सुख में और निरंकुश मन में आनन्द मानता रहा है, और मौका मिलते ही प्रमाद और कपाय में लिप्त हो जाता है। जिस प्रकार पहाड़ पर चढ़ने में तकलीफ होती है पर फिर अभ्यास होने से आरोहण सरल हो जाता है उसी प्रकार गुणस्थान पर चढ़ने में प्रबल पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है जो अति कठिन प्रतीत होता है। परन्तु एक बार उसे राग-द्वेष तथा संसार का वास्तविक रूप ज्ञात होने पर तथा आत्मिक और पौद्गलिक सुख का भेद मालूम होने पर उसे सब संसार कड़वा जहर लगने लगता है। जब उसे ज्ञानगर्भित वैराग्य हो जाता है तब वह सब सांसारिक सुखों को वमन के समान मानता है। जिस तरह वमन किये हुए पदार्थ से धृणा होती है, वह त्याग्य हो जाता है, उसी प्रकार सांसारिक सुख की जिसे एक दफा त्याग दिया, फिर वह इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके लिए मुनि-मार्ग सरल हो जाता है। जिन साधुओं ने संसार के स्वरूप को अच्छी तरह से नहीं समझा अथवा जो पतित हो गए हैं या विषयों के आधीन हो, पैसा रखते हैं, स्त्री-सम्बन्ध करते हैं, धर्म के वहाने से टोना-मन्त्र आदि करते हैं। उन्हें न धर्म में श्रद्धा है और न उनको संप्रदाय में प्रचलित रीति-रिवाज का ध्यान है, ऐसे साधुओं को देखकर साधु-मार्ग पर धृणा

नहीं करनी चाहिए। साधु-मार्ग तो सर्वोत्तम है, समतामय है और मोक्ष सुख का देने वाला है। किया गया प्रयास सबेथा सुख देने वाला है और जो लाभ प्राप्त होता है वह कभी नष्ट नहीं होता। जो साधु-मार्ग नहीं अपना सकता उसे इस ओर शुभ दृष्टि रखनी चाहिये। जिससे वह कभी न कभी इस मार्ग को अपनाने की योग्यता प्राप्त करे।

जो पुरुष मुनिमार्ग अपनाते हैं, उनका चारित्र उच्च प्रकार का होना चाहिए। जो धर्म विषय पर बड़े-बड़े उपदेश देते हैं और लोग उनको काम, क्रोध से मुक्त समझते हैं, यदि वे साधारण मनुष्य की तरह विषयांध अथवा इन्द्रियवश हों तो उनका आचरण अक्षम्य है। ऐसे साधु को समाज से तुरंत निकाल देना चाहिये। परन्तु ऐसा देखा गया है कि दृष्टि राग के कारण इनकी पूजा होती है। यह बहुत अनिष्ट है। यह पंचम काल के कुप्रभाव का ही परिणाम है।

इस अधिकार में मुनिसुन्दरसूरिजी महाराज ने कृपापूर्वक बताया है कि हे यति ! इस संसार में मनुष्य जन्म प्राप्त होने से तुझे संसार से निकलने का उत्तम साधन मिला है, इसलिए इसका पूरा-पूरा लाभ उठा, नहीं तो तू फिर पड़तायेगा। इस भव में थोड़ा-थोड़ा समय मन पर अंकुश रखकर इन्द्रियों के विषयों और कषायों को त्यागे तो पीछे बहुत सुख मिलेगा, दुःख का नाश होगा और पर वस्तुओं की इच्छा मिटेगी। हे साधु ! तेरा जीवन पाँच समिति और तीन गुणियों से पूर्ण है और ये आठ प्रवचन भाता हैं। इनको पालने के लिये तुझे यत्न करना चाहिये। यह तेरा मुख्य कर्तव्य है। सत्रह प्रकार का संयम और चरणा करण सिधरी का पालन करना तेरा मुख्य साध्यविन्दु होना चाहिये।

हे श्रावक ! तू समझता है कि साधुमार्ग तेरे बसका नहीं, ऐसा मत समझ। तू मन पर थोड़ा अंकुश रख, वस्तु स्थिति पर बराबर विचार कर कि तू कौन है, तेरा कौन है। इस बात पर अच्छी तरह ध्यान लगावेगा तो तुझे ज्ञात होगा कि संयम कोई मुश्किल नहीं। गुण प्राप्त करने के लिए गुणीजन की सेवा करनी चाहिए। देशविरति

गुण प्राप्त कर जीव यदि सर्वविरति का गुण प्राप्त करने की इच्छा करे तो देशविरति टिक सकता है ऐसा शास्त्रों में कहा है। तू साधुओं पर प्रेम रख और जितना वन उतना उनके जैसा जीवन बनाने का यत्न कर। इससे तुझे बहुत लाभ होगा। ये सब बातें साधुओं के हितार्थ लिखी गई हैं। जिनसे वे अपने चरित्र को उच्च प्रकार का बनावें और अपना आत्महित साधें। यद्यपि ये सब उपदेश साधुओं के वास्ते लिखे गये हैं तथापि प्रतयारी श्रावक इन उपदेशों को ध्यान में रखकर अपनी आत्मा को उत्कृष्ट बना सकते हैं। जीव मात्र का यह अनादि स्वभाव है कि दूसरे के एक सरसों के बराबर दोप को मेरु पर्वत के बराबर देखते हैं तथा अपने मेरु समान दोप को सरसों के बराबर भी नहीं समझते। इसलिए समकित चाहे देशविरति हो अथवा सर्वविरति हो उसे दिन प्रतिदिन उच्चतर करने के लिए भव्य जीवों के गुणों के उत्सर्ग मार्ग का विचार करना चाहिए। उत्सर्ग मार्ग में प्रायः अपने हृदय की स्थिति पर विचार किया जाता है और दूसरे जीव समकितवान्, देशविरतिवान् अथवा चरित्रवान् हैं या नहीं इसकी परीक्षा बाह्य आचरणों से करते हैं। क्योंकि स्वयं अल्प ज्ञानी होने से अपने दोषों को अपवाद मानता है। दूसरों के उत्सर्ग मार्ग की परीक्षा करने पर उनको शुद्ध विशिष्ट ज्ञानी नहीं समझता उनके गुणों को न देख सकने के कारण उनकी अवज्ञा कर अनन्त काल के लिए बोधिवीज का नाश कर देता है। इसलिए अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहुस्वामीजी महाराज ने कहा है कि विहार, रहने का स्थान, आदि बाह्य अनुष्ठानों पर दृष्टि रख कर परीक्षा करनी चाहिए और संगान करना चाहिए। परीक्षा करने पर शुद्ध चरित्र नजर आता हो तो वन्दन-नमस्कार में हानि नहीं।

इस युग की स्थिति अर्थात् देश-काल तथा भाव देखकर उसके अनुरूप ही दूसरों में गुणों की आशा करनी चाहिए। आज का वातावरण देखकर यदि मनुष्य अपनी धार्मिक स्थिति पर विचार करे तो यह बात समझ में आ सकती है। यदि ऐसा विचार नहीं किया जावे तो मनुष्य अपने को गुणी और दूसरों को अवगुणी मानेगा और उनकी अवज्ञा कर अनन्त काल-चक्र तक संसार में भ्रमण करेगा।

मुनि-जीवन एकान्त और परोपकार-परायण है। यहाँ आलस्य-रूप निवृत्ति नहीं किन्तु प्रवृत्ति गर्भित-निवृत्ति है और पुरुषार्थ को परोपकार करने का भरपूर मौका देता है। यह मार्ग इतना शुद्ध है कि इसमें एक क्षण की प्रवृत्ति असंख्य वर्षों तक उत्कृष्ट सुख देती है।

हे मुनि ! संसार त्याग ही यति-जीवन है। केवल वेश बदलना संसार त्याग नहीं, बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य इन अन्तरंग शत्रुओं का नाश करना संसार-त्याग है। इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए। जितना बने उतना लोगों का उपकार करना चाहिए। परनिन्दा, मात्सर्य, ईर्ष्या, माया आदि सुप्रसिद्ध अठारह पाप स्थानों का त्याग कर अपने कर्तव्य पर रात-दिन दृष्टि रखनी चाहिए और आवश्यक क्रिया में संविधान रहना चाहिए। तुम्हें यदि शक्ति हो तो उपदेश देकर या ज्ञानमय लेख लिख कर अपने अनुयायियों को सत्पथ पर लाना चाहिये।



# चतुर्दश आधिकार मिथ्यात्वादि निरोध

बध हेतु के लिये संवर कर

मिथ्यात्वयोगाविरतिप्रमादान्, आत्मन् सदा संवृणु सौख्यमिच्छन् ।  
असंवृता यद्भवतापमेते, सुसंवृता मुक्तिरमां च दद्युः ॥१॥

अर्थ: हे चेतन ! जो तू सुख की इच्छा रखता है तो मिथ्यात्व योग, अविरति और प्रमाद का संवर कर । इनका संवर न करने से संसार के दुःख बढ़ते हैं । पर यदि इनका संवर किया जाए तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥१॥

विवेचन: मिथ्यात्व का त्याग किये बिना समकित और विरति कुछ भी प्राप्त नहीं होती । इसलिये मिथ्यात्व का स्वरूप जानना बहुत जरूरी है । मिथ्यात्व दो प्रकार का है: लौकिक और लोकोत्तर । ये दोनों दो दो प्रकार के हैं, एक देवगत और दूसरा गुरुगत (१) लौकिक देवगत मिथ्यात्व हरिहर, ब्रह्मा आदि पर—धर्म के देवता को अपने देव की तरह अंगीकार करना (२) लौकिक गुरुगत ब्राह्मण, सन्यासी आदि मिथ्यात्व उपदेश देने वाले तथा आरम्भ परिग्रह रखने वाले को गुरु मानना, नमस्कार करना, कथा सुनना तथा अन्तःकरण से मान देना (३) लोकोत्तर देवगत केसरियाजी की मानता करना अथवा लोक-लाभ के लिए पूजना (४) लोकोत्तर गुरुगत शिथिलाचारी, परिग्रहधारी, कचन-कामिनी आदि दोषों से युक्त गुरुजी, यतिजी, श्री पूज्यजी तथा कुशील वाले कुगुरु को गुरु मानना और उनकी सेवा करना अथवा इस लोक के सुख के लिए सुगुरु की सेवा करना ।

मिथ्यात्व के पाँच भेद हैं: (१) आभिग्रहिक (२) अनभिग्रहिक (३) आभिनिवेशिक (४) सांशयिक (५) अनाभोगिक । इनका स्वरूप इस प्रकार है:

(१) अभिग्रहिक कल्पित शास्त्र पर समता रखना और परपक्ष पर कदाग्रह करना। हरिभद्रसूरिजी ने कहा है कि “मुझे वीर से पक्षपात नहीं और कपिल से द्वेष नहीं, जो युक्तियुक्त वचन है, वही हमें मान्य है। ऐसी बुद्धि रखना मिथ्यात्व का अभाव है। लेकिन गीतार्थ पर श्रद्धा रखना और उसको मानना दोष नहीं, क्योंकि सब अनुष्ठानों में परखने की शक्ति नहीं होती।

(२) अनभिग्रहिक सभी देव वन्दनीय हैं, कोई निन्दा करने योग्य नहीं। इस प्रकार सभी गुरु तथा धर्म अच्छे हैं, ऐसा बिना परीक्षा किये मानना मिथ्यात्व है। ऐसा करना पीतल को सोने के बराबर समझना है।

(३) अभिनिवेशिक—धर्म का स्वरूप जानते हुए भी दुराग्रह से धर्म के विपरीत निरूपण करना अथवा अहंकार से नया मत चलाना और वन्दन नमस्कार हेतु पाखण्ड रचना।

(४) सांशयिक शुद्ध देव, गुरु और धर्म ये सच्चे हैं या झूठे, ऐसा संशय करना सांशयिक मिथ्यात्व है।

(५) अनाभोगिक—विचार शून्य एकेन्द्रियों को अथवा ज्ञान शून्य जीवों को होता है। कर्म बन्धन मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग इन चार कारणों से तथा इनके ५७ भेदों के कारण से बँधता है। इन ५७ भेदों को समझना जरूरी है, मिथ्यात्व के पाँच भेदों का वर्णन ऊपर हो चुका।

अविरति के १२ भेद पाँच इन्द्रिय और मन का संवरन करना तथा छै काय के जीवों का वध करना। इस प्रकार बारह भेद हुए।

कषाय के पच्चीस भेद—जिनका वर्णन विषय कषाय द्वार में किया जा चुका। क्रोध, मान, माया, लोभ इनके प्रत्येक के चार-चार भेद हैं।

संज्वलन, अधिक से अधिक १५ दिन तक रहता है तथा देवगति देता है।

प्रत्याख्यानवरण—अधिक से अधिक चार महीने तक रहता है और मनुष्य गति देता है।

अप्रत्याख्यानी अधिक से अधिक एक वर्ष तक रहता है और विर्यच गति देता है।

अनन्तानुबन्धी यह यावज्जीवन रहता है और नरक गति देता है।

इस प्रकार प्रत्येक के चार-चार भेद होने से सोलह भेद हुए तथा नौ कषाय के हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष-वेद तथा नपुंसकवेद सब मिलाकर २५ भेद हुए। ये सब कर्म बन्धन के प्रबल हेतु हैं।

तीन योग के १५ भेद हैं :

प्रथम मनोयोग-मनोयोग चार प्रकार का—(१) सत्य मनोयोग अर्थात् सत्य विचार (२) असत्यमनोयोग—बुरे विचार (३) मिश्रमनोयोग कभी शुद्ध विचार और कभी विकृत विचार (४) असत्याभूषा मनोयोग सामान्य विचार हरदम चलते रहते हैं, यहाँ सच्चे खोटे का विचार नहीं।

द्वितीय वचन योग ये भी मनोयोग की तरह चार प्रकार का ऊपर की तरह समझना।

तृतीय काया योग इसके सात भेद हैं—(१) तैजस कार्मण शरीर ये जीव के साथ अनादिकाल से रहते आए हैं मरने पर साथ जाते हैं। तैजस नये भव में आहार ग्रहण करता है तथा कार्मण नये पुद्गल धारण कर शरीर रचना करता है (२) औदारिक मिश्र अगले भव से जीव के साथ तैजस कार्मण शरीर आता है वह तथा नये शरीर जिसका (माता के उदर में) बनना आरम्भ हुआ है पर पूरा नहीं हुआ है वह औदारिक मिश्र कहलाता है (३) औदारिक शरीर पुद्गल, अस्थि, मांस, रधिर और चर्वायुक्त होता है (४) वैक्रिय मिश्र—ये दृश्य होकर अदृश्य हो सकता है। भूचर से खेचर, छोटा होकर बड़ा हो सकता है। इस प्रकार अनेक रूप धारण करने वाला सात घातु रहित शरीर है (५) वैक्रिय ऊपर बताया हुआ शरीर जब पूर्ण हो जाता है तब वैक्रिय। (६) आहारक मिश्र चौदह पूर्वों के ज्ञानी महापुरुष कोई

सूक्ष्म शंका का समाधान करने के लिए केवली भगवान् के पास भोजन के लिए शरीर रचना करते हैं उसके सम्पूर्ण होने के पहले की अवस्था (७) आहारक आहारक मिश्र की सम्पूर्ण अवस्था ।

इस प्रकार सप्तावन बंध हेतु का संवर करने से कर्म बन्धन रुकता है । पुनर्जन्म या शरीर बंध के लिए किए गए कर्मों का क्षय होने से जीव स्वतंत्र और पूर्ण सुख प्राप्त करता है ।

मनो निग्रह तन्दुल मत्स्य

मनः संवृणु हे विद्वन्नसंवृतमना यतः ।

याति तन्दुलमत्स्यो द्राक्, सप्तर्षी नरकावनीम् ॥२॥

अर्थ :—हे विद्वान् ! तू मन का संवर कर; कारण कि तन्दुल मत्स्य ने मन का संवर नहीं किया तो वह तुरन्त सातवें नरक में गया ॥ २ ॥

विवेचन : इस विषय पर नवें अधिकार में विचार किया जा चुका है । सब योगों में मनोयोग की साधना जितनी कठिन है उतनी ही लाभदायक भी है । जो पुरुष मनोयोग की साधना नहीं कर पाते और मन को स्वेच्छा से भटकने देते हैं तो उनको महान् पाप का बंध होता है । इस विषय में तन्दुल मत्स्य का दृष्टान्त मनन करने योग्य है । तन्दुल मत्स्य बड़े मगरमच्छ की आँख की पपड़ी में उत्पन्न होता है । उसका आकार चावल के बराबर होता है और आयु अन्तर्मुहूर्त की होती है । इतनी अल्प आयु में भी वह दुर्ध्यान के कारण नरक जाने का कर्म बन्धन करता है । वह इस प्रकार है : तन्दुल मत्स्य मगरमच्छ की आँख की पपड़ी में बैठा हुआ देखता है कि मगरमच्छ मछलियों का आहार किस प्रकार करता है । मगरमच्छ अपना मुँह खोलता है और समुद्र के पानी के साथ छोटी-मोटी अनेक मछलियाँ उस के मुँह में प्रवेश करती हैं । फिर वह अपना मुँह बंद कर पानी को वापिस निकालता है तो अनेक छोटी मछलियाँ उसके दाँतों के बीच में से निकल कर बच जाती हैं । तब तन्दुल मत्स्य मन में सोचता है कि यदि मैं मगरमच्छ के स्थान पर होता तो एक मछली को भी

जीवित नहीं निकलने देता। केवल इस दुर्व्याप्त से ही तन्दुल मत्स्य ने नरक जाने का कर्म वाँधा और भरकर तीस सागरोपम आयु वाला सातवें नारकी का जीव हुआ। यद्यपि यह पाप केवल मानसिक था तथापि उसकी वृत्ति खराब होने से तथा मन पर अंकुश न होने से उसकी दुर्गति हुई। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने मन पर अंकुश नहीं रखता तथा हरदम पुरा सोचता है उसकी दुर्गति होती है। उनको इस दृष्टान्त से शिक्षा लेनी चाहिए।

मन का वेग—प्रसन्नचन्द्र मुनि का दृष्टान्त

प्रसन्नचन्द्रराजर्षेर्मनः प्रसरसंवरौ ।

नरकस्य शिवस्थापि, हेतुभूतौ क्षणादपि ॥३॥

अर्थ : क्षण भर में प्रसन्नचन्द्र राजर्षि मन की प्रवृत्ति और निवृत्ति के अनुक्रम से नरक और मोक्ष का कारण हुआ ॥३॥

विवेचन : मन का वेग बड़ा प्रबल होता है। जब मन शुद्ध अव्यवसाय में जोर पकड़ता है तो कर्म रूपी मल आत्मा से हट जाता है और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाती है। यह बात राजर्षि प्रसन्नचन्द्र मुनि के चरित्र से स्पष्ट हो जाती है। राजा प्रसन्नचन्द्र क्षितिप्रतिष्ठित नगरी के एक प्रसिद्ध तथा प्रभावशाली राजा थे। उनकी नगरी अति सुन्दर और धनधान्य पूर्ण थी। उसकी शोभा दूर-दूर तक फैली हुई थी। राजा न्यायी तथा प्रजा प्रिय था। उसके राज्य में कोई दुःखी नहीं था। एक समय भगवान् महावीर की चतुर्मास इस नगरी में हुआ। देवों ने आकर समोसरण की रचना की। राजा यह सुन कर बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान् की वन्दना के लिए गया। भगवान् का उपदेश सुन राजा को वैराग्य हो गया। अपने बालक पुत्र को राजगद्दी पर बैठा कर भगवान् से दीक्षा ले ली। घोर तपस्या के कारण राजर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक समय राजर्षि नगरी के बाहर कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े थे। देवसंयोग से उसी नगरी के पास उद्यान में भगवान् महावीर का समोसरण हुआ जहाँ लोग भगवान् की वन्दना करने का उलट पड़े। वन्दना करने वालों में क्षितिप्रतिष्ठित नगरी के दो व्यापारी भी थे। उन्होंने प्रसन्नचन्द्र राजर्षि को कायोत्सर्ग ध्यान में

देखा। वे आपस में बात करने लगे। एक ने कहा “ओहो! इन्होंने राज्य छोड़ संयम लिया है अतः धन्य हैं। ये बड़े भाग्यशाली हैं” इतने में दूसरे ने कहा “क्या खूब, इनको धन्यवाद किस बात का? इनको उलाहना देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने बालक पुत्र को बिना आगा-पीछा सोचे गद्दी पर बिठा दीक्षा ले ली और स्वयं कृतकृत्य हुए। वे चारे बालक को तथा प्रजा को दुष्ट लोग सता रहे हैं। इस कारण इनका मुँह भी नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार बातें करते करते वे तो आगे निकल गये। राजर्षि इन बातों को सुन ध्यान-भ्रष्ट हो गये और अपनी साधु-अवस्था भूल गए और मन ही मन विचार करने लगे कि मेरे बैठे मेरे पुत्र का ऐसा हाल कैसे हो सकता है; और मन ही मन में लोगो से घोर युद्ध करने लगे। इस प्रकार इधर प्रसन्नचन्द्र मुनि के मन में युद्ध चल रहा था और उसी समय राजा श्रेणिक जो प्रभु वन्दना करने जा रहे थे राजर्षि को देखा और वन्दना की। परन्तु राजर्षि का ध्यान इस ओर नहीं गया। राजा श्रेणिक समझे कि राजर्षि शुक्ल ध्यान में लीन हैं। वे आगे बढ़े और भगवान् के समोसरण में पहुँच और वन्दना कर भगवान् से पूछा “हे भगवन्! राजर्षि का इस समय यदि काल बुलावा करे तो वे कहाँ जावें?” भगवान् ने फरमाया “सातवें नरक में” भगवान् के ये वचन सुन राजा श्रेणिक चकराया।

अब यहाँ यह देखना है कि राजर्षि की परिस्थिति ऐसी क्यों हुई। जिस समय श्रेणिक ने यह प्रश्न भगवान् से किया उस समय राजर्षि मानसिक युद्ध में लिप्त थे अतएव भगवान् ने कहा कि सातवें नरक में जावेंगे। युद्ध चलते-चलते सब शत्रुओं का नाश हो चुका था केवल एक ही शेष रहा था और राजर्षि के ध्यान में ऐसा प्रतीत हुआ कि उसको मारने को अब उनके पास कोई शस्त्र भी नहीं रहा। अतएव उन्होंने अपने लोह के टोप से मारने को अपना हाथ सिर की तरफ बढ़ाया तो मालूम हुआ कि सिर लोच किया हुआ है। यह देख वे चेतें उनकी ज्ञान दृष्टि जगी, विपर्यास भाव जागा और सवेग प्राप्त हुआ। उन्होंने विचार किया यह क्या करता है? किसका पुत्र और किसका राज्य? ऐसे शुद्ध अध्यवसाय में ध्यानारूढ होते ही अपने आचरण की निन्दा करना शुरू की और मन के बोध कर्म मन से ही खपा दिये। थोड़ी

देर बाद राजा श्रेणीक ने वीर प्रभु से पूछा कि कदाचित् राजर्षि अब काल करे तो कहाँ जायेंगे। प्रभु ने उत्तर दिया “अनुत्तर विमान में देव होंगे।” चर्कित होकर राजा ने इसका कारण पूछा तो भगवान् ने मन का स्वरूप, उसका जोर, उसे वश में करने से अनन्त गुणों की प्राप्ति आदि समझाया। इतने में देव दुंदुभि की आवाज हुई। श्रेणीक राजा ने पूछा हे भगवान् यह दुंदुभि किसलिये हुई है। प्रभु ने कहा कि राजर्षि को केवलज्ञान हुआ है।

इस दृष्टान्त से मनोरंज्य की भावना समझी जा सकती है। मन का वंधारण भी समझने जैसा है। इसके लिये नीचे के दो श्लोक मनन करने योग्य हैं।

मन की अप्रवृत्ति-स्थिरता।

मनोऽप्रवृत्तिमात्रेण, ध्यानं नैकेन्द्रियादिषु।

धर्म्यशुक्लमनःस्थैर्यभाजरसु ध्यायिनः सुमः ॥४॥

अर्थ : विषयों की ओर मन की प्रवृत्ति न करने मात्र से ही ध्यान नहीं होता। एकेन्द्रिय आदि प्राणी भी धर्म-ध्यान और शुक्ल ध्यान के कारण मन की स्थिरता के भाजनभूत होते हैं, उनकी हम स्तुति करते हैं ॥४॥

विवेचनः श्री अव्यात्मोपनिषद् (योग शास्त्र) के पाँचवें प्रकाश में अनुभवी योगी श्रीमान् हेमचन्द्रसूरिजी कहते हैं कि पवनरोध आदि कारणों से प्राणायाम का स्वरूप अन्य दर्शनकारों ने बताया है वह बहुत उपयोगी नहीं, वह तो कालज्ञान के लिये और शरीर आरोग्य के लिये है। इससे मन की ज्ञान की ओर प्रवृत्ति नहीं होती, मन को इस साधना में नहीं लगाना चाहिये, यह तो मन का नाश करने वाली साधना जैसा है। एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय में मन नहीं होता, परन्तु इस अवस्था में उसको कुछ लाभ नहीं होता, परन्तु मन का बराबर उपयोग लेने के लिये उसमें स्थिरता प्राप्त करना जरूरी है। मन की प्रवृत्ति के प्रवाह को रोकना कुछ लाभ नहीं, उसे तो सद्ग्यान में प्रेरित करना, उसी में रमण कराना और तत्सम्बन्धी प्रेरणा करनी और प्रेरणा द्वारा

उसे स्थिरता प्राप्त करानी, यह आदरणीय है। 'हठयोग' जैन शास्त्र के मतानुसार बहुत कम लाभप्रद है। ध्यान का स्वरूप तो योगशास्त्र द्वारा जानना चाहिये, यहाँ तो इतना ही कहना है कि धर्मध्यान और शुक्ल ध्यान में मन को लगाकर स्थिरता प्राप्त करने से लाभ होता है।

चित्त स्थिरता प्राप्त करने का उपाय है मन को निरंतर सुध्यान में प्रेरित करना। सुध्यान से प्राणी को इन्द्रियों के अगोचर आत्मसंवेद्य सुख की प्राप्ति होती है।

सुनियन्त्रित मन वाले पवित्र महात्मा

सार्थं निरर्थकं वा य-गनः सुध्यानयन्त्रितम् ।

विरतं दुर्विकल्पेभ्यः पारगांस्तान् रजुवे यतीन् ॥५॥

अर्थ : प्रयत्नों का फल सार्थक होगा या निष्फल इस बात का विचार किये बिना जिसका मन सुध्यान की तरफ लगा रहता है और जो दूषित विकल्पो से दूर रहते हैं ऐसे संसार सतह से ऊपर उठे हुए यतियों की हम प्रशंसा करते हैं। ॥५॥

विवेचन : गनुष्य को शुभ परिणाम ही मिलेंगे ऐसा विचार कर कार्य करना चाहिए। ऐसे शुभ ध्यान से काम का खराब परिणाम नहीं होता है। पर किसी भी कारण से परिणाम यदि खराब आवें तो भी कर्म करने वाले को पाप का अनुबन्ध नहीं होता और सिर्फ इसे क्षयोपशम के कारण हुआ समझने की दीर्घ दृष्टि रखनी चाहिए। जो मनुष्य सदा अच्छे कार्य करने की इच्छा रखता है और खराब संकल्प नहीं करता वह वास्तव में भाग्यशाली है। मन में कुविकल्प करने से अनेक पापबन्ध होते हैं। जिनकी कल्पना शक्ति पर सुविचारों का नियंत्रण नहीं है उनकी आत्मा संसार-समुद्र में मनोविकारों के तूफानों में गोता खाती रहती है। इसलिये अनियन्त्रित मन के संकल्प विकल्पों को अच्छी तरह समझ कर आर्तध्यान और रौद्रध्यान को छोड़ देना चाहिये और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में लगा देना चाहिये।



वचन अप्रवृत्ति—निरवद्य वचन

वचोऽप्रवृत्तिमात्रेण, मौनं के के न विभ्रति ।

निरवद्यं वचो येषां, वचोगुस्तांस्तु तान् स्तुवे ॥६॥

अर्थ : केवल जिन पुरुषों के वचन की अप्रवृत्ति ही है ऐसे कौन मौनी नहीं हो जाते (अर्थात् केवल वचन की अप्रवृत्ति से मौन धारण किया हुआ लाभकारी नहीं) परन्तु जिनके वचन गुप्त है अथवा जो प्राणी निरवद्य वचन बोलते हैं उनकी हम प्रशंसा करते हैं ॥६॥

भावार्थ : जिन जीवों को कुदरती तौर पर बोलने की शक्ति नहीं जैसे एकेन्द्रिय से लेकर चारोन्द्रिय तक, और तिर्यञ्च गति के पंचेन्द्रिय जीव तथा जो रोग आदि के कारण बोलने में असमर्थ हैं वे नहीं बोलते तो इस मौन से उनको कोई लाभ नहीं । परन्तु जो बोलने की शक्ति होने पर भी अपनी वाणी पर अंकुश रखते हैं, जो सत्य, प्रिय, मीठे और हितकारी वचन बोलते हैं और जरूरत से अधिक नहीं बोलते वे ही संभवान हैं, वे ही आदरणीय हैं ।

निरवद्य वचन वसुराजा

निरवद्यं वचो ब्रूहि सावधवचनैर्यतः ।

प्रयाता नरकं घोरं, वसुराजादयो द्रुतम् ॥७॥

अर्थ : तू निरवद्य (निष्पाप) वचन बोल, क्योंकि सावध वचन बोलने से वसुराजा आदि एकदम घोर नरक में गये ॥७॥

विवरण : मनुष्य को सदा निरवद्य अर्थात् पापरहित वचन बोलना चाहिये । निरवद्य वचन में तीन गुण होते हैं । वे सत्य, प्रिय और हितकारक होते हैं । यदि वचन सत्य हो और अहित करने वाले हों तो वे निरवद्य नहीं । सावध वचन बोलने से वाणी पर अंकुश नहीं रहता, चित्त में क्षोभ होता है और बोलने वाले पुरुष के प्रति लोगों में मान नहीं रहता । निरवद्य वचन बोलने वाले की गति अच्छी होती है । सावध वचन बोलने वाले की गति दुर्ग होती है । इस विषय में वसुराज राजा का दृष्टान्त मनन करने योग्य है ।

श्रुतीपुर नाम की एक नगरी थी। वहाँ अभिचन्द्र नाम का अति प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके सत्य बोलने वाला वसु नाम का एक पुत्र था। वह बाल्यवस्था से महा बुद्धिमत्ता तथा सत्य वचन के लिये प्रसिद्ध था। वसु के पिता ने वसु को क्षीरकंदक नामक आचार्य के पास अभ्यास करने के लिए भेजा। उसके साथ आचार्य का पुत्र पर्वत तथा एक नारद नाम का ब्राह्मण पुत्र भी अभ्यास करते थे। इन तीनों शिष्यों में बहुत प्रेम था। एक समय इनके गुरु क्षीरकंदक सां रहे थे और दो चारण मुनि आपस में बात करते आसमान में चले जा रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि इन तीन शिष्यों में से दो नरक में जायेंगे और एक स्वर्ग में जायेगा। गुरु महाराज को इनमें से कौन स्वर्ग जायगा यह जानने की इच्छा हुई। गुरु महाराज ने आटे के तीन मुर्गे बनवाये तथा तीनों शिष्यों को एक एक मुर्गा देकर कहा कि जहाँ कोई नहीं देखता हो ऐसे स्थान पर इन मुर्गों को मार आओ। एक शिष्य पर्वत पर और वसु एकान्त जगल में ले गए और मार कर ले आये। परन्तु नारद मुर्गे को लेकर एकान्त स्थान देख कर सोचने लगा कि यहाँ कोई नहीं देखता है परन्तु मैं स्वयं तो देखता हूँ तथा ज्ञानी महाराज तो सबत्र देखते हैं इसलिये ससार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ कोई नहीं देखता हो। उसने यह भी सोचा कि गुरु महाराज कभी ऐसा पाप कर्म करने को नहीं कह सकते। इसमें जरूर कोई भेद है, यह समझ कर मुर्गे को बिना मारे गुरुजी के पास आकर बोला “गुरु महाराज मुझे तो कोई स्थान ऐसा नहीं दीखा जहाँ कोई न देखता हो। अतएव मैंने मुर्गे को नहीं मारा” ये वचन सुन गुरु महाराज प्रसन्न हुए और मन में समझ गये कि यह जीव दयावान् है, यह स्वर्ग में जायगा। समय बीतने पर वसु अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ और पर्वत पिता के स्थान पर आचार्य बनकर शिष्यों को पढ़ाने लगा। वसुराज का नाम दुनियाँ में सत्यवादी तथा न्यायी राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सदा सत्य बोलता और न्याय करता था।

इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक समय एक शिकारी को स्फटिक की शिला मिली। उसने उसे राजा वसु को दी। वसु

राजा ने इस पारदर्शक शिला पर अपना सिंहासन रखा। लोगों को ऐसा भान हुआ कि राजा का सिंहासन अवर हवा में ठहरा हुआ है और उन्होंने यह भी समझा कि यह सत्य के प्रभाव से है। अब चारों तरफ राजा की प्रसिद्धि खूब फैल गई। अनेक राजा उसका भान करने लगे। एक समय नारद धूमता र इस नगरी में अपने मित्र से मिलने आया। वहां पंडित पर्वत को ऋग्वेद पढ़ाते देखा। उसने शिष्यों को समझाया कि 'अज' शब्द का अर्थ बकरा है अतएव जहां अज से यज्ञ करो लिखा है वहां बकरे का बलिदान करना बताया है। यह बात सुन नारद चकित हो गया और भूल सुधारने के अभिप्राय से पर्वत से कहा "हे भाई तू ऐसा गलत अर्थ क्यों करता है? गुरुजी ने तो अज शब्द का अर्थ बोए जाने से जो धान नहीं उगे अर्थात् तीन साल पुराना धान जो बोए जाने से नहीं उगता ऐसा निर्जीव धान बताया है। तू गलत अर्थ बता कर पाप बंध कराने वाला और परभव में दुर्गति में डालने वाला अर्थ क्यों बताता है?" पर्वत ने इसमें अपना अपमान समझ कर कहा कि "नहीं गुरुजी ने तो अज शब्द का अर्थ बकरा ही बताया है। तू गुरु और वेद का विपरीत अर्थ कर पाप बटोरता है" इस बहस में यह तय हुआ कि अपने सहपाठी वसुराजा से जो सत्त्ववादी और न्यायी है, इस शब्द का अर्थ पूछा जावे और जिसका अर्थ गलत हो उसकी जिह्वा काटी जावे। नारद ने यह बात स्वीकार करी। इतने में पर्वत की माता जो यह सब विवाद सुन रही थी, दौड़ी आयी और पुत्र से बोली कि "सुझे अच्छी तरह याद है कि तेरे पिताजी ने 'अज' शब्द का अर्थ तीन साल पुराना धान बताया था। तूने जिह्वा कटाने का प्रण करके बोर संकट मोल ले लिया"। तब पर्वत बोला "हे माता! मैं तो कह चुका अब बात फिरा नहीं सकता, अब जो तेरी समझ में आवे कर"। माता को पुत्र पर स्वाभाविक प्रेम होता है। वह पुत्र के लिये सब कुछ करने को तैयार रहती है। वह दौड़ी दौड़ी राजा वसु के पास गई। वसु राजा ने अपने गुरु की स्त्री का भान किया और कहा "हे माता! मेरे योग्य सेवा बता, मैं तेरे दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ" माता ने कहा "मैं पुत्र की भिन्ना माँगने आई हूँ, पुत्र बिना सब धन

धान्य वृथा है” वसु राजा बोला “हे माता ! तू यह क्या कहती है पर्वत तो गुरु-पुत्र है इसलिए गुरु तुल्य एवं पूज्य है “ऐसे किसकी मौत आई है जो उसे मारने को उद्यत हुआ है” इस पर माता ने सब बात बताई और नारद तथा उसके पुत्र पर्वत के बीच “अज” शब्द के अर्थ बावत जो जिह्वा कटाने की शर्त हुई थी उससे अवगत किया और प्रार्थना की कि अज शब्द का अर्थ जब उससे पूछा जाय तो “बकरा” कहना। इस पर वसु राजा ने कहा कि “हे माता ! मैं मूठ कैसे बोलूँ, प्राण जावे तो भी सत्यव्रती कभी मूठ नहीं बोलते” और पाप से डरने वालों को कभी मूठ नहीं बोलना चाहिये। इतना सुन माता बोली “तुझे पर्वत के जीने की चिन्ता नहीं तुझे तो अपनी बात का ध्यान है” यह कहकर रोने लगी। माता को रोते देख वसु राजा का दिल पिघल गया और माता की इच्छानुसार अर्थ बताना स्वीकार किया। दूसरे दिन पर्वत और नारद दोनों राज सभा में आये और “अज” शब्द का अर्थ पूछा और कहा हे राजा ! तू सत्यवादी है और तेरी बात सर्वमान्य है। जो गुरुजी ने अर्थ बताया है उसे तू बत। राजा माता की मान्यता का मान कर “अज” शब्द का अर्थ गुरुजी ने “बकरा” बताया ऐसा कहा। वसु राजा को सिंहासन स्फटिक पर था इसलिये अधर दृष्टि-गोचर होता था और लोग इसे सत्य का प्रताप समझते थे। राजा का मूठ बोलना था कि सत्य के कारण देव ने जो राजा की सेवा में रहता था कुपित होकर सिंहासन सहित राजा को जमीन पर दे मारा, राजा भर कर नरक में गया। सत्य वचन की महत्त्व इस कथा में स्पष्ट है:

दुर्वचनों का भयंकर परिणाम

इहामुत्र च वैराय, दुर्वाचो नरकाय च ।

अभिदग्धाः प्ररोहन्ति, दुर्वाग्दग्धाः पुनर्न हि ॥८॥

अर्थ: दुष्ट वचन इसलोक और परलोक में अनुक्रम से वैर कराता है और नरक गति मिलती है। अभि से जला हुआ (पौधा)

फिर भी ऊग जाता है, पर दुष्ट वचन से जले हुए हृदय में प्रेम अंकुर दुबारा नहीं फूटता ॥८॥

भावार्थ: दुर्वचन से इसलोक में वैर होता है और परलोक में नरक मिलता है। हथियार का मारा न भी मरे पर वचन बाण का मारा-मर जाता है। जली हुई घास ऊग जाती है परन्तु जला हुआ प्रेम-अंकुर नहीं पनपता। इसलिये कभी कटु वचन नहीं बोलना चाहिये।

तीर्थंकर महाराज और वचन-गुप्त की महता

अत एव जिना दीक्षाकालादाकेवलोद्भवम् ।

अवधादिभिया ब्रूयुर्ज्ञानत्रयभृतोऽपि न ॥९॥

अर्थ: इसलिये (ऊपर कहे कारण से) तीर्थंकर भगवान् तीन ज्ञान होने पर भी दीक्षा काल से लेकर ज्ञान प्राप्ति पर्यंत पाप के डर से कुछ भी नहीं बोलते ॥९॥

भावार्थ: सावध वचन बोलने से अनिष्ट होता है इसलिये तीर्थंकर भगवान् भी छद्मस्थ अवस्था में मौन रहते हैं। जब भगवान् जैसे तीन ज्ञान के धारक भी पाप के डर से नहीं बोलते तो अपने को भी बहुत सोच-विचार कर बोलना चाहिये जिससे व्यर्थ से कर्म बन्धन न हो।

काय संवर कछवे का दृष्टान्त

कृपया संवृणु स्वाङ्गं कूर्मशातनिदर्शनात्

संवृतासंवृताज्ञा यत् सुखदुःखान्यवाप्नुयुः ॥१०॥

अर्थ (जीव पर) दया प्रकट करता हुआ तू अपने शरीर का संवर कर कछुए के दृष्टान्त के अनुसार शरीर का संवर करने वाला सुख और संवर नहीं करने वाला दुःख पाता है ॥१०॥

भावार्थ: — जिस प्रकार मन और वचन की सावध प्रवृत्ति हानिकारक होती है वैसे ही काया की भी प्रवृत्ति सावध हो तो अनन्त संसार का

परिभ्रमण कराती है। काया की प्रवृत्ति शुभ हेतु पूर्वक होनी चाहिए। बिना मतलब और हानिकारक काया की प्रवृत्ति संवर करने (रोकने) की बहुत आवश्यकता है। इसे दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं। किसी स्थान पर दो कछवे रहते थे। किसी समय एक हिंसक जानवर उनके आवास की तरफ से निकला उसे देखकर दोनों कछवों ने अपना सिर तथा पैर अपने शरीर के अन्दर कर लिया। इससे उस हिंसक पशु का कुछ जोर नहीं चला। वह थोड़ी देर कछवा सिर और पैर कब बाहर निकाले इसकी वाट देखने लगा। इतनी देर में एक कछवे ने घबड़ा कर अपना सिर और पैर बाहर निकाला। निकालते ही हिंसक जीव उस पर दूट पड़ा और उसे मार कर खा गया। परन्तु दूसरे कछवे ने बहुत देर हो जाने पर भी अपने सिर तथा पैरों को बाहर नहीं निकाला। हिंसक जीव हार-थक कर चला गया, जिससे कछवे के प्राण बच गये।

इन दोनों कछवों में अपने अंगों को छिपाये रखने वाला तो बच गया और सुखी हुआ और दूसरे ने दुःख पाया। इसलिए काया का संवर करना भी बहुत लाभदायक है।

कार्यों की अप्रवृत्ति तथा काया का शुभ व्यापार

कायस्तम्भान्न के के स्युस्तस्त्वस्तम्भादयो यताः ।

शिवहेतुक्रियो येषां, कायस्तांस्तु स्तुवे यतीन् ॥११॥

अर्थ : केवल काया का संवर करके वृत्त तथा थंभा आदि किसने संयम पालन किया ? पर जिनका शरीर मोक्ष प्राप्ति के लिए क्रियावान् है ऐसे यति की हम स्तुति करते हैं ॥११॥

भावार्थ : जो बातें वचन-योग के विषय में कही गई हैं वे ही कार्यों की अप्रवृत्ति के विषय में सही हैं। केवल काया की अप्रवृत्ति से कोई लाभ नहीं। शरीर की प्रवृत्ति होनी चाहिए और उसके द्वारा शुभ क्रियाओं का अनुष्ठान करना चाहिये। इस प्रकार मन, वचन और काया की प्रवृत्ति के विषय में उपदेश हुआ।

## श्रोत्रेन्द्रिय संवर

श्रुतिसंयममात्रेण, शब्दान् कान् के त्यजन्ति न ।  
इष्टानिष्टेषु चैतेषु, रागद्वेषौ त्यजन्मुनिः ॥१२॥

अर्थ : कौन पुरुष शब्द सुनकर कान के संयम मात्र से सुनना त्याग सकता है। परन्तु जो पुरुष इष्ट और अनिष्ट शब्द सुनकर राग द्वेष नहीं करे उसे मुनि समझना ॥१२॥

चारेन्द्रिय जीवों तक जीव में सुनने की शक्ति नहीं होती उसी प्रकार वहरा आदमी भी नहीं सुन सकता। कानों में उंगली डालकर भी सुनना रुक सकता है। पर इस प्रकार के संयम से कोई लाभ नहीं। परन्तु कानों से मधुर शब्द या गायन सुनकर अथवा ककेश या गुस्से से भरे शब्द सुनकर भी जो समभाव में रहे वही धन्य है। ऐसे मनुष्य मुनि हैं।

## चक्षु इन्द्रिय संवर

चक्षुः संयममात्रात्के, रूपालोकारत्यजन्ति न ।  
इष्टानिष्टेषु चैतेषु, रागद्वेषौ त्यजन्मुनिः ॥१३॥

अर्थ : केवल चक्षु के संयम से कौन पुरुष रूप देखना नहीं छोड़ता ? पर इष्ट और अनिष्ट रूप देख कर जो राग द्वेष नहीं करता वही वास्तविक मुनि है ॥१३॥

भावार्थ : त्रीन्द्रिय जीवों तक जीवों के चक्षु नहीं होते, वे देख नहीं सकते तथा जा अंग्रे हैं वे भी देख नहीं सकते। इसलिये ये चक्षु संवर नहीं हुआ। इसी तरह कोई आँखें बन्द करले तब भी वह संवर नहीं हुआ। इस तरह कुछ न देखने से कोई लाभ नहीं होता। परन्तु स्त्री का सुन्दर मुख, शरीर और सुन्दर चाल देख कर भी जिस मनुष्य का मन चंचल नहीं होता और कुरूप दुर्गन्धयुक्त वेडौल आकृति देख घृणा नहीं करता और जिसका दोनो अवस्थाओं में चित्त एक समान रहे वही पुरुष धन्य है। उसे हम नमस्कार करते हैं। यही चक्षुइन्द्रिय संवर है। जो पुरुष रूप देख चलित हो जाता है उसका अंत पतंगे के समान होता है।

### घ्राणेन्द्रिय संवर

घ्राणसंयममात्रेण, गन्धान् कान् के त्यजन्ति न ।

इष्टानिष्टेषु चैतेषु, रागद्वेषौ त्यज-गुणिः ॥१४॥

अर्थ: नासिका के संयम मात्र से कौन गंध नहीं त्यजता ?  
किन्तु सुगन्ध या दुर्गन्ध से जिसे राग द्वेष नहीं होता वही  
मुनि है ।

भावार्थ:—फूल अथवा इत्र की सुगन्ध से जिसे कोई सुख अनुभव  
नहीं होता और न-बदबू से घृणा होती है तथा दोनों स्थितियों  
में जो एक समान रहता है वही मुनि है । वह धन्य है । ऐसे घ्राणेन्द्रिय  
पर संयम रखने वाले को हम नमस्कार करते हैं । घ्राणेन्द्रिय के  
वशीभूत हो भँवरा संख्या समय कमल में बंद हो जाता है और  
प्रातःकाल वह फूल के साथ हाथी के मुँह में जाकर मरता है ।

### रसनेन्द्रिय संवर

जिह्वासंयममात्रेण, रसान् कान् के त्यजन्ति न ।

मनसा त्यज तानिष्टान्, यदीच्छसि तपःफलम् ॥१५॥

अर्थ: जिह्वा के संयम मात्र से रस का स्वाद कौन नहीं छोड़ता ?  
परन्तु जो तप का लाभ लेना हो तो जो वस्तु स्वादिष्ट लगती हो  
उसको छोड़ दे ॥१५॥

भावार्थ: जीभ के स्वाद में लीन होना बहुत हानिकारक है ।  
संसार जीभ के स्वाद में सब भक्ष्य अभक्ष्य खाकर बहुत आनन्द  
मानता है । ससारी जीव ने अनन्त भवों में अनन्त खाद्य सामग्री  
खाई परन्तु उसे न कभी तृप्ति हुई न होने वाली है । वे ही मनुष्य  
धन्य हैं जो स्वादिष्ट वस्तु खाने का लोभ नहीं करते और न स्वादिष्ट  
वस्तु से घृणा करते हैं । जो अपनी रसनेन्द्रिय का संवर करते हैं वे  
धन्य हैं, उन्हें तप का फल होता है ।



## स्पर्शनेन्द्रियसंयम

त्वचः संयमात्रेण, स्पर्शान् कान् के त्यजति न ।

मनसा त्यज तानिष्ठान् यदीच्छसि तपःफलम् ॥१६॥

अर्थः—स्पर्श मात्र नहीं करना चमड़ी का संयम नहीं है, यदि तुझे तप का फल लेना है तो इष्ट स्पर्श का मन से त्याग कर ॥१६॥

भावार्थः किसी भी इन्द्रिय के वशीभूत होने से संसार-भ्रमण करना पड़ता है परन्तु स्पर्श-इन्द्रिय पर काबू रखना सबसे कठिन है। इसके आधीन हुआ मनुष्य भवोभव दुःख पाता है। उसके दोनों भव नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सुन्दर स्त्री अथवा बालक देखकर राग नहीं करता और कुष्ट आदि चमड़ी के रोग से घृणित और असुन्दर शरीर देख कर घृणा नहीं करता, जो पुरुष मच्छर बांस, शीत या गर्मी के कारण दुःखी नहीं होता और किसी भी अवस्था में उससे अपने मन में द्वेष नहीं करता उसकी यह अवस्था स्पर्शनेन्द्रिय-संयम है। जो पुरुष स्पर्शनेन्द्रिय संयम करे वह धन्य है। स्पर्शनेन्द्रिय के कारण हाथी जैसा शक्तिमान् जीव भी बन्धन में पड़ जाता है।

## वस्तिसंयम (ब्रह्मचर्य)

वस्तिसंयममात्रेण, ब्रह्म के के न विभ्रते ।

मनः संयमतो धेहि, धीर ! चेतस्फलात्थ्यसि ॥१७॥

अर्थः—कौन पुरुष मूत्राशय के संयम से ब्रह्मचर्य नहीं रखता ? परन्तु हे धीर ! यदि तुझे ब्रह्मचर्य के फल की इच्छा हो तो मन के संयम से ब्रह्मचर्य का पालन कर ॥१७॥

भावार्थः स्पर्शनेन्द्रिय का विचार ऊपर हो चुका और स्त्री-विषय भी इसी में सम्मिलित है। यह विषय बहुत महत्व का है इसलिये अलग श्लोक में इसकी और व्याख्या की है। यह इन्द्रिय अति भयंकर है। अन्य इन्द्रियों के भोगते समय ज्ञान प्राप्त हो सकता है परन्तु स्त्री-संयोग करते समय तो संसार-भ्रमण के सिवाय कुछ हाथ नहीं आता। सुन्दर गाना सुनते, अच्छी गन्ध लेते और कुछ

उत्तम पदार्थ खोते आत्म-स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है और पौद्गलिक भाव का त्याग कर ज्ञान प्राप्त हो सकता है। परन्तु स्त्री-प्रसंग से तो एकान्त दुर्ध्यान और महा क्लिष्ट अध्यवसाय होता है। इस प्रकार स्त्री-संयोग तो एकान्तिक अधःपतन का कारण है। केवल शारीरिक कारण से अथवा अन्य किसी भी कारण से स्त्री-संयोग नहीं कर सकता वह संयम नहीं है। संयम तो तभी सही है जबकि सब संयोग अनुकूल हो तो भी मन को वंश में रख स्त्री-संयोग की अभिलाषा न करे। इस विषय की 'स्त्री-भक्त्य त्याग' अधिकार में विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई है। इस विषय में स्थूलिभद्रजी का दृष्टान्त मनन करने योग्य है। स्थूलिभद्रजी बड़े भार्यशाली थे। उनके पास अथाह धन था। वे सदा वेश्या के घर सुख से रहते थे। उनको वैराग्य हुआ; उन्होंने दीक्षा ली और मन, वचन और काया से पूर्ण ब्रह्मचर्य की रक्षा की। अपनी दृढ़ता की परीक्षा करने को उन्होंने उसी वेश्या के यहां चतुर्मास किया। वेश्या ने उनको अपने वंश में करने के लिए अनेक प्रकार के हाव-भाव दिखाये, उत्तम से उत्तम पदार्थ खिलाये, परन्तु वह उनको किसी भी तरह चलित नहीं कर सकी। वह हार-थक उनके पैरों में पड़ गयी। धन्य हैं ऐसे महात्मा जिनके चरित्र याद कर लोग अपना कल्याण कर सकते हैं।

समुदाय से पाँचो इन्द्रियो के संवर का उपदेश

विषयेन्द्रियसंयोगामावात्के के न संयताः ।

रागद्वेषमनोयोगामावाधे तु स्तवीमि तान् ॥१८॥

अर्थ: विषय और इन्द्रियों का संयोग न होने से कौन नहीं संयम रखता ? परन्तु जो पुरुष मन के साथ राग-द्वेष का योग नहीं होने देता उसका मैं स्तवन करवा हूँ ॥१८॥

भावार्थ मधुर स्वर, सुन्दर रूप, सुगन्धित पुष्प, मिष्ट पदार्थ और सुकोमल स्त्री, ये इन पाँचो इन्द्रियों के विषय हैं। यदि इन विषयों का इन्द्रियों से मिलाप नहीं हो अर्थात् कान से मधुर स्वर सुने नहीं, नेत्रों से सुन्दर स्वरूप देखे नहीं, नाक से सुगन्ध सूँघे नहीं, रसना से मीठी वस्तु चखे नहीं, स्त्री से सम्बन्ध करने का मौका मिले नहीं, ऐसी स्थिति

में कोई कष्ट, मैंने संयम रखा तो यह संयम नहीं। परन्तु जब सब संयोग हो और इन पाँचों इन्द्रियों को वश में रखे और इन विषयों के प्रति न राग रखे और न द्वेष वभी पाँचों इन्द्रियों का संयम कहलाता है। जो पुरुष सब स्थितियों में संयम रखता हो और विषयों के आधीन नहीं होता वही धन्य है और स्तुति करने योग्य है।

कायसंवर-करट और उत्करट का दृष्टान्त

कषायान् संवृणु प्राज्ञ, नरकं यदसंवरात् ।

महातपस्विनोप्यापुः, करटोत्करटादयः ॥१९॥

अर्थ:- हे विद्वान् ! तू कषाय का संवर कर। कषाय संवर नहीं करने से करट और उत्करट जैसे महान् तपस्वी भी नरक में जाते हैं ॥१९॥

विवेचन:- कषाय का विवेचन सातवें अधिकार में हो चुका है। इसलिये यहाँ विशेष लिखने की जरूरत नहीं। सबका सार यह है कि किसी भी स्थिति में कषाय नहीं करना चाहिये। यदि कषाय करना ही पड़े तो आत्मिक चिन्ता करनी। कषाय से संसार वृद्धि होती है, कषाय से बहुत हानि होती है, दुर्गति होती है, इस पर एक दृष्टान्त यहाँ देते हैं।

करट और उत्करट दो भाई थे। ये अध्यापक का कार्य करते थे। किसी कारण से इनको वैराग्य हो गया और तपस की दीक्षा ली। ये बहुत तपस्या करते और गाँवों में विहार करते। एक चतुर्मास में ये दोनों भाई एक किले के नाले के पास ध्यान लगाकर खड़े हो गये। यदि वर्षा पड़े तो इनको कष्ट होगा यह समझ कर क्षेत्र-देवता ने इस गाँव में वर्षा वन्द कर दी पर अन्यत्र अच्छी वर्षा हुई। उस गाँव के लोग वर्षा न होने से बहुत दुःखी हुए। वे इसका कारण ढूँढने लगे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि इन तपस्वियों के कारण से मेह नहीं बरसता। सब गाँव वाले इनको कोसने लगे, अन्त में इनको मार पीटकर गाँव से बाहर निकाल दिया। दोनों तपस्वी इनकी इस वृत्ति पर बड़े क्रोध हुए। उन्होंने शाप दिया कि "हे मेघ मूसलाधार बरसाओ और पन्द्रह

दिन तक वर्षा हो जिससे गाँव नष्ट हो जाए”। पन्द्रह दिन तक मेघ बहुत वेग से बरसा, सारा गाँव नष्ट हो गया और बहुत जल, धन का नाश हुआ। ये दोनों तपस्वी उस गाँव से चले गये। क्रोध शान्त होने पर भी उन्होंने पश्चात्ताप नहीं किया इसका परिणाम यह हुआ कि तीन साल बाद मर कर वे सातवें नरक में गये। जिस तपस्या के कारण वे देवलोक में जाते वे क्रोध ही के कारण सातवाँ नरकी में गये। इससे यह निष्कर्ष मिलता है कि क्रोध खराब है जो सब पुण्यों का नाश कर देता है।

क्रियावन्त की प्रवृत्ति शुभ योग में होनी चाहिये

यस्यास्ति किञ्चिन्न तपोयमादि, ब्रुयात्स यत्तदुदणं परान् वा ।

यस्यास्ति कष्टाप्तमिदं तु किं न, तद्भ्रंशमीः संवृणुते स योगान् ॥२०॥

अर्थ जिन पुरुषों ने तपस्या, यम, आदि कुछ भी अर्जित नहीं किया यदि वे कुछ भी बोलें या दूसरों को दुख पहुँचावें तो चिन्ता की कुछ बात नहीं, पर जिन पुरुषों ने महा कष्ट उठाकर तपस्यादि की है वे उसके भ्रष्ट हो जाने के डर से योग संवर क्यों नहीं करते ? ॥२०॥

भावार्थ:—जिसने अनन्त काल से मिथ्यात्व सेवन किया हो वह भ्रष्ट जो मन में आवे बोले अथवा मन, वचन, काया से अशुभ योगों की प्रवृत्ति करे, किसी को दुख दे या कष्ट पहुँचावे अथवा कैसा ही आचरण करे तो कोई चिन्ता नहीं, क्योंकि उसे भविष्य सुधारने की चिन्ता नहीं। परन्तु जो महापञ्चस्त्रयण करता है अथवा उसी प्रकार की कठिन तपस्या अथवा असाधारण प्रयास से विरति धारण करता है, ऐसे मुनियों को तो योगों का संवर करना ही चाहिये। उनको चाहे जितना भी पौद्गलिक भोग देना पड़े तब भी उनको अपनी सब शक्ति लगाकर भोग देना चाहिये। ग्रन्थ कर्त्ता कहते हैं कि यदि इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए भी उसके नाश होने का भय नहीं करते हो और योग, संयम आदि क्रियाओं की महत्ता जानते हुए भी योग संयम नहीं रखते तो उनका बड़ी कठिनता से प्राप्त हुआ विरति गुण नष्ट हो जायगा और सब भ्रम वृथा जायगा।

— - मनयोग के संवर की मुख्यता

भवेत्समग्रेष्वपि संवरेषु, परं निदानं शिवसंपदां यः ।

त्यजन् कषायदिजडुर्विकल्पान्, कुर्यान्मनः संवरमिद्धधीस्तम् ॥२१॥

अर्थ: मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करने का कारण संवर है। सब संवरो में बड़ा संवर मन का संवर करना है। यह जानकर बुद्धिमान् आदमी कषाय से उत्पन्न हुए दुर्विकल्पो को त्यागकर संवर करे ॥२१॥

भावार्थ: सब प्रवृत्तियों का हेतु सुख प्राप्त करना है, और मोक्ष सुख सब सुखों में महान् है, क्योंकि वह अनन्त है। यह सुख मन पर पूर्ण संयम करने से प्राप्त होता है। यह तो अनुभव सिद्ध बात है कि यदि कषाय से उत्पन्न संकल्प विकल्पों को त्याग दिया जाय तो मन में शान्ति, प्रेम तथा मैत्री-भाव जागृत होता है, जिससे अत्यधिक आनन्द का अनुभव होता है। यह सुख चक्रवर्ती राजा के सुख से भी अधिक है। इसलिये मन को बश में करो, कुविचार और दुर्व्याप्त को रोको और शुभ विचार की तरफ प्रवृत्ति करो। इससे कर्म की निर्जरा होगी और नीचे श्लोक में वर्णित सुख की प्राप्ति होगी-या-उसे प्राप्त करने का मार्ग खुल जायगा।

— - निःसंगता और संवर-उपसंहार—

तदेवमात्मा कृतसंवरः स्यात् निःसंगतामाक् सततं सुखेन ।

निःसंगभावोदय संवरस्तद्द्वयं शिवार्थी युगपद्भजेत् ॥२२॥

अर्थ: उल्लिखित वर्णन के अनुसार संवर करने वाली ऐसी आत्मा को बिना मेहनत के निःसंगता (ममत्तारहितपना) प्राप्त होती है, और निःसंगता भाव से संवर सिद्ध होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी जीव इन दोनों उपायों से मोक्ष साधन करता है ॥२२॥

भावार्थ: जिसने मिथ्यात्व का त्याग किया हो, अविरति दूर करी हो, कषायों को कम किया हो और योगों को रोका हो तो उसका ममत्व भाव स्वाभाविक रीति से कम हो जाता है। ममत्व भाव घटने से संसार कम हो जाता है और संसारी वासना कम हो जाती है। वासना कम होने से

विषय कम होते हैं, ममता का भी नाश हो जाता है, ममता का नाश हुआ तो मोह का नाश हुआ। मोह गया तो भव-भ्रमण का अन्त हुआ अर्थात् अनन्त मोक्ष सुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार संवर से निःसंगता प्राप्त होती है। कुछ मनुष्यों को निःसंगता से संवर प्राप्त होता है। अर्थात् पहले उन्हें किसी कारण से वैराग्य होता है, मोह हटता है और स्त्री-पुत्र आदि से प्रेम हट जाता है। उसके पश्चात् आत्म-जागृति होती है, मन, वचन और काया के योग की प्रशस्त प्रवृत्ति होती है और कषाय कमजोर हो जाते हैं। इस प्रकार निःसंगता से संवर होता है। यह कोई नियम नहीं कि संवर या निःसंगता से संवर हो। इसका आधार तो पुरुष, काल, स्थान तथा संयोग है, फिर भी सबसे अच्छा मार्ग तो योगादि का संवर और ममता का त्याग, इन दोनों का साथ-साथ उपयोग करना है।

### उपसंहार

कर्म-बन्ध का हेतु मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग है। ग्रन्थ-कर्ता ने इस अध्याय में इन चारों में से मिथ्यात्व का व्यादा विवेचन इसलिये नहीं किया है कि इसको पढ़ने वाले प्रायः मिथ्यात्वी नहीं होंगे। और योग का विषय जिसमें मनोनिग्रह, वचन-निग्रह, और काय-निग्रह तथा अन्तरंग में इन्द्रिय-दमन बहुत उपयोगी है। यह बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिये कि मन की अप्रवृत्ति और मनोनिग्रह में बहुत अन्तर है। मन की अप्रवृत्ति अर्थात् मन के व्यापार को बन्द करना मन को नाश करना है, यह हठ योग है। इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता, तन्दुरुस्ती में लाभ हो सकता है परन्तु कोई आत्मिक लाभ नहीं। वास्तव में सही रास्ता तो यह है कि जब मन बुरे मार्ग पर जाता हो तो उसे रोके और पीछे लौटाकर शुभ मार्ग में प्रवृत्त करे। मन की प्रवृत्ति को अशुभ मार्ग में जाने से रोकना और शुभ मार्ग में लगाना यही महा योग है। इसीलिये शुक्ल ध्यान करने का उपदेश दिया है। यह भावना कि "मैं कब बयालीस दोष रहित आहार करूँगा, मैं कब पौद्गलिक भाव का त्याग कर आत्म-तत्त्व में रमण करूँगा" आदि शुभ मनोरथ हैं, और प्रशस्त मनोयोग की गिनती में है, इसी प्रकार वचन-योग और काययोग को भी जानना। वचन और काया की प्रवृत्ति को एकदम नहीं रोकना

चाहिये, वरिक्त उनकी प्रवृत्ति शुभ मार्ग में लगानी चाहिये। जब तक बाह्य इन्द्रियों पर अंकुश नहीं होगा तब तक मन का वश में होना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार जब तक मन पर अंकुश नहीं तब तक इन्द्रियों को वश में करना कठिन है। इस प्रकार मन तथा इन्द्रियों का दमन एक दूसरे पर आधारित है। इसलिये इन दोनों पर अंकुश रखने के लिये असाधारण आत्म-बल की आवश्यकता है। यह कार्य मुश्किल नहीं परन्तु अनुभव न होने से कठिन प्रतीत होता है।

जिस प्रकार योग-रन्धन करने की आवश्यकता है उसी प्रकार कषाय को वश में करने की आवश्यकता है। जितने भी अन्तरंग शत्रु हैं उनमें सब से प्रबल शत्रु कषाय है। जब योग-रन्धन हो जावे और साथ ही कषाय पर विजय प्राप्त हो जावे तो विरति गुण स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार चारों कर्म-बन्ध-हेतु जब कमजोर हो जाते हैं तो वे धीरे-धीरे नष्ट हो जाते हैं।

इस जन्म में स्त्री, पुत्र, धन आदि वस्तुएँ प्राप्त होना मुश्किल नहीं। जीव ने इनको अनन्त बार प्राप्त किया है। अतएव इनके लिये प्रयास करना वृथा है क्योंकि इनके ममत्व में पड़कर यह जीव अपना कर्तव्य भूल जाता है। इसलिये योग-रन्धन, कषाय-विजय और मिथ्यात्व-निरोध करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

# पंचदश आधिकार

## शुभ वृत्ति शिक्षोपदेश

चित्त-दमन, वैराग्योपदेश, यति-योग्य शिक्षा तथा मिथ्यात्व और अविराग और योगो का निरोध आदि विषयों पर व्याख्या की गयी। ये सब बहुत उपयोगी हैं, परन्तु मनुष्य को कैसी वृत्ति रखनी चाहिये जिससे उपरोक्त क्रियायें पूर्णरूप से फलदायक हों इस पर विचार किया जाता है।

आवश्यक क्रिया करता

आवश्यकेष्वार्तु यत्नमाप्तोदितेषु शुद्धेषु तमोऽपहेषु ।

न ह्यत्यमुक्तं हि न चाप्यशुद्धं वैद्योक्तमप्यौषधमामयान् यत् ॥१॥

अर्थ : पाप को हरने वाली आवश्यक और ज्ञानी पुरुषों की बताई हुई शुद्ध क्रियाओं के करने में तू यत्न कर। क्योंकि यदि वैद्य की बताई हुई औषध खाने में न आवे अथवा वह अशुद्ध हो तो रोग का नाश नहीं हो सकता ॥१॥

भावार्थ :—आवश्यक क्रिया अर्थात् जो क्रियाएँ साधु या श्रावक को नित्य करनी चाहिये वे ये हैं:—१. सामायिक, दो घड़ी स्थिर चित्त से आसन लगाकर समता रखना और अभ्यास, तत्त्वचिन्तन तथा आत्म-जागृति अपनी शक्ति अनुसार करना। साधु लोग हरदम सामायिक दशा में रहते हैं। २. चतुर्विंशति स्तवन और जगत्-उपकारी महा-प्रभावक परमात्मा की स्तुति करना। ३. प्रतिक्रमण-सारा दिन या रात्रि सम्बन्धी किए दोषों का चिन्तन तथा पन्द्रह दिनों में, चार मास या वारह मास में किए कार्य या चिन्तन किये हुए दोषों का अथवा किया हुआ, कराया हुआ वा अनुमोदन क्रिया कोई भी दोष हुआ हो उनके लिए अन्तःकरण में पश्चात्ताप करना। निषेध किए कार्य को किया हो और आदेश किए कार्य नहीं किए हों, जीवादि पदार्थों पर श्रद्धा नहीं की हो और धर्म-विरुद्ध प्ररूपण किया हो, उन सबके



वाचत क्षमा-याचना करना प्रतिक्रमण है। ५. कायोत्सर्ग देह का उत्सर्ग करना अर्थात् देह-सम्बन्धी सब बाह्य हलचल बंद कर अन्तर आत्म-जागृति करना और ६. पञ्चखण्ड-स्थूल पदार्थों का भोग कम करना या सर्वथा त्याग करना और शक्ति के अनुसार त्याग भाव रखना।

ये छै आवश्यक क्रियाएँ जैन लोगों को अवश्य करनी चाहियें। ऐसा शास्त्र का विधान है, भगवान् का स्वयं कथन है। यह खुद भी निर्दोष है और भवरोग का नाश करने वाला भी है। ये आवश्यक क्रियाएँ बहुत जरूरी हैं, इनसे आत्मा निर्मल होती है। पुराने पापों का नाश होता है, नये कर्म बन्धन रुकते हैं और आत्मा जागृत रहती है।

तपस्या करनी चाहिये

तपांसि तन्याद्विविधानि नित्यं, मुखे कट्टन्यायतिसुन्दराणि ।

निमन्ति तान्येव कुकर्मराशिं रसायनातीव दुरामयान् यत् ॥२॥

अर्थ :- प्रारम्भ में कठिन लगे व परिणाम में सुन्दर हो ऐसे दोनों प्रकार के तप हमेशा करने चाहियें। इससे कुकर्मों के ढेर का तुरन्त नाश हो जाता है। जैसा कि रसायन खाने से दुष्ट रोग का नाश होता है उसी प्रकार तप करने से कर्मों का नाश होता है ॥२॥

भावार्थ: तप दो प्रकार के होते हैं बाह्य और आभ्यन्तर। बाह्यतप छै प्रकार के हैं नहीं खाना (उपवास), कम खाना, गिनती में कम पदार्थ खाना, रस का त्याग, कष्ट सहन करना, अंगोपांग की संभेद कर रखना। आभ्यन्तर तप भी छै प्रकार का है—किये हुए पापों का प्रायश्चित्त करना, बड़ों के प्रति विनय करना, बाल वृद्ध की सेवा करना, अभ्यास करना, ध्यान करना और कायोत्सर्ग करना। इन सब तपों के करने से कष्ट होता है परन्तु अनादि काल से लगे हुए पापों और कर्मों का नाश होता है। यदि अनादिकाल के लगे चिकणै कर्मों का नाश करना हो तो तपस्या करो। इस जीव के जो आठ कर्म अनादि से बंधे हैं वे उदित होने से पहिले भी

तपस्या करके क्षीण किये जा सकते हैं। उनके उदय के लिये ठहरने की आवश्यकता नहीं। तपस्या यद्यपि नारम्भ में कठिन लगती है तथापि अभ्यास से सरल हो जाती है। इसका फल यह होता है कि कठिन तथा चीकणो कर्मों का नाश तुरन्त हो जाता है।

शीलांग-योग, उपसर्ग-समिति-गुप्ति

विशुद्धशीलांगसद्वसधारी, अवागिनिं निर्मितयोगसिद्धिः ।

सहोपसर्गास्तनुनिर्ममः सन्, मजस्व गुप्तीः समितीश्च सम्यक् ॥३॥

अर्थः—तू अठारह हजार शीलांग को धारण करने वाला बन, योग सिद्धि वाला बन, शरीर की भमता त्याग, उपसर्गों को सहन कर, और समिति तथा गुप्ति की अच्छी तरह पालन कर ॥३॥

भावार्थः—इस श्लोक में वर्णित सभी विषयों पर इस पुस्तक में सविस्तार व्याख्या हो चुकी है।

स्वाध्याय-आगमार्थ-भिक्षा आदि

स्वाध्याययोगेषु दधस्व यत्नं, मध्यस्थवृत्त्यानुसरागमार्थान् ।

अगौरवो मैक्षमताविषादी, हेतौ, विशुद्धे वशितेन्द्रियौधः ॥४॥

अर्थ—सजाय ध्यान में यत्न कर, मध्यस्थ बुद्धि से आगम में कहे मार्ग के अनुसार कार्य कर, अहंकार का त्याग कर, भिक्षा के लिये जा, उसी प्रकार इन्द्रियों को वश में करके शुद्ध हेतु से कटुता रहित हो ॥४॥

भावार्थः—ऊपर श्लोक में बताये हुए कार्य संक्षेप में इस प्रकार हैं जो मुनियों के लिये आवश्यक हैं।

(१) हे यति ! तू स्वाध्याय में लीन रह, इससे तू निकम्मी पंचायत से बचेगा और सावद्य उपदेश और सावद्य ध्यान से रक्षा होगी। इससे तेरा उत्तरोत्तर-ज्ञान बढ़ेगा, परोपकार करने का प्रबल साधन मिलेगा। योग-साधन तथा आगम-ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता आवेगी, इससे तू मन, वचन तथा काया के योगों पर अंकुश रख सकेगा।

(२) आगम में बताए हुए भावों को माध्यस्थ वृद्धि से ग्रहण कर, कदाग्रह छोड़ और शुद्ध दृष्टिविन्दु सामने रख । (३) तू नृपादि के सत्कार की या उनसे रमणीय वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा न कर और उनके प्राप्त होने पर अहंकार भी न कर । (४) अपने मन में विषाद भव कर । विषाद से आत्मा को हानि पहुँचती है और संसार-वृद्धि होती है । (५) इन्द्रियों को वश में रख, नहीं तो बहुत दुःख पायेगा और उन्हें वश में रखने से अवर्णनीय आनन्द मिलेगा । (६) तू शुद्ध साधु जीवन के लिये भिक्षा द्वारा भोजन प्राप्त कर, परन्तु तेरा बौद्ध किसी गृहस्थी पर न पड़े इसका खयाल रख । थोड़ा थोड़ा अनेक गृहस्थियों से अन्न प्राप्त कर । शुद्ध आहार ले और जो मिले उसमें संतोष रख । जो आहार प्राप्त होता है वह साधु-संयम में सहायक होता है न कि शरीर का पोषक । शुद्ध भोजन को शरीर के सदृश समझ ।

### उपदेश-विहार

ददस्व धर्माथितयैव धर्म्यान्, सदोपदेशान् स्वपरादिसाम्यान् ।  
जगद्धितैषी नवमिश्च कल्पैर्ग्रामि कुले वा विहराप्रमतः ॥५॥

अर्थ: हे मुनि ! तू धर्म प्राप्त करने के लिये इस प्रकार का उपदेश दे जो धर्मानुसार हो और अपने तथा पराये में समभाव उत्पन्न करे । तू जगत् का भला करने की इच्छा करवा हुआ प्रमाद रहित हो और गाँव तथा कुल में नव-कल्पी विहार कर ॥५॥

विवेचन : हे साधु ! उपदेश देना तो तुम्हारा धर्म है । लेकिन तुम्हारे उपदेश में तीन गुण होने चाहिये (१) उपदेश निष्पाप अर्थात् सावध आचरण की आज्ञा रहित होना चाहिये (२) उपदेश केवल धर्म प्राप्ति के लिये तथा स्वार्थ-रहित होना चाहिये । परमार्थ ही उसका प्रयोजन होना चाहिये (३) उपदेश अपनी और दूसरे की आत्मिक तथा पौद्गलिक वस्तुओं पर समभाव उत्पन्न करने वाला होना चाहिये न कि उत्तेजना पैदा करने वाला या स्वयं की बड़ाई बताने वाला हो । वह पत्थर और माणिक्य को एक समान समझे, सुन्दर वस्तु पर प्रेम तथा असुन्दर वस्तुओं पर धृष्टता न करे । वह सिर्फ समभाव रखे । यह उपदेश

राग-द्वेष रहित हो, उसकी भाषा मधुर हो और भाव श्रोताओं का हितकारी हो, सत्य हो, जिस बात को समझाने के लिए दलील दी जावे वह न्याययुक्त होनी चाहिये। उसमें कदाग्रह बिलकुल नहीं होना चाहिये। श्रोताओं पर व्याख्यान का ऐसा असर होना चाहिये कि वे सब संसारी बातों को भूल जावें।

साधु नवकल्पी विहार करे। इसका अर्थ है कि कार्तिक पूर्णिमा से लेकर आषाढ़ सुदि चौदश तक आठ मास के आठ विहार तथा चतुर्मास में चार मंहींनों का एक विहार इस प्रकार नौ विहार हुए। इस प्रकार नवकल्पी विहार करे। इसमें वह प्रमाद न करे। उसे जगत के हित का सदा ध्यान रखना चाहिये। वह सिवाय चतुर्मास के एक स्थान पर न ठहरे। सिर्फ अभ्यास के लिये, वृद्धावस्था के कारण या शासन के अपूर्व लाभ के निमित्त एक स्थान पर रहने में हानि नहीं। अन्यथा एक स्थान पर रहने में अनेक हानियाँ होती हैं। श्रावक तथा स्थान से मोह हो जाना सबसे बड़ी हानि है। ये मेरे श्रावक हैं, मेरे भक्त हैं, ऐसी भावना होना साधुपने को दूषित करती है और धीरे धीरे अनेक प्रकार की क्रिया शिथिलता आ जाती है।

### स्वात्मनिरीक्षण परिणाम

कृताकृतं स्वस्य तपोजपादि, शक्तीरशक्तीः सुकृतेतरे च ।

सदा समीक्षस्व हृदाथ साध्ये, यतस्व हेयं त्यज चाव्ययार्थी ॥६॥

अर्थ: तूने जप तप किया है कि नहीं, अच्छे काम या बुरे कामों के करने में कितनी शक्ति अथवा अशक्ति है इसके विषय में तू सदा हृदय में विचार कर। तू मोक्ष-प्राप्ति की इच्छा वाला है, इसलिये मोक्ष प्राप्त करने वाले कार्य करने का उपाय कर और त्याग करने योग्य कार्यों को त्याग ॥ ॥

भावार्थ: आत्म-विचारणा से बहुत लाभ है। स्वयं क्या कार्य करता है और उनमें कौनसा कार्य करने योग्य है और कौनसा त्यागने योग्य इस प्रकार का विचार आता है। इस प्रकार भविष्य में किस तरह कार्य करना (Line of action) इसका ज्ञान होता है और शुद्ध-आचार विचार करने का निमित्त प्राप्त होता है।

आत्म विचारणा में गृहस्थ यह सोचे कि उसने अपनी शक्ति के अनुसार तप, जप, स्वामिवात्सल्य तथा अन्य धार्मिक क्रियाएँ कहीं या नहीं और कौन र सी क्रिया करने की उसमें सामर्थ्य है। इसी प्रकार साधु सोचे कि उसने कितने पुरुषों को सत्य उपदेश दिया, स्वयं कितना पठन पाठन किया, कव किया और शासनोन्नति का क्या कार्य किया। यदि नहीं किया तो वह क्यों नहीं कर सका इस पर विचार करे। सुकृत्य अथवा दुष्कृत्य में उसका मन कहाँ तक कार्य करता है और उसे किस हद तक ठीक ठिकाने ला सकता है, इन सब बातों पर विचार कर अपकृत्यों से बच कर सुकृत्य में लगे। इस प्रकार विचार करने से जीव अनेक पापों से बचता है और अच्छे कामों में लगता है। इस प्रकार विचार करने के लिए शास्त्रकारों ने चौदह नियम बनाए हैं। उनका श्रावक नित्य प्रति सायंकाल को ध्यान करता है। ये नियम स्थूल पदार्थों पर अंकुश रखने में सहायक हैं और आत्म-जागृति में तो बहुत सहायक हैं। ये साधु तथा श्रावक दोनों के लिये बहुत उपयोगी हैं।

परपीडा वर्जन-योग निर्मलता

परस्य पीडापरिवर्जनात्ते, त्रिधा त्रियोग्यप्यमला सदास्तु ।  
साम्यैकलीनं गतदुर्विकल्पं, मनो वचरचाप्यनधप्रवृत्ति ॥७॥

अर्थ:—दूसरे जीवों को तीनो प्रकार से दुःख नहीं देने से तेरे मन, वचन, काया की त्रिपुटी निर्मल होती है। मन समता में लीन हो जाता है और अपने दुर्विकल्पों को नष्ट कर देता है। उसके वचन भी निरवध कार्य में लगे रहते हैं ॥७॥

भावार्थ: जैन सिद्धान्त मन, वचन और काया से तीनों हिंसा नहीं करना इस सिद्धान्त पर स्थिर है। जैन धर्म में किसी भी प्राणी को सताना, दूसरे के द्वारा दुःख पहुँचाना, अनुभोदन करना या किये हुए पाप की पुष्टि करना वर्जित है। इस प्रकार की वर्जना से मन, वचन और काया निर्मल होती है।

हिंसा के सम्बन्ध में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर आदि करना भी हिंसा है। क्योंकि इससे

आत्म-गुण का नाश होता है। बाह्य हिंसा और अन्तरंग हिंसा दोनों प्रकार की हिंसा रोकने से समता और क्षमा गुण की प्राप्ति होती है। समता बिना क्रिया कार्य हानिकारक होता है। जिस समय समता गुण प्राप्त होता है तो मन एक प्रकार के अकथनीय आनन्द का अनुभव करता है। दूसरे मनुष्य का मन दुखाना, उसके विषय में अहित सोचना यह भी हिंसा है, इस प्रवृत्ति को रोकना ही मनोयोग है।

### भावना-आत्मलय

मैत्री प्रमोदं करुणां च सम्यक्, मध्यस्थतां चानय साम्यमात्मन् ।  
सद्भावनास्वात्मलयं प्रयत्नात्, कृताविरामं सम्यक् चेतः ॥८॥

अर्थ: हे आत्मा ! मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ्य भावनाओं को अच्छी तरह भा, और समता भाव प्रगट कर। प्रयत्न से सद्भावना भा कर आत्मलय में बिना अन्यत्र विश्राम लिये मन को शान्ति प्राप्त करा ॥८॥

भावाथे : (१) मैत्री भाव, प्रमोद भाव, करुणा भाव और माध्यस्थ्य भाव इन चारों भावों को अपने हृदय में निरन्तर रमाओ ये परम उपयोगी हैं। इनकी विचारणा करने से परम साध्य पदार्थ (समता) की प्राप्ति होती है और परम शान्ति प्राप्त होती है। इसका स्वरूप प्रथम अधिकार में बताया है। ये भावनाएँ शुभ वृत्ति का मुख्य अंग हैं।

(२) इन भावनाओं के भाने से शुद्ध समता प्राप्त होती है। समता आत्मिक गुण है। ज्ञान, ध्यान, तप और शीलयुक्त मुनि भी उतना लाभ नहीं प्राप्त कर सकता जितना समता प्राप्त मुनि प्राप्त कर सकता है।

(३) शुभ वृत्ति करते करते जब समता प्राप्त हो जाती है तो आत्म-जागृति होती है और उसे सब सांसारिक सुख पुच्छ लगने लगते हैं। मन आत्मपरिणति युक्त हो जाता है और सब दिशाएँ प्रफुल्लित नजर आती हैं। अन्त में अकथनीय आत्मानन्द अनुभव होता है। इसलिये निरन्तर आत्म-रमण कर।

## मोह के सुभट की पराजय

कुर्वान्न कुत्रापि भमत्वभावं, न च प्रभो रत्यरती कषायान् ।  
इहापि सौख्यं लभसेऽप्यनीहो, ह्यनुत्तरामर्त्यसुखाभमात्मन् ॥६॥

अर्थ: हे समर्थ आत्मा ! किसी भी वस्तु पर तू न ममत्व भाव कर न रवि, अरति और कषाय भी कर । जब तू इच्छा रहित होगा तब तुझे अनुत्तर विमान में रहने वाले देवताओं का सा सुख यहीं मिल जायगा ॥९॥

भावार्थ: शुभ वृत्ति साधन के लिये अपनी वास्तविकता जानना जरूरी है इसलिये हे चेतन ! यह बात अच्छी तरह समझ कि (१) तेरा इस संसार में कुछ नहीं है । पुत्र, स्त्री अथवा धन तेरा नहीं । इन्हें तू अपना मानकर वृथा भमता में फंसकर दुखी होता है । इससे तू परभव में भी दुखी होगा । तू ममता के कारण सत्य असत्य में भेद नहीं कर सकता । इसलिये ममत्व भाव छोड़ । (२-३) तुझे सुन्दर वस्तु देखकर न प्रसन्न होना चाहिये और न अप्रिय वस्तु देखकर क्रोधित होना चाहिये । संसार में कोई वस्तु अच्छी अथवा खराब नहीं, अच्छा बुरा समझना यह सब तेरे मन की ममता मात्र है । इन्हीं मान्यताओं के कारण तू सुख दुःख का अनुभव करता है इसलिये रति और अरति के खयाल का त्याग कर । इससे तुझे अपूर्व आनन्द होगा । (४) कषाय तो संसार-भ्रमण कराने वाला है इसे छोड़ देना चाहिये यह सातवें अधिकार में बताया गया है । ये मोह राजा के सुभट हैं यदि इनको जीवोगे तो सुख होगा मोह और कषाय ही दुःख का कारण है, इनका त्याग निःस्पृहता है । निःस्पृहता में ही मोटे से मोटा सुख है । उपाध्यायजी महाराज फरमाते हैं:—

परस्पृहा महादुःखं निःस्पृहत्वं महासुखम् ।

एतदुक्तं समाप्तेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

अतएव निःस्पृहता में महान् सुख है । अनुत्तर विमान के देवों में निःस्पृहता है उन्हें काम विकार और मानसिक विडम्बना नहीं होती ।

अतः सब देवों से अधिक सुखी हैं, क्योंकि निःस्पृह जीव पर दुःख का कोई असर नहीं होता ।

उपसंहार शुद्ध प्रवृत्ति करने वाले की गति  
इति यतिवरशिक्षां योऽवधार्य प्रतस्थ—  
अरण्यकरणयोगानेकचित्तः श्रयेत् ।  
सपदि भवमहान्निव क्लेशराशिं स तीर्त्वा,  
विलसति शिवसौख्यानन्त्यसायुज्यमाप्य ॥१०॥

अर्थः—यतिवरों के सम्बन्ध में ( ऊपर ) बताया हुई शिक्षा जो प्रतधारी ( साधु या श्रावक ) एकत्र चित्त से हृदय में धारण करते हैं और चारित्र तथा क्रिया के योगों को पालन करते हैं वे संसार-समुद्र के सब क्लेशों को एकदम पार कर भोक्त में अनन्त सुखों में वन्मय हो आनन्द करते हैं ॥१०॥

भावार्थः—तीर्थंकर भगवान्, गणधरों तथा पूर्वाचार्यों ने जो उपदेश एकान्त उपकार दृष्टि से दिये हैं और जिन पर चलने का आदेश दिया है उनको जो सतुल्य ध्यान में रख चारित्र और क्रिया में उद्यत होते हैं वे ही भगवान् के सेवक हैं । जो साधु अथवा श्रावक अपनी स्थिति के अनुसार उपदेश ग्रहण कर उसके अनुसार वर्तते हैं वे थोड़े ही समय में संसार समुद्र से पार हो जाते हैं और अनन्त समय तक सुख भोगते हैं ।



# षोडश अधिकार साम्यसर्वस्व

इस सारे ग्रन्थ का सार साम्य सर्वस्व अर्थात् समता प्राप्ति करना है। समता में मनोनिग्रह, ममत्व-त्याग और शुभवृत्ति का समावेश हो जाता है। अब यहाँ समता का दिग्दर्शन कराते हैं।

समता का फल मोक्ष प्राप्ति

एवं सदाभ्यासवशेन सात्म्यं, नयस्व साम्यं परमार्थवेदिन् ।

यतः करस्थाः शिवसम्पदस्ते, भवन्ति सधो भवभीतिभेतुः ॥१॥

इम शुद्ध अभ्यासों निज चित्त, रहि परमारथमां समचित्त;

शिव संपद जिस तुम्ह कर थका, हुवई तरत भावी शिवसका ।

अर्थ: हे तात्विक पदार्थ के जानकार ! इस प्रकार ( ऊपर पन्द्रहवें अधिकार में बताई रीति के अनुसार ) निरन्तर अभ्यास के योग से समता को आत्मा के साथ जोड़ दे। जिससे इस भव के भय का अन्त करने वाली मोक्ष-सम्पत्ति एकदम हाथ में आ जायगी ॥१॥

भावार्थ: कुछ ममत्वभाव छोड़कर, कुछ कषाय छोड़कर, कुछ योग की निर्मलता प्राप्त कर और कुछ स्वात्मलक्ष्य से, शुभ वृत्ति प्राप्त करना ये सब पन्द्रहवें अधिकार में बताया है। इन सब उच्च प्रवृत्तियों का उद्देश्य समता की प्राप्ति करना है। समता-प्राप्ति का लाभ इस प्रकार है "पण्डितैर्ज्ञानार्थेन साम्यमालम्ब्य कर्म तत् । यत्र हन्यान्नरस्तीव्रतपसाजन्मकोटिभिः ( हेमचन्द्राचार्य योगशास्त्र ) भवत्येव यह है जो कर्म करोड़ों जन्म तक तीव्र तपस्या करने पर भी नहीं छूट सकते, वे समता के अवलम्बन से एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। इसलिये तुम्हारा साध्य समता होना चाहिये और उसकी आत्मा के साथ मेल करने के लिये निरन्तर अभ्यास की जरूरत है। प्रत्येक प्रकृति का अर्थ है सुख की प्राप्ति और दुःख का अन्त। समता से जो सुख प्राप्त होता है वह अवर्णनीय है, कारण जितने भी दूसरे सांसारिक सुख हैं उन सबके अन्त में दुःख है। समता-

प्राप्ति में सुख ही सुख और अन्त में अनंत सुखप्रद मोक्ष प्राप्ति होती है। इस मोक्ष रूपी मन्दिर में चढ़ने के लिये चौदह सीढ़ियां हैं। इन पर चढ़ने से ही मोक्ष मन्दिर में प्रवेश कर सकते हैं। हे भाइयो ! एक धार अपने आप में निरूपाधि, निजस्वरूपता में लीन होना, अजरामरत्व और इस संसारी दौड़ा-दौड़ी का अन्त और अखंड शान्ति का विचार करो। यदि यह साधना रुचिकर लगे तो इस ग्रंथ में वर्णित समता पर ध्यान धरो दृढ़ प्रयत्न, दृढ़ निश्चय और लगातार लग कर प्रयास करने से इच्छित परिणाम प्राप्त होगा अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिये इस मनुष्य-जन्म का जो सुयोग प्राप्त हुआ है उसे मत गमाओ, क्योंकि यह जन्म बार बार नहीं मिलेगा।

अविद्या को त्याग समता का बीज है

त्वमेव दुःखं नरकस्त्वमेव, त्वमेव शर्मापि शिवं त्वमेव ।

त्वमेव कर्माणि मनस्त्वमेव, जहीह्यविद्यामवधेहि चात्मन् ॥२॥

तुहीज दुःख तुहीज नरकमा, तुहीज सुख तुहीज शिवगमां ।

तुहीज कर्म तुहीज मनपणे, तज अवज्ञा आत्म इम भणे ॥

अर्थ : हे आत्मन् ! तू ही दुःख है, कारण दुःख की प्राप्ति तेरे कर्माधीन हुई है। इसी प्रकार क्या नरक, क्या स्वर्ग सुख, क्या मोक्ष ये सब तेरी ही मनोवृत्ति पर आधारित है, इसलिये सब कुछ तू ही है। तू इस दुर्मनोवृत्ति का त्याग कर फिर सावधान होजा।

भावार्थ : जैनशास्त्रानुसार आत्मा पर ही सब कुछ निर्भर है। उसे न कोई मदद दे सकता है और न उसे किसी की मदद की इच्छा ही रहती है। वह असली स्थिति में शुद्ध, अक्षय, अविनाशी, नित्य है, सिर्फ कर्म के सम्बन्ध से उसकी शुद्ध अवस्था पर परदा पड़ गया है। इस परदे को हटाने के लिए प्रवल पुरुषार्थ की जरूरत है। इसलिये उसे असाधारण उद्योग करना पड़ता है। इस आत्मा में अनन्त शक्ति है। चाहे तो वह पहाड़ को उखाड़ फेंक सकता है और वीर परमात्मा के समान ज्ञान तथा ऋद्धि प्राप्त कर सकता है। इसलिये कहा है:—

अप्पा नई वेयरणी, अप्पा में कूड सामली ।

अप्पा कामदुधा घेणू, अप्पा में नन्दन वन ।

ये सिद्धान्त के वाक्य हैं। ये तुरन्त समझ में आ जाने वाले हैं। इनमें कहा है यह आत्मा ही कामधेनु है और आत्मा ही नन्दन वन है। जिस पुरुष को इससे काम लेना आता है वह सब इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकता है। वही आत्मा तुम में, हम में और उनमें विद्यमान है।

ऊपर लिखी बातों को जानने के लिये अविद्या को त्यागना चाहिये। क्योंकि अविद्या के कारण मनुष्य अंधे के समान है, उसका सब जीवन धृया है। जैसे कहा है:

अज्ञानं खलु भो कण्ठं, क्रोधादिभ्योऽपि तीव्र पापेभ्यः ।

अर्थात् क्रोधादि तीव्र पापों की अपेक्षा अज्ञान अधिक दुःख देने वाला है। जब तक इस अज्ञान का नाश नहीं होता तब तक मोक्ष बहुत दूर है। इसलिये जागो और अज्ञान को हटाओ।

सुख दुःख की जड़ समता और ममता:

निःसङ्गतामेहि सदा तदात्मत्रथेष्वशेषेष्वपि साम्यभावात् ।

अवेहि विद्वन् ममतैव मूलं, शुचां सुखानां समतै चेति ॥३॥

आत्म निज आदर निस्संग, सर्व अर्थमा समता संग ।

आत्म लखिये समता मूल, शुद्ध सुख ते समता अनुकूल ॥

अर्थ:—हे आत्मन् ! सब पदार्थों पर सदा समता भाव लाकर निःसंगपना प्राप्त कर। हे विद्वान् ! तू समझ ले कि दुःख का मूल ममता ही है और सुख का मूल समता है।

भावार्थ:—आपने देखा कि सब सुख-दुःख का कारण यह आत्मा ही है। इस आत्मा में समता भाव आ जावे तो निःसंगवृत्ति प्राप्त हो जावे और अपने असली रूप में आकर तेरे-मेरे भागड़े निवृत्त हो जावें। फिर अमुक वस्तु मेरी है, यह घर मेरा है, यह वस्तु मेरी है, ये सब भाव समाप्त हो जावेंगे। इसलिये समता का लक्ष्य रख

उसे प्राप्त कर। समता अर्थात् सब वस्तुओं पर सम भाव रखना दुश्मन और दोस्त पर एकसा भाव, राजा या रंक, सुख अथवा दुःख में एकसा भाव ही समभाव है। समता भाव रखने वालों पर दुःख का कुछ असर नहीं होता। उसे तो सदा सुख ही सुख है। जहाँ ममता नहीं वहाँ मोह नहीं, जहाँ मोह नहीं ऐसे कर्म में चिकनास नहीं, जहाँ चिकनास नहीं वहाँ कर्म क्षीण होकर नष्ट हो जाते हैं और आत्मा अपने स्वाभाविक रूप में हो जाता है अर्थात् मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

समता की वानगी—फल प्राप्ति

स्त्रीषु धूलिषु निजे च परे वा, सम्पदि प्रसरदापदि चात्मन् ।

तत्त्वेहि समतां ममतामुग्, येन शाश्वतसुखाद्वयमेपि ॥४॥

स्त्रीमां धूलि निजपरमांह, संपद आपद आत्म आंह ।

तत्त्वे समता ममता विना, जे चाहे ते सुखिया चना ॥

अर्थ : स्त्रियों के विषय में और धूलि की चर्चा में, अपने और पराये के विषय में, सम्पत्ति या विपत्ति की चर्चा में तू ममता भाव को छोड़ दे। हे आत्मन् ! तू समता रख जिससे तुझे शाश्वत सुख प्राप्त हो ॥४॥

भावार्थ:—हे आत्मन् ! जो तुझे मोक्ष सुख प्राप्त करना हो तो समता प्राप्त कर, इससे दुःख से छूटने की शक्ति तुझे प्राप्त होगी। जब तू स्वामी और धूल में, तथा अपने और पराये में समभाव रखेगा तो समझता कि कुछ समभाव आया और संसार कम होने का समय आया—इस समय तो तू ममता भाव में फँसा है। यदि तू सुने कि तेरा पुत्र खड्डे में गिर पड़ा तो तेरा चिरा डवांडोल हो जायेगा और भागा भागा अपने पुत्र की तरफ दौड़ेगा। पर आगे जाकर तुझे मालूम हुआ कि वह तो तेरा पुत्र नहीं था बरिफ किसी दूसरे का था तो तुझे “चलो मेरा पुत्र तो राजी खुशी है” यह विचार कर शान्ति और खुशी भी होती है। इन दोनों अवस्थाओं में भेद सिर्फ तेरा-मेरा का ही है, कारण लड़के के चोट आई है वह दर

अवस्था में आई। पर दुःख एक अवस्था में कम दूसरी में ज्यादा इतने में समझना चाहिये कि समता क्या है? दोनों अवस्थाओं में बचराना नहीं चाहिये। चाहे सेवा भाव से भी क्यों न भाग दौड़ करे। जब इतनी समता आवेगी तो दुःख के लिये जगह कहाँ होगी और आगे जाकर शाश्वत सुख के साथ एकता हो जायगी।

समता के कारण रूप पदार्थों का सेवन का

तमेव सेवस्व गुरुं प्रयत्नादधीश्व शास्त्रायपि तानि विद्वन् ।  
तदेव तत्त्वं परिभाषयात्मन्, येभ्यो भवेत्साम्य सुधोपभोगः ॥५॥

यतेन तेहिज तुं गुरुसेव, पंडित तेमण शास्त्र सुलेव ।  
आतम तेहिज तत परिभव, समता सुधा हुवे जे दाव ॥

अर्थ :—उसी गुरु की प्रयत्न से सेवा कर और उसी शास्त्र का अभ्यास कर और हे आत्मन् ! उसी तत्त्व का चिन्तन कर, जिससे तुम्हें समता रूपी अमृत का स्वाद प्राप्त हो ॥५॥

भावार्थ:—समता रूपी अमृत प्राप्ति के लिये तू गुरु की भक्ति से सेवा तथा अभ्यास कर। उभास्वार्तिवाचक महाराज प्रशमरति प्रकरण में कहते हैं

दृढतामुपैति वैराग्यवासना येन येन भावेन ।  
तस्मिन् तस्मिन् कार्यः, कोयमनोवाग्भिरभ्यासः ॥

जिन जिन भावों से वैराग्य वासना दृढ़ हो और वैराग्य भाव का पोषण हो, उन उन शास्त्रों का मन, वचन, काया से अभ्यास करो और सांसारिक विषयों में अलिप्त गुरु की सेवा करनी चाहिये। विषय-कषाय से बचने के लिये शास्त्राभ्यास भी करना चाहिये, क्योंकि यह संसार का स्वरूप बचा कर समता प्राप्ति कराने में मदद देता है।

ये ग्रन्थ समता रस की वानगी

समग्रसञ्छास्त्रमहार्णवेभ्यः, समुद्धृतः साम्यसुधारसोऽयम् ।  
निपीयतां हे विबुधा लभस्वमिहापि मुक्तेः सुखवर्णिकां यत् ॥६॥

सकल शास्त्र जोई उधरी, भैल्यो ऐ समतामृत करी ।  
पीओ ऐ लाम्ही पंडितां, ऐ शिवसुख आवे छे किनां ॥

अर्थ :—यह समता रस रूपी अमृत मोटे मोटे सब शास्त्र रूपी समुद्रों में से निकाला हुआ है। हे पंडित जनों! तुम इस रस को पीओ और मोक्ष सुख का नमूना देखो ॥६॥

विवेचन:—समतावान् का स्वरूप क्या है यह श्रीमत् कपूरचन्दजी (चिदानन्दजी) महाराज इस प्रकार बताते हैं।

जे अरि मित्त बराबर जानत, पारस पाषाण ज्युं होई ।  
कँचन कीच समान अहे जस, नीच नरेश में भेद न कोई ॥  
मान कहा अपमान कहा मन, ऐसो: विचार नहीं तस होई ।  
राग नहीं अरु रोस नहीं चित्त, धन्य अहे जग में जन सोई ॥१॥

ज्ञानी कहो ज्युं अज्ञानी कहो कोई, ध्यानी कहो मनमानी ज्युं कोई ।  
जोगी कहो भावे भोगी कहो कोई, जाकु जिस्थो मन आवत होई ॥  
दोषी कहो निर्दोषी कहो पिंडपोषी कहो को आंगुण जोई ।  
राग नहीं अरु रोस नहीं, जाकुं धन्य अहे जग में जग सोई ॥२॥

साधु सुसंत महन्त कहो कोई, भावे कहो निरग्रंथ पियारे ।  
घोर कहो चाहे ढोर कहो कोई, खेव करो कोऊ जान दुल्हारे ॥  
विनय करो कोई ऊँचे वेठाव ज्युं, दूरथी देख कहो कोई जारे ।  
धार सदा समभाव चिदानन्द, लोक कहावत सुनत नारे ॥३॥

समतावान् का लक्षण ऊपर लिखा है। समता के वाचक उपाध्याय जी कहते हैं “उपशम सार छे प्रवचने, सुजस वचन ऐ प्रमाणो । रे” समता ही शास्त्र का सार है।

धार्मिक कार्यों में समता होवे तभी सुख है। मोक्ष में भी समता का ही सुख है। मोक्ष सुख में जो आनन्द है उसका नमूना देखना ही तो समता रख उसका सुख देखो।

कर्ता नाम विषय प्रयोजन :

शान्तरसभावनात्मा, मुनिसुन्दरसूरिभिः कृतो ग्रन्थः ।

ब्रह्मस्पृहया ध्येयः स्वपरहितोऽध्यात्मकल्पतरुषः ॥७॥

आत्मशांत सुधारसभर्यो, श्री मुनि सुन्दरसूरि तिस्र कर्यो ।

अध्यात्मभावे ध्याइवो, परहित कल्पतरु भाइवो ॥

अर्थ : शान्त रस भावना से भरपूर अध्यात्म ज्ञान का कल्पवृक्ष ग्रन्थ श्री मुनि सुन्दर सूरि ने अपने व पर हित के लिये बनाया, उसका ब्रह्म (ज्ञान और क्रिया) प्राप्त करने की इच्छा से अध्ययन करना चाहिये ॥७॥

भावार्थ : जनसमूह का उपकार करने के लिये इस ग्रन्थ की रचना श्री सोमसुन्दरसूरि महाराज के शिष्य श्री मुनिसुन्दरसूरि महाराज ने की है। यह ग्रन्थ शान्तरस भावना से भरपूर है इसकी रचना का प्रयोजन है ब्रह्म अर्थात् ज्ञान और क्रिया अर्थात् शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त करने का अभ्यास करना। इस ग्रन्थ को बनाने में गुरु महाराज ने अपने ज्ञान तथा शास्त्र का पूरा उपयोग किया है। इसलिये यह ग्रन्थ अध्यात्म ज्ञान का कल्पतरु है।

- उपसंहार

इममिति मतिमानधीत्य चित्ते रमयति यो विरमत्ययं भवाद् द्राक् ।

स च नियतमतो रमेत चास्मिन् सह भववैरिजयश्रिया शिवश्रीः ॥८॥

अर्थ : जो बुद्धिमान् आदमी इस ग्रन्थ को पढ़कर उसके चित्त में रमण करेगा तो वह थोड़े समय में संसार से विरक्त हो जावेगा और संसार रूपी शत्रु पर जय प्राप्त कर मोक्ष लक्ष्मी भी प्राप्त करेगा ॥८॥

भावार्थ : जो बुद्धिमान् पुरुष इस ग्रन्थ का अध्ययन और मनन करेगा और उसके अनुसार आचरण करेगा तो उसे इच्छित फल प्राप्त होगा। एक अंग्रेज विद्वान् ने लिखा है कि ५ मिनट पढ़ो फिर १५ मिनट तक उस पर विचार करो तभी तुम पढ़ने का फायदा उठा

सकोगे। इसी तरह यहां पर भी मनन करने की पूरी आवश्यकता है। मनन करने से ही आत्म-जागृति होती है और पढ़ने का मन पर असर होता है। अन्यथा पत्थर पर से पानी के समान सब पढ़ा हुआ उड़ जायगा। मनन करने की आदत से वस्तु-रहस्य समझा जा सकता है। फिर संसार की स्थिति जान कर इस शत्रु पर विजय प्राप्त होगी और अन्त में मोक्ष प्राप्त होगा।

X

X

X

इस तरह यह 'साम्य सर्वस्व' नाम का सोलहवाँ अधिकार पूरा हुआ। इसमें बताया है कि समता ही सार है। समता-सुख चक्रवर्ती तथा इन्द्र के सुख से भी कई गुणा ज्यादा है और समता गुण वाले पुरुष के लिये मोक्ष लक्ष्मी सामने खड़ी रहती है। सब जीवों पर समभाव रखना, सब वस्तुओं पर समभाव रखना, पौद्गलिक वस्तु पर राग-द्वेष नहीं करना, राग-द्वेष भी पौद्गलिक है ऐसा समझना, दोष वाले प्राणी पर भी दया करना, गुणवान् के प्रति अन्तःकरण में प्रमोद भाव रखना और स्वयं में उन गुणों को प्राप्त करने की इच्छा रखना, ये ही इस जीवन के मुख्य प्रयोजन हैं और मानव-जीवन प्राप्ति का परम ध्येय है। (यही योगवाइ का सदुपयोग है)। इसके बिना यह जीवन फिजूल है और थोड़े से जीवन में अनेक प्रकार का तूफान (उधम) करना; सब दुनियां को हिला डालना या अनुचित आचरण करना और पाप से भारी होना यही वास्तविक नक्षान या मूर्खता है। इस आत्मा में अनन्त शक्ति अगर उस शुभवृत्ति को धारण करे तो उसके लिये मोक्ष कुछ दूर नहीं है। 'समता सब दुःखों की और समता सब सुखों की जड़ है।' इस बात को खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। क्रोध को वश में रखना, विवेक से मान को रटाना, सरलता औषधि से माया-शल्य का नाश करना, संतोष से लाभ का नाश करना, कषायों पर जय प्राप्त करना, विषयों को तज देना, ये समता-प्राप्ति के सच्चे साधन हैं।

समाप्त

: ० :